

'व्याख्यान सार संग्रह' पुस्तकमाला का '६ वाँ पृष्ठा'

श्रीमज्जैनाचार्य

पूज्यश्री जवाहिरलालजी महाराज

के

व्याख्यानों में से—

सनाथ-अनाथ-निर्णय।

सम्पादक—

परिचित शंकरप्रसाद दीक्षित

प्रकाशक—

श्री साधुमार्गी-जैन पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी

महाराज की संप्रदाय का हितेच्छु

श्रावक-मण्डल रतलाम

प्रथम बार
२००० प्रति

अर्द्ध मूल्य २)

सम्यक्
१९९१ वि०

श्रीसाधुमार्गी-जैन पूज्यश्री हुक्मीचन्दजी

महाराज की सम्प्रदाय का हितेच्छु

श्रावक-मण्डल रतलाम (मालवा)

अखिल भारतीय

श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस

द्वारा

श्री साहित्य-निरीक्षक-समिति से

प्रमाणित

मुद्रक—

नथमल लूणिया

आदर्श प्रेस, अजमेर

(केसरगज डाकखाने के पास)

संचालक—जीतमल लूणिया

छपाई और कागज की लागत के हिसाब से इस
पुस्तक का मूल्य १) चार आने है,

लेकिन—

श्रीमान् सेठ पूनमचन्दजी ताराचन्दजी गेलड़ा
साहूकार पेठ, मद्रास

ने

सर्व साधारण इस पुस्तक से लाभ उठा सकें, इस दृष्टि
से आधी लागत प्रदान करके यह पुस्तक

अर्द्ध मूल्य दो आने

में

वितरण कराई है ।

भूमिका ।

सनाथ कौन है और अनाथ कौन है, इस बात का ससार में, बड़ा विवाद रहा करता है। इस विषय में भिन्न-भिन्न लोग अपनी सम्मति अलग अलग बनाते हैं। कोई, धनवान को सनाथ बताता है, धनहीन को अनाथ कहता है, कोई पुत्र कलत्र वाले को सनाथ मानता है जिसके ये नहीं हैं, उसे अनाथ समझता है और कोई शारीरिकबलसम्पन्न को सनाथ समझता है, रोगी, शक्तिहीन लोग उसकी दृष्टि में अनाथ हैं। इस प्रकार इस विषय में 'जितने मुँह उतनी बातें' कहावत चरितार्थ होती है। लेकिन वास्तव में सनाथ कौन है और कौन अनाथ है, इस बात के निर्णय के समीप पहुँचना, जनसाधारण के लिए

बहुत कठिन है। इस बात का निर्णय तो कोई ऐसा महापुरुष ही कर सकता है, जो राग-द्वेष त्याग चुका हो, या उस मार्ग का उग्र पथिक हो। महामुनि सनाथी, ऐसे ही महा-पुरुष थे। इस विषय में उन्होंने जो मन्तव्य प्रकट किया—सनाथ कौन है और अनाथ कौन है इसका—जो निर्णय दिया, वह किसी भी दृष्टि से और किसी को भी अमान्य नहीं हो सकता। महामुनि सनाथी द्वारा दिया गया निर्णय, श्री उत्तराध्ययन सूत्र के २० वें अध्यायन में है।

श्रीमज्जैनाचार्य पूज्य श्री १००८ श्री जवाहिरलालजी महाराज ने बीकानेर चातुर्मास में श्री उत्तराध्ययन सूत्र के २० वें अध्यायन में उल्लिखित महामुनि सनाथी द्वारा दिये गये सनाथ-अनाथ-निर्णय की विस्तृत व्याख्या की थी, जिसे इस मण्डल ने संग्रह कराया था और जो अब पुस्तक रूप में आपके कर-कमलों में है। हमें आशा है कि यह पुस्तक मसार में उपस्थित सनाथ-अनाथ विषयक विवाद को मिटा कर, भव्यजनो को कल्याण-मार्ग की ओर अग्रसर करने में सहायक होगी।

यद्यपि यह पुस्तक अजमेर साधु-सम्मेलन से पूर्व ही तय्यार हो चुकी थी, लेकिन इसका छपना प्रारम्भ नहीं हुआ था। इसलिए साधु सम्मेलन द्वारा बनाये गये नियम के अनुसार यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि यह पुस्तक—'साहित्य-निरीक्षक समिति' से प्रमा-

णित हो जाने के पश्चात् ही प्रकाशित की जावे। तदनुसार मडल ने इस पुस्तक को श्री अरिल भारतीय श्वे० स्था० जैन कान्फ्रेन्स के कार्यालय में भेजा। कान्फ्रेन्स के कार्यालय ने साहित्य-निरीक्षक-समिति से पुस्तक की जाँच करवा कर पुस्तक को प्रकाशित करने की स्वीकृति दी। इस कार्यवाही में कुछ समय लगा और इसी कारण यह पुस्तक अब प्रकाशित हो सकी।

इस पुस्तक के प्रमाण-पत्र के साथ ही कान्फ्रेन्स के कार्यालय से हमें साहित्य निरीक्षक-समिति की ओर से आया हुआ एक सूचनापत्र भी प्राप्त हुआ था। उस सूचनापत्र में, विशेषतः श्रीमान् सेठ भैरोंदानजी साहब सेठिया बिकानेर की ही सूचनाएँ थीं। सेठियाजी की उन सूचनाओं के अनुसार पुस्तक का सशोधन कर देने से पुस्तक में बहुत विशेषता आ गई है। इसके लिए मण्डल, श्रीमान् सेठियाजी का आभार मानता है।

पूज्यश्री के व्याख्यान में से निकले हुए साहित्य का अधिक प्रचार हो, और सन लोग ऐसे साहित्य से लाभ उठा सकें, इस बात को दृष्टि में रखकर मद्रास निवासी श्रीमान् सेठ पूतमचन्द्रजी ताराचन्द्रजी गेलडा ने इस पुस्तक की छपाई कागज आदि की लागत का आधा खर्च अपने पास से प्रदान करके यह पुस्तक आधे मूल्य में ही बँटवाई है। मण्डल, गेलडाजी की इस उदारता का अभिनन्दन करता है, और आशा करता है कि समाज के

अन्य सज्जन भी गेलडाजी की उदारता का अनुकरण करके जन-साधारण को ऐसे उत्तम साहित्य का लाभ पहुँचाने में सहायता करेंगे। इत्यलम्।

रतलाम
भापादी पूर्णिमा
स० १९९१ वि०

भवदीय—

चालचन्द श्रीश्रीमाल वर्दभान पीतलिया

सेक्रेटरी

प्रेसीडेण्ट

श्री साधुमार्गी-जैन पूज्यश्री हुस्मीचन्दजी

महाराज की सम्प्रदाय का हितेच्छु

श्रावक-मण्डल रतलाम

विशेष, जिसका रक्षक नहीं है, कोई सगे सम्बन्धी एवम् मित्र परिजन जिसकी सहायता करनेवाले नहीं हैं, और जो किसी व्यक्ति या जन-समूह का कृपापात्र नहीं है, सासारिक लोग उस प्राणी को अनाथ कहते हैं। इसके विपरीत जिस प्राणी का कोई व्यक्ति विशेष रक्षक है, जिसको किसी की सहायता प्राप्त है, और जिस पर कृपा करनेवाले मौजूद हैं, वह प्राणी सनाथ माना जाता है। सनाथता और अनाथता का यह अर्थ, सासारिक लोगों की दृष्टि से है, अनाथता और सनाथता की यह परिभाषा, धर्म से दूर पड़े हुए लोग करते हैं, लेकिन वास्तव में अनाथता और सनाथता की परिभाषा, कुछ और ही है। अनाथता किसे कहते हैं और सनाथता किसे कहते हैं, यह बात महानिग्रन्थ सनाथी ने महाराजा श्रेणिक को बताई थी। महामुनि सनाथी, केवल परिभाषा बताकर ही नहीं रह गये, किन्तु इसके साथ ही उन्होंने, अनाथता को नष्ट करने एवम् सनाथ बनने का अनुभूत उपाय भी बताया था और यह भी बताया था, कि गई हुई अनाथता फिर किस प्रकार एवम् किन कारणों से आजाती है, और प्राप्त सनाथता किस प्रकार तथा किन कारणों से चली जाती है। शास्त्रकारों की कृपा से, महामुनि सनाथी द्वारा किया गया उक्त प्रकार का वर्णन, उत्तराध्ययन सूत्र के २० वें अध्यायन में सुरक्षित है।

महामुनि सनाथी द्वारा किये गये वर्णन का प्रारम्भ, शास्त्र-कारों ने उत्तराध्ययन सूत्र में इस प्रकार किया है—

सिद्धाण नमो किञ्चा सजयाण च भावओ ।

अत्यधम्मगतिं तच्च अणुसिद्धिं सुणेह म ॥ १ ॥

भावार्थ—सिद्ध और सयति को भाव पूर्वक नमस्कार करके अर्थ और धर्म का सत्य स्वरूप बताने के लिये शास्त्र या शिक्षा को कहता हूँ, उसे सुनिये ।

इस कथा को कहनेवाले वक्ता, श्री सुधर्मा स्वामी—जो भगवान् महावीर के पञ्चमगणधर और पट्ट शिष्य थे—हैं और श्रोता, श्री जम्बू स्वामी हैं । इन दोनों महानुभाव का परस्पर गुरु-शिष्य का सम्बन्ध है । श्री सुधर्मा स्वामी ने श्री जम्बू स्वामी से कहा है, कि अर्थ और धर्म की ओर गति करानेवाली शिक्षा, मैं सिद्ध और सयति को नमस्कार करके कहता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो ।

सिद्ध और सयति को नमस्कार करके, वक्ता महोदय ने, कथा का मगलाचरण किया है । प्रत्येक शुभकार्य में मगलाचरण करना, एक आवश्यक कर्तव्य माना जाता है । मगलाचरण के पश्चात् वक्ता महोदय ने, श्रोता महोदय को, शिक्षा श्रवण करने के लिए सावधान रहने की सूचना दी है ।

श्री सुधर्मा स्वामी द्वारा किये गये मगलाचरण पर से यह

प्रश्न होता है, कि सुधर्मा स्वामी ने, मंगलाचरण में सिद्ध और सयति को ही नमस्कार क्यों किया ? अरिहन्त आचार्य एवम् उपाध्याय को नमस्कार क्यों नहीं किया ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है, कि सिद्ध और सयति को नमस्कार करने से अरिहन्त आचार्य और उपाध्याय को भी नमस्कार हो जाता है। अरिहन्त की गणना सिद्ध में भी हो सकती है और साधुओं में भी। रहे आचार्य और उपाध्याय। आचार्य और उपाध्याय तो साधु ही हैं, इसलिए इनकी गणना साधुओं में होना स्वाभाविक है।

मंगलाचरण करके एवम् श्रोता महोदय को सावधानी से श्रवण करने के लिए सूचना देकर, श्री सुधर्मा स्वामी कहने लगे—

पभूयरयणो राया सेण्णो मगहाहिवो ।

विहार जत्त निज्जाओ माडिकुच्छिसि चेइए ॥ २ ॥

भावार्थ—बहुत रत्नों का धारण करनेवाला अथवा बहुत रत्नों का स्वामी, मगधाधिप राजा श्रेणिक, क्रीडा के लिए निकला और मण्डिकुक्ष नाम के वाग में आया।

श्रीसुधर्मा स्वामी ने, धर्म की ओर गति करने का सच्चा उपाय, इस कथा द्वारा बतलाना प्रारम्भ किया। प्रत्येक कथा के प्रारम्भ में, कथा के पात्र स्थान आदि का परिचय देना आवश्यक है। इस कथा के दो पात्र हैं, एक महाराजा श्रेणिक

और दूसरे महामुनि सनाथी । उक्त गाथा में, वक्ता महोदय ने कथा के एक पात्र महाराजा श्रेणिक का परिचय दिया, कि वह मगध देश का राजा और बहुत से रत्नों का स्वामी था, यानी सम्पत्तिशाली था । राजा श्रेणिक का परिचय देकर, वक्ता महोदय ने, कथा का प्रसंग बतलाया है, कि यह कथा किन प्रसंगों के कारण बनी । इसके लिए कहा है, कि वह राजा श्रेणिक विहार-मनोविनोद-के लिए निकल कर मण्डिकुच नाम के उद्यान (वाग) में आया । अर्थात् इस वर्णन का स्थान, मण्डिकुच उद्यान था । वह उद्यान कैसा था, इसके लिए सुधर्मा स्वामी कहते हैं—

नाया दुम लया इण्ण नाया पक्खिनिसोविय ।

नाया कुसुम सञ्च उज्जाण नदणावम ॥ ३ ॥

भावार्थ—अनेक प्रकार के वृक्ष और एताओं से भरा हुआ वह उद्यान-अनेक प्रकार के पुष्पों से नन्दनवन के समान सुशोभित था । अनेक, प्रकार के पक्षी उम वाग में निवास करते थे ।

इस प्रकार वाग की सुन्दरता का वर्णन करके श्री सुधर्मा-स्वामी कहने लगे—

तत्थ सो पासई साहु सजय सुसमाहिय ।

निसन्न रुक्खमूलाम्मि सुकुमाल सुहोइय ॥ ४ ॥

भावार्थ—राजा श्रेणिक ने, उस वाग में एक वृक्ष के नीचे, समाधि

युक्त निश्चल बैठे हुए एक साधु को देखा, जिनका शरीर सुकुमार एवम् भोग भोगने योग्य था ।

तस्मिन् रूपेण तु पासित्ता राङ्गणो तमि सजए ।

अच्चत परमो आसी अउलो रूपविम्हओ ॥ ५ ॥

भावार्थ—उन साधु के उत्कृष्ट और अनुपम रूप को देख कर राजा श्रेणिक को बहुत आश्चर्य हुआ ।

किसी विशेष-जैसी कि देखो या सुनी न हो, ऐसी-वस्तु या बात के देखने सुनने पर ही आश्चर्य होता है । सामान्य वस्तु या बात के देखने सुनने पर आश्चर्य नहीं होता । यदि इन मुनि का रूप साधारण होता, तो राजा श्रेणिक को आश्चर्य न होता । क्योंकि वह स्वयं भी बहुत सुन्दर था । उसके रूप को देख कर, कई साध्वियें, चेलना रानी के भाग्य की-ऐसा सुन्दर पति पाने के कारण-प्रशंसा करती थीं, तथा अपने तप सयम के फल स्वरूप, दूसरे भव में ऐसा ही सुन्दर पति मिलने की इच्छा करती थीं । जिस राजा श्रेणिक के रूप की कई साध्वियें भी सराहना करती थीं, वह राजा श्रेणिक मुनि के रूप को देख कर आश्चर्य करने लगा, इससे प्रकट है कि वे मुनि अनुपम सुन्दर थे । राजा श्रेणिक ने, यदि किसी दूसरे को उन मुनि के समान सुन्दर देखा होता, तो उसे आश्चर्य न होता क्योंकि फिर उसके लिये मुनि का रूप अप्रतिम न रहता-सामान्य हो जाता ।

राजा श्रेणिक, साश्चर्य विचारने लगा, कि मैं इस वाग में प्राय आया ही करता हूँ, लेकिन आज मुनि के बैठने से यह वाग जैसा मनोहर हो गया है, वैसा मनोहर आज तक और कभी न था। जान पड़ता है, कि जिस प्रकार चन्द्रमा, तारों को आलोकित करता है, और चन्द्रमा प्रदत्त आलोक से तारेण भी प्रकाशित हो उठते हैं, उसी प्रकार ये मुनि भी वाग के वृत्तादि को सौन्दर्य प्रदान कर रहे हैं और मुनि प्रदत्त सौन्दर्य से वाग भी रम्य तथा मनोहर हो गया है। इन मुनि के रूप की समता करने में इन्द्रादि का रूप भी समर्थ नहीं हो सकता।

मुनि के रूप से आश्चर्य चकित बना हुआ राजा श्रेणिक मनमें कहने लगा—

अहो वरणो अहो रूव अज्जस्स सोमया ।

अहो खती अहो मुत्ती अहो भोगे असगया ॥ ६ ॥

भावार्थ—अहा ! इन आर्य का वर्ण (रंग) कैसा है ! इनका रूप कैसा है ! कैसी सरलता पद्य शीतलता है ! कैसी क्षमा है ! कैसी तिलोभता है ! और भोगों से कैसी निम्नहता है !

त्यागने लायक बुरे कामों को त्याग कर, उन कामों से बचे रहने वाले को, 'आर्य' कहते हैं। यह हुआ आर्य शब्द का समुच्चय अर्थ। फिर जो जिस विषय के त्यागने योग्य बुरे कार्यों को त्याग कर, उन बुरे कार्यों से बचा रहता है, उसे उसी विषय

का आर्य कहते हैं। जैसे धर्म-आर्य, देश-आर्य, समाज-आर्य आदि। राजा श्रेणिक ने, उन मुनि को 'आर्य' माना, इससे यह तो प्रकट है, कि राजा श्रेणिक—दुर्विषय-भोग, लोभ, अक्षमा, वञ्चकता आदि त्यागने योग्य हैं, ऐसा जानता था, और इनके त्यागनेवाले को प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखता था।

वर्ण का अर्थ है, रंग। रंग में भी आकर्षण होता है। अन्ध्रा रंग, हृदय को अपनी ओर खींच ही लेता है। मनुष्य का अन्ध्रा या बुरा रंग, शरीर के काले गोरे के भेद से नहीं होता, किन्तु सदाचार और दुराचार के भेद से होता है। सदाचार पालन से, शरीर पर एक विशेष प्रकार का उत्कृष्ट रंग निरूपता है, जो दर्शक को आकर्षित किये बिना नहीं रहता। दुराचारी का वर्ण इसके विपरीत होता है। अनेक बस्त्राभूषण धारण करने, एवं कृत्रिम उपायों से अन्ध्रा रंग बनाने की चेष्टा करने पर भी दुराचारी के शरीर का रंग, दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करने में असमर्थ रहता है।

रूप का अर्थ, आकृति की सुन्दरता है। दूसरे को आकर्षित करने वाला, दूसरे के हृदय पर अपना प्रभाव डालने वाला रूप ही, वास्तविक रूप है।

सरलता, क्षमा और निर्लोभता भी चेहरे पर स्पष्ट दिखाई पड़ती है। विवेकवान की दृष्टि में, सरल और कपटी, क्षमाशील

और क्रोधी, निर्लोभी और लोभी छिपे नहीं रहते। चतुर मनुष्य किसी को देखते ही जान लेता है, कि यह कैसा है।

किसी रागी मनुष्य का, अपनी राग वाली वस्तु—या जिस पर राग है, उस मनुष्य-को देख कर उसे अच्छा मानना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे मनुष्य द्वारा अच्छा माने जाने के कारण, वह अच्छा माना गया व्यक्ति या पदार्थ वास्तव में अच्छा ही है, यह नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वह राग रखनेवाला, उस पदार्थ या व्यक्ति से राग होने के कारण ही उसे अच्छा मान रहा है, न कि उसकी वास्तविक अच्छाई के कारण। उदाहरण के लिए सूअर विष्टा को अच्छा मानता है, लेकिन विष्टा अच्छी वस्तु है, यह बात कोई स्वीकार न करेगा। सूअर को विष्टा से राग है, इसी कारण वह विष्टा को अच्छा मान रहा है। वास्तव में उसमें भक्षण करने योग्य अच्छाई नहीं है।

राजा श्रेणिक को यदि मुनि से राग होता और इस कारण वह मुनि के वर्ण रूप को अच्छा मानता, तब तो बात ही दमरी थी, लेकिन राजा को इन मुनि से राग नहीं है। राजा श्रेणिक स्वयं भी सुन्दर था, और बखालकार भी पहने हुए था, लेकिन उन मुनि के शरीर पर कोई वस्त्र भी रहा होगा, या न रहा होगा। ऐसा होते हुए भी राजा को वे मुनि आश्चर्यकारी सुन्दर प्रतीत हुए, इससे प्रकट है कि उन मुनि का स्वाभाविक रूप ही अनुपम था।

रूप रंग मे भी ऐसा आकर्षण होता है, कि आकर्षित व्यक्ति अपने आप को ही भूल जाता है। कहा जाता है, कि एक बार गोडुल को गोपिया किसी स्थान विशेष पर दीपक जलाने गई थी। इतने में उस ओर कृष्ण आगये। कृष्ण को रूप छटा को देखकर गोपियों अपने आप को इस प्रकार भूल गई, कि उन्होने दीपक की बत्ती जलाने के बदले अपनी-अपनी उँगली ही जला ली। उन्हे यह भी मालूम न रहा, कि हम अपनी उँगली जला रही है, या दीपक। इसी प्रकार की बात मुसलमानों के पैगम्बर यूसुफ के लिए भी कही जाती है। कहा जाता है, कि यूसुफ बहुत सुन्दर था। एक बार कुछ स्त्रियों को—जो यूसुफ के समीप खड़ी यूसुफ को देख रही थी—एक-एक नीचू काटने के लिये दिया गया। वे स्त्रियों, यूसुफ के रूप से आकर्षित होकर अपने आप को इस प्रकार भूली हुई थीं, कि उन्होने नीचू के बदले अपनी-अपनी उँगली ही काट ली और उन स्त्रियों को इस बात का पता तक न लगा।

गोपियों और इन स्त्रियों का, कृष्ण तथा यूसुफ के रूप पर इस प्रकार आकर्षित होने मे तो मोह का कारण भी हो सकता है, लेकिन राजा श्रेणिक का इन मुनि के रूप पर आकर्षित होने में यह कारण भी नहीं था। बल्कि राजा श्रेणिक उस समय तरु चौद्वं मतावलम्बी था, इसलिए उसमें, जैन-साधुओं के प्रति

विशेष भक्ति भी न थी। कई बार वह जैन साधुओं को अपमानित करने की असफल चेष्टा भी कर चुका था। जैन-साधुओं के प्रति भक्ति न होने पर और उन्हें अपमानित करने की भावना होने पर भी राजा श्रेणिक, उन मुनि के रूप से इस प्रकार आकर्षित एवं प्रभावित हुआ, कि उसे यह याद ही न रहा, कि ये मुनि रानी चेलना के उन्हीं गुरुओं में से हैं, जिन्हें अपमानित करने की मैं कई बार चेष्टा कर चुका हूँ। राजा श्रेणिक इस वाग में आया तो था केवल मनो विनोद के लिए, लेकिन पूर्व-सन्धित पुण्य के प्रताप से यहाँ उसे सच्चे धर्म की प्राप्ति होनी थी, इसलिए वह अपने हृदय के दुर्भागों को भूल गया और—

तस्म पाए उ वदित्ता काञ्चण य पयाहिण ।

नाइदूरमणासन्ने पजली पाडिपुच्छई ॥ ७ ॥

भावार्थ—राजा श्रेणिक ने उन मुनि के चरणों को वन्दन करके, उनकी प्रदक्षिणा की और न बहुत समीप न बहुत दूर बैठ कर हाथ जोड़ वह उन मुनि से पृथक् लगा।

उस क्षत्रिय राजा ने अपना वह सिर जो प्राण जाते भी दूसरे किसी के—और विशेषतः जिससे प्रेम नहीं है, उसके-आगे नहीं झुका सकता था, मुनि के पैरों पर डाल दिया। फिर मुनि की प्रदक्षिणा करके वह सभ्यतानुसार इस प्रकार बैठा कि न बहुत

समीप और न बहुत दूर। यह करके, राजा श्रेणिक हाथ जोड़कर मुनि से पूछने लगा—

तरुणो सि अजजो पव्वइओ भोगकालमि सजया ।

उगडिओ सि सामणणे एयमइ सुणामिता ॥ ८ ॥

भारार्थ—हे आर्य ! मैं यह सुनने का इच्छुक हूँ, कि आप भोग के योग्य इस तरुणावस्था में, सयम में क्यों तत्पर हुए ?

राजा श्रेणिक, अब तक यह समझता है, कि मनुष्य शरीर और विशेषतः युवावस्था केवल भोग के ही लिए है, इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई कारण नहीं है। इस समझ पर से ही उसे, इन तरुण मुनि को देख कर यह जानने की इच्छा हुई, कि इनने भोगों को छोड़ कर दीक्षा क्यों लेली ? अर्थात् इन्हें किसी प्रकार का कष्ट था, भोग भोगने या भोग प्राप्त होने की सुविधा नहीं थी इसलिए दीक्षा ली है, या हठवश—केवल इस मनुष्य शरीर तथा इस युवावस्था एवं सुन्दरता का अपमान करने के लिए—सयम लिया है ?

राजा श्रेणिक के उक्त प्रश्न पर से तो यही मतलब निकलता है, कि वह तरुणावस्था को भोग के योग्य समझता था संयम के योग्य नहीं समझता था और भोग को ही उत्तम मानता था, संयम को उत्तम नहीं मानता था। लेकिन पहले उसने मुनि के रम रूप के साथ मुनि की क्षमा, सरलता आदि की जो प्रशंसा

की है, उस पर विचार करने में मालूम होता है कि वह संयम को ही उत्तम समझता था, भोग को उत्तम नहीं समझता था। इस प्रकार ये दोनों धार्तें परम्पर विरोधिनी ठहरती हैं। इसलिए हो सकता है कि राजा श्रेणिक संयम को ही उत्तम मानता रहा हो और मुनि से संयम लेने का कारण जानते के लिए उसने संयम के विरोधी पक्ष को ग्रहण किया हो, तथा इसी वास्ते युवा-वस्था को केवल भोग के योग्य बताई हो।

राजा श्रेणिक के प्रश्न के उत्तर में, वे मुनि कहने लगे—

अणाहो मि महाराय णाहो मज्झ न विज्जई ।

अयुकपग सुहिं वावि फाचि नाभिसमेमह ॥ ६ ॥

भावार्थ—हे महाराजा, मैं अनाथ था, मेरे पर कोई ऐसा नाथ विद्यमान न था, जो मुझ पर कृपा रखता, अप्राप्त वस्तु प्राप्त कराता तथा प्राप्त वस्तु की रक्षा करता। न कोई ऐसा सुहृद् ही था जो मुझ पर दया करके मुझे थोड़ा भी सुख देता।

मुनि के उत्तर का अभिप्राय यह है कि मुझ पर कोई नाथ न था—कोई कृपा करके सुख देने वाला नहीं था—मैं अनाथ था, इसलिए मैंने संयम ले लिया। सनाथी मुनि के इस उत्तर में, साधारण बुद्धि वाले का यह समझना स्वाभाविक है, कि ये गरीब होंगे, इसलिए साधु बन गये, लेकिन सनाथी मुनि के उत्तर में बहुत गूढ़ तत्त्व भरा हुआ है, जो आगे प्रकट होगा।

भावार्थ—हे भयत्राता सयति ! मैं आपका नाथ होता हूँ, यह मनुष्य भव भक्ति दुर्लभ है अतः मित्र ज्ञाति के साथ मिल कर भोग भोगिये

राजा श्रेणिक कहता है, कि हे संयति ! पहले तो यह संभव नहीं, कि आप जैसे ऋद्धि सम्पन्न का कोई नाथ न हो। कदाचित् आपका कथन यथार्थ हो और आप ने अनाथ होने के कारण ही सयम लिया हो, तो लीजिये, मैं आपका नाथ बनता हूँ। अब तो आप अनाथ नहीं रहते हैं, इसलिए उठिये, और मेरे साथ चलिये। यह दुर्लभ मनुष्य-जन्म इस प्रकार सयम में धिताने के लिए नहीं है, किन्तु पुण्य से प्राप्त भोगों का उपभोग करने के लिये है। इस लिए ससार के भोग भोगिये। मेरे नाथ बन जाने पर, आपके लिए किसी भी प्रकार के भोगों की कमी न रहेगी। मैं आप को परार्थीन बनाने के लिए आपका नाथ नहीं बन रहा हूँ, किन्तु आपकी सुविधा के लिए, आपका कष्ट मिटाने के लिए और आप को भोगों से भेंट कराने के लिए ही आपका नाथ बन रहा हूँ। इस लिए आप अविश्वम्भ मेरे साथ चलिये। मुझे भी आप का नाथ बनने में बड़ी असन्नता है। दुःख तो यह है, कि आप मुझे पहले नहीं मिले। यदि पहले ही मिल गये होते तो आपको सयम लेना ही न पड़ता।

राजा के इस कथन में कई रहस्य हैं। मुनि की इस बात पर, कि 'मेरा कोई नाथ नहीं था, इस लिए मैं सयम में प्रव्रजित

हो गया' राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने मुनि के कथन की यथार्थता जानने के लिए, किसी और उपाय के बदले मुनि का नाथ बनने के उपाय का अवलम्बन लेना उचित समझा। उसने विचारा, कि यदि मुनि का कथन सत्य हो, तब तो मैं नाथ बनता हूँ। मेरे नाथ बनने पर यदि ये सयम त्याग कर मेरे साथ आ गये, तो मुझे एक अद्वितीय ऋद्धि-सम्पन्न व्यक्ति की प्राप्ति होगी। और यदि इन मुनि ने केवल वहाना बनाने के लिए अपने को अनाथ बतलाया है, तो मेरे उक्त कथन से मेरी उदारता का दिग्दर्शन होने के साथ ही, मुनि की बात का असली रहस्य भी खुल जावेगा। इसके सिवा, मैं राजा हूँ। कोई अपना दुःख मेरे सामने प्रकट करे, तो उस दुःख को मिटाना मेरा कर्तव्य है। इन मुनि ने अनाथता के दुःख से दुःखित होकर वीक्षा लेने की बात कही है, इस पर भी यदि मैं इनका नाथ न बनूँ, इनकी अनाथता न मिटाऊँ, तो फिर मैं राजा ही कैसा। जो वृक्ष, ताप से दुःखित को छाया देकर शान्ति नहीं पहुँचा सकता, वह वृक्ष ही कैसा। इसलिए मेरा यह कहना कि मैं आपका नाथ बनता हूँ, मेरा कर्तव्य भी है। इस प्रकार कई कारणों को दृष्टि में रखकर ही राजा श्रेणिक ने मुनि से यह कहा, कि मैं आपका नाथ बनता हूँ।

राजा श्रेणिक ने, भोगों के त्यागी मुनि को भोग भोगने के

लिए आमन्त्रित करके एक प्रकार से मुनि की अवज्ञा की, फिर भी वे मुनि, राजा पर रुष्ट नहीं हुए, न उन्होंने राजा की बात से कुछ दुःख ही माना। वे जानते थे, कि मैंने जिस अभिप्राय से अपने-आप को अनाथ बताया, राजा मेरे उस अभिप्राय को नहीं जानता। इसी वास्ते यह मेरा नाथ बनने को तयार हुआ है और मुझे भोगों का प्रलोभन दे रहा है। राजा की बात के उत्तर में उन्होंने राजा से कहा—

अप्पणा वि अणाहो सि सेणिया मग्हाहिवा ।

अप्पणा अणाहो सन्तो कत्त नाहो भविस्ससि ॥१२॥

भावार्थ—हे मगधाधिप श्रेणिक ! तू स्वयं भी तो अनाथ है। जब तू स्वयं ही अनाथ है, तो मेरा नाथ किस प्रकार हो सकता है ?

मुनि की यह बात सुनकर—

एव वुत्तो नरिंदो सो सुसभतां सुविम्हिओ ।

वयण अस्सुयपुव्व 'साहुणा विम्हयनियो ॥१३॥

भावार्थ—पूर्व में जो कभी किसी से नहीं सुनी गई थी, ऐसी बात उन मुनि के मुग्न से सुनकर, राजा श्रेणिक को इतना आश्चर्य हुआ कि उसका चित्त धररा सा गया।

राजा श्रेणिक को, एक तो मुनि के रूप रगादि से ही आश्चर्य था, दूसरे यह आश्चर्य हो रहा था, कि ऐसे ऋद्धिमान अनाथ कैसे। इतने में ही मुनि के इस कथन ने और भी आश्चर्य

कह दिया, कि मुनि को मूठ तो न बोलना चाहिए । वीरों के सिवा और कोई, इस प्रकार स्पष्ट बात कहने का साहस नहीं कर सकता । वीरों के हृदय, स्वच्छ रहते हैं, उनमें साहस होता है, इसलिए वे किसी भी कारण या भय से अपने हृदय के भावों को छिपाते नहीं, किन्तु स्पष्ट प्रकट कर देते हैं । इसके सिवा, जिससे हम अपना भ्रम मिटाना चाहते हैं, उसके सामने मनोगत भावों को छिपाना भी अनुचित है । ऐसा करने से, भ्रम का मिटाना कठिन हो जाता है ।

राजा की बात सुनकर और विशेषतः राजा ने मुनि पर भ्रूपावाद का दोष लगाया इस पर से, उन मुनि को राजा के प्रति किंचित् भी क्रोध, क्षोभ या घृणा नहीं हुई । वे मुनि जानते थे, कि राजा में, मिथ्यात्व (अज्ञान) है, इसी से यह धन सम्पत्ति आदि न होने में ही अनाथता मान रहा है, और इसी कारण यह मेरे कथन को, कि 'तू स्वयं भी अनाथ है ।' मूठ जान रहा है । जब यह अनाथता के रूप को समझ लेगा, तब स्वयं ही अपने-आप को अनाथ मान लेगा । अभी तो यह अपने पक्ष को लेकर कह रहा है, और मैं अपने पक्ष को लेकर कह रहा हूँ । मुझे अपना पक्ष इसे समझाना चाहिए । इस प्रकार विचार कर, मुनि ने कहा—

जाती है। इस प्रकार सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली सम्पत्ति का स्वामी होते हुए भी मैं अनाथ कैसे हूँ ? हे भगवन् ! आप झूठ तो न बोलिए।

राजा श्रेणिक, अपनी सम्पदा के कारण अपने आप को सनाथ मान रहा है। वह सोचता है, कि मेरे पास ऐसी तो सम्पदा है, और यह सम्पदा भी मेरे पास उसी प्रकार आई है, जिस प्रकार नदियाँ समुद्र के पास जाती हैं—यानी इस सम्पदा के लिए, न तो मैंने किसी के आगे दीनता ही दिखाई है, न मेरे पास आने के लिए इस सम्पदा से ही प्रार्थना की है। ऐसा होते हुए भी मैं अनाथ कैसे ! राजा श्रेणिक की दृष्टि में, अनाथ वही है, जिसके पास ऐसी सम्पदा का थोड़ा भी भाग न हो। आज भी, सासारिक लोग उसे ही अनाथ मानते हैं, जो द्रव्यहीन, कुटुम्बहीन एवं मित्रहीन हो, लेकिन ऐसा समझना कैसी भूल है, यह बात अनाथी मुनि ने बतलाई है।

राजा श्रेणिक, वीर था। वीर लोग, हृदय के भावों को दबाकर नहीं रखते, किन्तु स्पष्ट रूप से प्रकट कर देते हैं। राजा श्रेणिक, अनाथ उसे ही मानता था, जो द्रव्य, कुटुम्ब, एवं मित्रहीन हो, इसलिए मुनि की बात उसे झूठ मालूम हुई। मुनि की बात के विषय में उसे जो भ्रम हुआ, उस भ्रम को उसने छिपा कर नहीं रखा, किन्तु वह वीर था, इसलिए उसने स्पष्ट

मुनि ने, राजा श्रेणिक को सावधान करने के लिए कहा है, कि तू अविच्छिन्न यानी एकप्र-मन से मेरी बात सुन । वास्तव में कोई बात उस समय तक समझने नहीं आती, जब तक कि चित्त स्थिर न हो । स्थिर चित्त से मुनी हुई बात को, बुद्धि उसी प्रकार शीघ्र ग्रहण करती है, जिन प्रकार स्थिर जल प्रतिबिम्ब दिखाने में ढेर नहीं करता । गूँलते हुए जल में, अनेक उपाय करने पर भी प्रतिबिम्ब दिखाई नहीं देता । ठीक इसी प्रकार चाहे कैसी भी अच्छी बात हो, चाहे कैसा भी उत्तम विषय हो, जब तक चित्त स्थिर न होगा, बुद्धि उस बात या उस विषय को ग्रहण करने में अममर्ष ही रहेगी ।

राजा श्रेणिक को, अनाथता सनाथता का भेद सुनने के लिए तत्पर देख मुनि कहने लगे—

कौशम्बी नाम नयरी पुराण पुर भेयणी ।

तत्थ आसी पिया मज्झ पमयधणसचञ्चो ॥१६॥

भावार्थ—कौशम्बी नाम की नगरी—जो प्राचीन से भी प्राचीन थी प्राचीन कहलाने वाले नगरों की प्राचीनता का भी उल्लेख करनेवाली थी, मैं मेरे पिता रहते थे, जिनके पास प्रचुर धन संचित था (या उनका नाम प्रचुरधनसचयी था ।)

कौशम्बी नगरी की प्राचीनता बताने में, मुनि का अभिप्राय उस नगरी की विशेषता बताना है । प्राचीन नगरों में जो विशेष-

न तुम जाणे अणाहस्त अत्य पुत्य च पत्थिवा ।
 जहा अणाहो भवई सणाहो वा नराहिना ॥१६॥
 सुणेह मे महाराय अक्खविस्वतेण चयसा
 जहा अणाहो भवई जहा मेय पवत्तिय ॥१७॥

भावार्थ—हे पृथ्वीपति, हे नराधिप, तुम नाथ शब्द का अर्थ और उसकी व्युत्पत्ति नहीं जानते हो, न यह जानते हो, कि अनाथ या सनाथ किस प्रकार होता है । इसलिए हे महाराजा, अनाथ किसे कहते हैं, और मैंने आपको किस आशय से अनाथ कहा है, यह पुराण चित्त से सुनो ।

मुनि ने, राजा श्रेणिक को, पृथ्वीपति, नराधिप और महाराजा कह कर सम्बोधन किया है । इस प्रकार के सम्बोधनों द्वारा, उन मुनि ने राजा श्रेणिक पर यह प्रकट किया कि तू राजा है, पृथ्वी एवं मनुष्यों का स्वामी है और इस कारण तेरे पास धन-वैभवं भी बहुत है, यह मैं जानता हूँ । यह जानते हुए भी, मैंने तुम्हें अनाथ क्यों कहा, इस बात को मेरे ही द्वारा सुन । अभी तो तेरे को मेरी बात अमत्य जान पड़ी है, लेकिन 'नाथ' शब्द का अर्थ और अनाथता-सनाथता का भेद जान लेने पर तेरे को मेरी बात सत्य जान पड़ेगी । अनाथता-सनाथता का भेद मैं केवल विद्वता की सहायता से ही नहीं बताऊँगा, किन्तु अनुभूत बताऊँगा । अनाथता किसे कहते हैं और वह कैसी होती है, यह मैं अपने पर से ही बताता हूँ ।

जन्म-स्थान एव पिता का परिचय देकर वे मुनि अब यह बताते हैं, कि मैं किस प्रकार अनाथ था। सब से पहले, वे, राजा को अपनी शरीर सम्बन्धी अनाथता सुनाकर यह बताते हैं, कि जिस शरीर को तू बहुत अच्छा बताता है, जिस युवावस्था को, तू भोग के योग्य मानता है, उस शरीर एव युवावस्था की ओर से मैं किस प्रकार अनाथ था, इसे देख और अपने आप के लिए भी विचार कि मेरी ही तरह तू भी अनाथ है या नहीं। वे मुनि कहने लगे—

पदमे वए महाराय अतुला मे अच्छिवेयणा

अहोत्था विउत्तो दाहो सबगसेसु पत्थिवा ॥१६॥

भावार्थ—हे महाराजा, हे पृथ्वीपति, युवावस्था के प्रारम्भ में, मेरी इन भाँखों में अनुपम वेदना उत्पन्न हो गई और इसी प्रकार सारे शरीर में प्रचण्ड दाह उत्पन्न होगया।

मुनि ने, शरीर में भी पहले, युवावस्था की ओर से अनाथता बताई है। क्योंकि राजा श्रेणिक ने, भोग के लिए शरीर की अपेक्षा युवावस्था को अधिक उपयोगी मान रखा था। युवावस्था में होनेवाली पीडा का वर्णन करके, वे मुनि, राजा श्रेणिक को यह बता रहे हैं, कि राजा, जिस युवावस्था को तू भोग के योग्य मानता है उस युवावस्था में भी किस प्रकार की अनाथता घुसी हुई है, यह देख। आगे अर्थापति अलंकार द्वारा

मुनि ने यह भी बता दिया है, कि मेरे स्त्री भी थी और वह सुन्दरी तथा पतिभक्ता थी। अर्थात् युवावस्था के साथ ही भोग के साधन भी प्राप्त थे, फिर भी मैं युवावस्था की ओर से किम प्रकार अनाथ था।

युवावस्था के प्रारम्भ में उत्पन्न आँसुओं की वेदना कैसी थी, यह बताने के लिये मुनि कहते हैं—

सत्य जहा परमतिवख सररीर निवरतरं ।

आवीलिज्ज अरी कुद्धो एव मे अच्चिवेयणा ॥२०॥

भावार्थ—सोपा हुआ ऋतु, शरीर के छिद्रों में तीक्ष्ण शस्त्र घुसेडे और उस समय में जैसी वेदना हो, वैसी ही वेदना मेरी आँसुओं में हो रही थी।

मुनि कहते हैं—राजा, तेरे कथनानुसार युवावस्था में आँसुए स्त्री-सौन्दर्य देखने के लिए थी, लेकिन आँसुओं में ऐसी वेदना हो रही थी, कि स्त्री-सौन्दर्य देखने के स्थान पर मैं यह कहता था, कि ये आँसुए हैं ही क्यों? इसी प्रकार युवावस्था के लिए भी, मैं यही कहता था, कि निगोडी युवावस्था न मालूम कैसी आई, जिसके आते ही मेरी आँसुओं में इस प्रकार की वेदना होने लगी। अब राजा, तू ही बता, कि मैं युवावस्था और आँसुओं की ओर से सनाथ रहा या अनाथ? यदि मैं इनकी ओर से सनाथ होता, तो इनके द्वारा मुझे कष्ट ही क्यों होता? मैं युवावस्था और आँसुओं की ओर से सनाथ नहीं था, किन्तु अनाथ था। इसी प्रकार

मेरी ओर से भी युवावस्था और आँखें अनाथा थीं। मैं तो यह चाहता नहीं था, कि इस युवावस्था में आँखों को इस प्रकार की पीड़ा हो। मैं तो यही चाहता था, कि इस युवावस्था और आँखों द्वारा सुख हो, ठीकी प्रकार युवावस्था और आँखें भी सुख ही चाहती थीं, लेकिन न तो मेरा चाहा ही हुआ, न युवावस्था और आँखों का चाहा ही हुआ। ऐसी तशा में मैं इनकी ओर से कैसे सनाथ रहा और युवावस्था एवं आँखें भी मेरी ओर से कैसे मनाथा रहीं ?

हे राजा, आँखों में इस प्रकार की पीड़ा थी, शरीर दाह से दग्ध हो रहा था, उम्र पर भी—

तिथ मे अन्तरिच्छ च उत्तमङ्ग च पडिई ।

इन्दासणि समा धारा वेयणा परमदारुणा ॥२१॥

भावार्थ - हृदय कमर तथा मस्तक में ऐसी असह्य एवं दारुण वेदना हो रही थी, जमे इन्द्र के वज्राघात से घोर वेदना होती हो।

मुनि कह रहे हैं, कि मेरी इन आँखों में जैसे शत्रु तीक्ष्ण शस्त्र चुसेडता हो, शरीर में जैसे डाला लगी हो, और हृदय कमर तथा मस्तक में जैसे इन्द्र वज्र मारता हो, ऐसी दारुण पीड़ा हो रही थी। मुनि के इस कथन का अभिप्राय राजा को यह बताना है कि तू वाह्य शत्रुओं को जीतने के लिये सेना का बल रखता है, लेकिन जो शत्रु शरीर के भीतर रह कर ही इस प्रकार की पीड़ा

उपजावे, उसे जीतने क तेरे पास क्या उपाय है ? जो शत्रु चर्म-चक्षु से दिखता है, उसे तो तू कभी नष्ट भी कर सकता है लेकिन जो शत्रु अपने ही शरीर के भीतर रहना हुआ भी नजर नहीं आता उसे तू कैसे नष्ट कर सकता है ? इसके सिवा वेदना के समय शरीर आँखे आदि शत्रु का काम कर रही थीं, या मित्र का ? यदि मित्र का काम करतीं, तब तो वेदना हो क्यों होती, और शत्रु का काम करती थीं, तब तो मैं उनकी ओर से सनाथ कैसे रहा ? राजा तू मेरा नाथ बनने को तयार हुआ है, लेकिन मेरे कथन पर से तू अपने आप के लिये भी विचार ले, कि तू अपने शरीर की ओर से सनाथ है या अनाथ ? ससार में, आत्मा का निकट में निकट सम्बन्धी शरीर है। इस निकट सम्बन्धी शरीर की ओर से भी मैं किस प्रकार अनाथ था और तू भी किस प्रकार अनाथ है, इसे देख। क्या यह मनुष्य शरीर रोग रहित है ? यदि नहीं, तो जो स्वयं अनाथ है-जो अपने आप की ही रक्षा करने में असमर्थ है-वह मेरा नाथ कैसे हो सकता है ? इसी प्रकार शरीर भी मेरी ओर से सनाथ कैसे रहा ? यदि मैं शरीर का नाथ होता, तो शरीर में वेदना ही क्यों होने देता ?

राजा कदाचित तू यह कहे, कि रोगों को तो औषधादि से निर्मूल भी किया जा सकता है, तो सुन—

उवट्ठिता मे आयरिया विज्जामंत तिगिच्छया ।

अधी या सत्थ कुसला मन्त मूल विसारया ॥२२॥

भावार्थ—मन्त्र और जडा घूटी से रोग मिटाने में विशारद, चिकित्सा के उपयोगी शास्त्र एवं शास्त्र के कुशल विद्वान् आचार्य चिकित्सक मेरी चिकित्सा करने के लिए आए ।

मुनि ने शरीर में रोगों की उत्पत्ति बता कर, शरीर की ओर से अनाथता बताई थी, लेकिन इसके विषय में श्रेणिक राजा यह कह सकता था, कि रोग तो कुशल वैद्यों द्वारा मिटाये जा सकते हैं । राजा श्रेणिक द्वारा कही जा सकने वाली बात का मुनि पहले से ही निराकरण कर देन हैं । कहते हैं—राजा, तू यह मत समझ, कि मैं वैशादि उपचार के अभाव से वेदना पा रहा था । यह मैं पहले ही कह चुका हूँ, कि कौशम्भी नगरी प्राचीन से भी प्राचीन थी । उसकी प्राचीनता के कारण उसमें वैद्यों के भी आचार्य रहते थे । वे वैद्याचार्य, मन्त्र-विद्या में भी निपुण थे, और जडी घूटी द्वारा औषध करने में भी कुशल थे । उनका अनुभव ऐसा बड़ा हुआ था, कि वे रोगी को देखते ही रोग का निदान कर लेते थे, और एक ही बार के मन्त्र पढ़ने या ऋचा देने से, वे रोग को मिटा देते थे ।

ते मे तिगिच्छ कुव्वन्ति चाउण्णाय जहाहित ।

न य दुक्त्वा विमोयन्ति एसा मज्जक अण्णाहया ॥२३॥

भावार्थ—वे वैद्याचार्य मुझे निरोग करने के लिए, रोग का निदान करना, ओषधि देना, पथ्र सेवन कराना और परिचर्या कराना, अथवा वमन, विरेचन, मर्दन और म्वेशन, अथवा अजन, प्रवन, लेपन और मर्दन इन चारों प्रकार से मेरी चिकित्सा करने लगे, मगर मुझे दुःख मुक्त न कर सके। इस प्रकार का मेरा अनाथता था।

मुनि कह रहे हैं—राजा, इस प्रकार मेरे लिए बड़े-बड़े आचार्यों द्वारा आप-आपचार हुआ, लेकिन मेरा रोग नहीं गया। अब बतला, कि मैं वैद्य औषध आदि की ओर से भी अनाथ था या नहीं और इस ओर से तू भी अनाथ है या नहीं ?

मुनि की बात सुन कर, राजा त्रेणिक विचारता है, कि वास्तव में यदि शरीर में रोग हो जावे, तो अधिक से अधिक उन्हे मिटाने के लिए औषधोपचार आदि ही किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है। लेकिन यदि औषधोपचार से भी रोग न जावे, तो मैं राजा होकर भी क्या कर सकता हूँ ? औषधादि से सबका रोग जाता भी तो नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई बाहर में शस्त्र मारता हो, तो उसे रोका जा सकता है, लेकिन अपने शरीर के भीतर से शस्त्र मारने वाले को कैसे रोका जा सकता है ? इस ओर से तो सचमुच मैं भी अनाथ ही हूँ।

मुनि कहते हैं—राजा, वैद्य आदि की ओर से तो मैं अनाथ

था ही, लेकिन औषध मन्त्र आदि का आश्रय ग्रहण करने वाले— उनके बल पर अपने को सनाथ मानने वाले—वे वैद्य स्वयं भी अनाथ थे। यदि वे अनाथ न होते, तो औषध मन्त्र आदि का आश्रय ही क्यों लेते। उनसे जिन औषध मन्त्र का आश्रय लिया है, वे औषध मन्त्र उनको स्वयं को भी तो कष्ट-मुक्त नहीं कर सकते। इस प्रकार जब वैद्य स्वयं ही अनाथ थे, तब मुझे कष्ट-मुक्त करने सनाथ कैसे बना सकते थे ?

यहाँ ये प्रश्न होते हैं कि मुनि के शरीर में रोग हुए इस पर से उन्होंने शरीर को और से अनाथत, सिद्ध की, लेकिन सभी लोगों के शरीर में तो ऐसे रोग होते नहीं हैं, बहुत लोग त्रिलकुल स्वस्थ भी होते हैं। ऐसी दशा में, शरीर को और से सनाथ ही है, यह कैसे कहा जा सकता है ? इसी प्रकार वैद्य औषधादि में, मुनि का रोग नहीं गया तो क्या हुआ, लेकिन और लोगों का रोग जाते भी तो दखा जाता है। फिर वेद्य या औषधादि की ओर से भी अनाथता कैसे सिद्ध हो सकती है ? कदाचित् ये मुनि तो इस ओर से अनाथ करे भी जा सकते हैं—क्योंकि इन्हें रोग हुए और वे रोग वैद्यादि से नहीं मिले—लेकिन जो लोग निरोगी हैं, या रोग होने पर भी जिन्हें वैद्य औषधादि से लाभ पहुँचाना है, वे तो सनाथ हैं न ? हाँ, मनुष्य-शरीर सर्वथा रोग रहित नहीं है, लेकिन जब तक रोग रहित है, तब तक

तो शरीर की ओर से अनाथता नहीं है न ? इन प्रश्नों का समाधान, सक्षिप्त में नीचे किया जाता है ।

मुनि ने राजा श्रेणिक से कहा है, कि 'मैं अनाथ था ।' उन के द्वारा कहा गया 'मैं' सर्वनाम आत्मा का है, न कि शरीर का । यानी यह आत्मा अनाथ था । यदि उन्होंने शरीर के लिए 'मैं' सर्वनाम का प्रयोग किया होता, तो उन्हें शरीर की ओर से अनाथता सिद्ध करने की आवश्यकता न रहती । उन्होंने आत्मा को अनाथ बता कर, सबसे पहले निकट-सम्बन्धी शरीर की ओर से आत्मा की अनाथता सिद्ध की है । शरीर रोग शोक,दि दु खों से ग्रहित है, यह कोई नहीं कह सकता, और जब शरीर स्वयं भी दु ख सहित है, तो वह दूसरे को-यानी आत्मा को-सनाथ कैसे कर सकता है ? इसके सिवा, शरीर जड है । जड शरीर, चैतन्य आत्मा का नाथ भी कैसे हो सकता इसी प्रकार यदि आत्म, भी शरीर का नाथ होता, तो आत्मा शरीर में रोग आने ही क्यों देता ? आत्मा कब चाहता है कि शरीर में रोग हो ? आत्मा के विना चाहे ही शरीर को रोग आ घेरते हैं, इस से सिद्ध है कि आत्मा की ओर से शरीर भी अनाथ है । इस प्रकार मुनि का शरीर की ओर से आत्मा को और आत्मा की ओर से शरीर को अनाथ बताना, विलकुल ठीक ही है । जो शरीर इस समय रोगी नहीं है, वह भी अनाथ ही

है। क्योंकि अभी रोग उदय में न आये हो तो क्या, लेकिन शरीर में रोग हैं अवश्य। और जब शरीर में रोग हैं, तो वे अवश्य ही उदय में आवेंगे। अभी रोग उदय में नहीं आये हैं, इस कारण शरीर को रोग-रहित उसी प्रकार नहीं माना जा सकता, जिस प्रकार हमला न करनेवाले-बुपचाप बैठे रहनेवाले, बल्कि अधीनता स्वीकार करनेवाले-शत्रुओं के भी रहते कोई आदमी शत्रु-रहित नहीं कहा जा सकता। शत्रु-रहित तो वही कहा जावेगा, जिसका गुप्त या प्रकट, प्रत्यक्ष या परोक्ष, बलवान या निर्बल-कैसा भी-शत्रु नहीं है। इसी प्रकार जबतक शरीर में रोग गुप्त भी हैं, तबतक शरीर, रोग-रहित नहीं है और जो शरीर स्वयं ही रोग-ग्रस्त है, स्वयं ही अनाथ है, वह आत्मा की अनाथता कैसे मिटा सकता है? - और आत्मा भी जब रोगों से शरीर की रक्षा नहीं कर सकता, तब वह भी शरीर का नश्य कैसे हो सकता है ?

। सुनि की दृष्टि में, औषध मन्त्र आदि जानने और उनके द्वारा दूसरे का रोग मिटाने की चेष्टा करनेवाले—या रोग मिटानेवाले वैद्य भी अनाथ हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को स्वयं को भी रोगों का भय है। उनके शरीर में भी रोग होते हैं, तथा जिन उपचारों द्वारा वे लोग दूसरे को रोग मुक्त करना चाहते हैं, उन उपचारों द्वारा वे स्वयं का रोग मिटाने में प्रायः असमर्थ रहते हैं।

इस प्रकार से वैद्य, स्वयं भी अनाथ हैं और जिन औषध मन्त्र आदि का उन्होंने आश्रय ले रखा है, वे औषध मन्त्र भी अनाथ हैं। यदि औषध मन्त्रादि अनाथ न होते, किन्तु सनाथ होते, तो जिन लोगों ने उनका आश्रय ले रखा है, वे लोग अनाथ कैसे रहते ?

आत्मा, स्वयं अनाथ है, इससे अपने निकट-सम्बन्धी शरीर को भी रोगादि से बचाकर सनाथ नहीं बना सकता। इस पर भी, अपनी अनाथता का ध्यान न करके, यह सनाथ होने के लिए वैद्यादि की शरण जाता है, लेकिन वैद्यादि स्वयं भी अनाथ हैं, इससे वे औषधादि की शरण जाते हैं। इस प्रकार पुरम्परा पर ये सब अनाथ ही ठहरते हैं, और जो स्वयं की ही अनाथता नहीं मिटा सका है, वह दूसरे को सनाथ कैसे बना सकता है ?

१० आत्मा का, शरीर में रहना आत्मा की पहली कमजोरी है। शरीर में रहना, आत्मा की अनाथता का ही कारण है। फिर अपने आप को शरीर का नाथ मान कर भी, शरीर में रोग होने देना, आत्मा की दूसरी कमजोरी है। पूर्ण बलवान—सनाथ-आत्मा, शरीर में रहता ही नहीं है, वह तो शारीरिक-बन्धन से मुक्त हो जाता है। ऐसे पूर्ण बलवान की अपेक्षा मध्यम दर्जे का बलवान आत्मा, शरीर में तो रहता है, लेकिन शरीर में, रोग नहीं आने देता। रोग, निर्बल आत्मा के शरीर में ही होते हैं,

और वह भी उसकी (आत्मा की) निर्बलता के कारण । आत्मा के लिए उचित तो यह है, कि जिस निर्बलता के कारण, रोग आये हैं, उस निर्बलता को ही मिटा दे, लेकिन यह न करके वैद्यादि की शरण जाना, आत्मा की तीमरी कमजोरी है । रोग होने पर, आत्मा, वैद्यादि-की शरण में गया और औषधादि उपचार से रोग मिट भी गये, तब भी आत्मा की कमजोरी में वृद्धि हो जाती है और आत्मा अधिक अनाथता में पड जाता है । क्योंकि फिर आत्मा यह समझने लगता है, कि मेरा अस्तित्व वैद्य औषधादि की कृपा से ही है । इस प्रकार आत्मा, स्वयं का धल स्रोता जाता है और वैद्य औषधादि के आश्रित होता जाता है । सारांश यह, कि वैद्य और औषधादि से चाहे रोग मिट भी जाते हों, लेकिन इनसे आत्मा सनाथ नहीं होता, किन्तु आत्मा की अनाथता बढ़ती है । आत्मा की अनाथता मिट कर आत्मा सनाथ कैसे हो सकता है, यह बात इन्हीं मुनि ने आगे बतलाई है ।

मुनि ने, अवस्था, शरीर, वैद्य और औषध आदि की तरफ से तो आत्मा की अनाथता मिट्ट कर दी । अब वे कहते हैं— राजा, यदि नू यह मोचता हो, कि वैद्यादि ने धन न मिलने के कारण अच्छी तरह उपचार न किया होगा, या, धन व्यय न कर सकने के कारण, अच्छी-अच्छी औषधियाँ तथा पथ्य की वस्तुएँ

प्राप्त न हो सकी होंगी, या आपके माता-पिता आदि की ओर से आपकी सुश्रूपा न हुई होगी, तो इसके लिए भी सुन।

पिया मे सव्व सारं पि दिज्जा हि मम कारणा ।

न य दुक्खाउ विमोयन्ति एसा मज्झ अणाहया ॥२४॥

भावार्थ—मेरे पिता, मेरे लिए—मेरे को कष्ट-मुक्त कराने के लिए—पर का सर्वस्व देने को तयार थे, फिर भी ये मेरे को दुःख मुक्त न करा सके। इस प्रकार मेरी बनायता थी।

राजा, मैं यह पहले ही कह चुका हूँ, कि मेरे पिता बहुत बड़ी सम्पत्ति के स्वामी थे। बहुत-से पिता ऐसे भी होते हैं, कि जो सन्तान की अपेक्षा द्रव्य को अधिक समझते हैं, सन्तान को दुःखी एव नष्ट होते देख सकते हैं, किन्तु धन व्यय होता नहीं देख सकते, लेकिन मेरे पिता ऐसे न थे। वे, सन्तान की अपेक्षा धन को तुच्छ समझते थे। मेरी रुग्णवस्था के समय, वे अधिक से अधिक यही कर सकते थे, कि अच्छे-अच्छे वैद्यों को बुलाकर उनसे मेरा उपचार करावे, मेरे उपचार में द्रव्य व्यय करें और मेरी परिचर्या का प्रबन्ध करें। मेरे पिता ने यह सब किया। उन्होंने बड़े-बड़े वैद्याचार्यों को बुलावाकर मेरा उपचार कराया, बहुमूल्य औषधियाँ दिलवाई, मुझे अच्छा कर देने के बदले अपने घर का सर्वस्व देने को तयार थे, मेरी परिचर्या में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी, फिर भी वे मेरा दुःख न मिटा सके।

राजा, ऐसी दशा में, मैं पिता और धन की ओर से भी सनाथ कैसे रहा ? इसी प्रकार मेरी ओर से पिता भी कैसे सनाथ रहे ? मेरी ओर से पिता तभी सनाथ हो सकते थे, जब मेरे द्वारा उन्हें सुख प्राप्त होता और पुत्र के कर्तव्यानुसार मैं उनका दुःख मिटाता । लेकिन दुःख मिटाकर, सुख देने के स्थान पर मैं, पिता को अधिक दुःखी बना रहा था, उनकी चिन्ता बढ़ा रहा था, उनका धन व्यय करा रहा था और उनपर कार्य का बोझ डाल रहा था । जब जन्मदाता पिता भी मुझे सनाथ न कर सके, न मैं ही उन्हें सनाथ बना सका, तब तू मेरा नाथ बनकर मुझे सनाथ कैसे कर सकेगा, इसे विचार ।

मुनि की बात सुनकर, राजा श्रेणिक विचारता है, कि वास्तव में यह बात तो ठीक ही है । मैं, अपने पुत्रों पर अभिमान करता हूँ, परन्तु ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर, मैं पुत्रों की तथा पुत्र मेरी रक्षा करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं ? कदाचित् बाह्य शत्रुओं का आक्रमण होने पर तो मैं उनकी और वे मेरी रक्षा करने की चेष्टा कर भी सकते हैं, लेकिन मुनि के शरीर में जिस प्रकार रोग-शत्रु, आक्रमण करते थे, उसी प्रकार मेरे या पुत्रों के शरीर में आघात करे, तो मैं या पुत्र दोनों क्या कर सकते हैं ? अधिक-से-अधिक, वैद्यादि द्वारा उपचार करा सकते हैं, लेकिन उपचारों से लाभ न होने पर क्या किया जा

सकता है। और जब मैं पुत्रों का, तथा पुत्र मेरा दुःख दूर नहीं कर सकते—सुखी नहीं बना सकते—तब पुत्रों की तरफ से मैं और मेरी तरफ से पुत्र, सनाथ कैसे रहे ? इसी प्रकार मैं अपने द्रव्य पर अभिमान करता हूँ, द्रव्य के कारण अपने आपको सनाथ मानता हूँ, लेकिन ऐसे समय में, द्रव्य भी तो रक्षा नहीं कर सकता। यदि द्रव्य ऐसे समय में रक्षा कर सकता होता, तो इन मुनि के लिये इतना द्रव्य व्यय किया गया, फिर भी ये सुखी क्यों न हुए। मुनि का मुझे अनाथ कहना, ठीक ही है। सचमुच मैं अनाथ हूँ, तथा जब मैं स्वयं भी सनाथ नहीं हूँ, तब इन मुनि का नाथ कैसे हो सकता हूँ।

“मुनि ने, अवस्था, शरीर, वैद्य, औषधादि, पिता और द्रव्य की ओर से अनाथता सिद्ध करके राजा को यह बतला दिया; कि इनकी ओर से तू भी अनाथ है। अब वे कहते हैं—राजा, तू कभी यह कहे, कि पिता की अपेक्षा माता का पुत्र पर अधिक स्नेह होता है, वह पुत्र की अधिक परिचर्या कर सकती है, आपके माता न होगी, इसलिए आप रोग-मुक्त न हुए होंगे। लेकिन राजा, मेरी माता भी थी। कई पुत्रों की माताएँ, पुत्र को याताक छोड़ कर ही मर जाती हैं, लेकिन मेरी माता जीवित थी और—

माया मे महाराय पुत्र सोग दुहडिया । ३

न य दुक्खाउ विमोयन्ति एसा भुक्क अणाहया ॥२५॥

भावार्थ—हे महाराजा, मेरी माता, मेरे दुःख से दुःखी रहा करती थी, फिर भी वह मुझे दुःख से न छुड़ा सकी। ऐसी मेरी अनाथता थी।

मुनि कहते हैं—राजा, कई लोगों की माताएँ, अपने पुत्र से प्रेम नहीं करती हैं, कई की माताएँ ऐसी निष्ठुर भी होती हैं, कि अपने पुत्र को मार तक डालती हैं, लेकिन मेरी माता ऐसी न थी। मेरी माता, मुझ पर बहुत कृपा रखती थी, मुझ पर सदा दया किया करती थी, और मुझे दुःख में देख कर दुःखी रहती थी। वह, दिन-रात मेरी चिन्ता करती, मेरी परिचर्या करती, मेरा दुःख मिटाने के लिए—मुझे सुखी बनाने के लिए—प्रत्येक सम्भव उपाय काम में लाती, लेकिन फिर भी वह मेरा दुःख न मिटा सकी। माता की दया, माता की कृपा, माता की परिचर्या और माता का मेरे लिए दुःख करना, मेरे किसी काम न आया। बल्कि, माता को दुःखी देख कर मैं और दुःखी होता था। मैं सोचना था, कि माता को दुःखी बनाने का कारण, मैं ही हूँ। इस प्रकार माता का दुःख करना, मेरे लिए दुःखवर्द्धक तो हुआ, लेकिन मुझे दुःख-मुक्त न कर सका। मेरे शरीर में जो वेदना हो रही थी, उसे माता किसी भी प्रकार न मिटा सकी। यदि कोई बाह्य शत्रु मेरे शरीर पर आघात करता होता, तो मेरी माता,

श्रीरेति ॥ ३५ ॥ अनाथस्य ।

अपने प्राण देकर भी उस शत्रु से मेरी रक्षा करती, शत्रु के आघातों को अपने ऊपर सहती, लेकिन मेरे शरीर ही में छिपे हुए शत्रु के आघातों से वह मेरी रक्षा न कर सकी। इस प्रकार मैं, माता की ओर से अनाथ था।

राजा, माता की ओर से मैं ही अनाथ न था, किन्तु मेरी ओर से माता भी अनाथ ही थी। पुत्र का कर्त्तव्य है, कि वह माता को सुखी बनावे तथा उसके दुःख दूर करे। मेरी माता, सब प्रकार से सुखी थी। उसके पुत्र थे, पुत्रवधू थी, सब उसकी आज्ञा मानते थे और पिता भी उस पर प्रसन्न रहते थे। घर में भी, किसी प्रकार की कमी न थी। फिर भी मेरी वेदना के कारण, माता दुःखी हो रही थी। मैं, उसके सुप्त-बन्धु को प्रसने वाला राहु बना हुआ था। उसे सुख पहुँचाना तो दूर रहा, किन्तु अपनी वेदना से मैं उसे और दुःखी बना रहा था। मेरे कारण, उसका सारा सुखमय संसार, दुःखमय बन गया था। वह मृत्यु के दुःख से भी अधिक दुःख अनुभव कर रही थी।

अब मुनि, राजा श्रेणिक को यह बता रहे हैं, कि मेरे पुण्य से, मुझे भाई भी मिले थे। मसार में, और सब का मिलना इतना कठिन नहीं है, जितना कठिन भाई का मिलना है। हाँ, जो लोग धन-वैभव को ही अधिक समझते हैं, उनकी दृष्टि में तो भाई, असंमान वैरी है। वे समझते हैं, कि भाई ने माता के पेट

में आकर, मुझे माता के दूध से वंचित कर दिया, जन्म लेकर माता पिता के स्नेह में हिस्सा करा लिया और बड़ा होकर धन चँटवा लिया। इस प्रकार के लोग, भाई को वैरी मानते हैं, परन्तु ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो भाई को सर्वोत्कृष्ट मानते हों, तथा यह समझते हों कि ससार में और सब का मिलना तो सरल है, लेकिन भाई का मिलना बहुत कठिन है। तुलसीदासजी ने, रामायण में, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर, राम से विलाप कराते हुए कहलवाया है—

मात पिता जग, होतई जगता । मिलइ न जगत सहोदर आता ॥

लङ्काकांड

अर्थात्—ससार में माता-पिता तो पुन पुन होते ही हैं, लेकिन सहोदर (सगा) भाई नहीं मिलता।

मुनि कहते हैं—

भायरो मे महाराय सगा जिठकण्ठिठगा ।

नय दुक्खा विमोयन्ति एसा मज्झ अणाहया ॥२६॥

भावार्थ—हे महाराज, मेरे सहोदर छोटे और बड़े भाई भी मुझे दुःख से न छुड़ा सके। ऐसी मेरी अनाथता थी।

हे राजा, ससार में भाई के समान कोई सहायक नहीं जाना जाता, इसलिए तू यह कह सकता है कि आपके भाई न होंगे,

भाचार्य—उस नवयौवना ने, मुझे कष्ट में देखकर, अन्न खाना, पानी पीना, केसर चन्दनादि सुगन्धित द्रव्य का लेपन, शृंगारादि धारण करना त्याग दिया। यह बात नहीं थी, कि कुस्ताओं की तरह पति भक्ति दिव्याने के लिए वह इन वस्तुओं का उपभोग मेरी जान में न करती हो और पीछे से करती हो, किन्तु न वह प्रकट में ही इनका उपभोग करती थी, न परोक्ष में ही।

खण वि मे महाराय पासाओ मे न फिटई ।

न य दुक्खा विमोयन्ति एसा मज्झ अणाहया ॥३०॥

भावार्थ—वह मेरी पत्नी, एक क्षण के लिए भी मेरे पास से दूर न जाती, फिर भी वह मुझे दुःख मुक्त न कर सकी, ऐसी मेरी अनाथता थी।

इस कथन द्वारा मुनि, राजा श्रेणिक को यह बताने लगे हैं, कि राजा, तू अपनी रानियों के भरोसे अपने आप को सनाथ समझ रहा है, लेकिन मेरी स्त्री ने मेरे लिए जो कुछ किया, उससे अधिक तेरी रानियाँ और क्या करेंगी? ऐसी स्त्री के होते हुए भी जत्र में अनाथ था, तो रानियों के होने से तू सनाथ कैसे हो सकता है?

राजा, मेरी पत्नी की ओर से मैं तो अनाथ था ही, लेकिन मेरी पत्नी भी मेरी ओर से अनाथा ही थी। ससार-व्यवहार के नाते, मेरी स्त्री के प्रति मेरा यह कर्त्तव्य था, कि मैं उसे सुख देता, दुःखों से उसकी रक्षा करता, लेकिन मैं, इस कर्त्तव्य का

पालन करने में असमर्थ रहने के साथ ही, अपने दुःख से अपनी स्त्री को भी दुःखी बना रहा था। इस प्रकार वह भी मेरी ओर से अनाथा ही थी।

मुनि की इस बात पर कि 'राजा, तू स्वयं भी अनाथ है!' राजा श्रेणिक को आश्चर्य हुआ था और उसने मुनि के कथन को झूठ बतावे हुए, कहा था कि मेरे हाथी, घोड़े, नौकर-चाकर, नगर-ग्राम एवं रानियाँ आदि हैं, फिर मैं अनाथ कैसे हूँ? उसके इस कथन पर से ही, मुनि ने अपनी अनाथता के वर्णन द्वारा राजा श्रेणिक को यह बताया, कि इसी प्रकार तू भी अनाथ है। अपनी अनाथता के कारण बता कर, मुनि ने, राजा श्रेणिक को ही अनाथ सिद्ध नहीं किया; किन्तु उसे यह भी बता दिया, कि जिनके भरोसे तू अपने आपको सनाथ मान रहा है, वे स्वयं भी अनाथ हैं! अर्थात् न तो तू ही सनाथ है, न जिनका तू नाथ बना हुआ है, वे ही। जो तेरे भरोसे अपने आपको सनाथ मान रहे हैं, वे भी उसी प्रकार अनाथ हैं, जिस प्रकार मेरे भरोसे अपने आपको सनाथ माननेवाले मेरे माता-पिता, बहिन, स्त्री और भाई अनाथ थे।

मुनि कहते हैं, राजा, जिस प्रकार तू, मनुष्य-जन्म और युवावस्था को विशेषतः भोग के लिए मानता है, उसी प्रकार मैं भी मानता था। जिस प्रकार हाथी, घोड़े, धन आदि के होने से

नू अपने आपको सनाथ मानता है, उसी प्रकार मैं भी अपने आपको सनाथ मानता था। लेकिन जब मेरे शरीर में वेदना हुई, तब इन सब की कसौटी हुई, और ये सब सनाथ करने वाले नहीं किन्तु अनाथता बढ़ाने वाले ही ठहरे।

राजा, मेरी पीडा किसी भी तरह न मिटी, तब मैं विचारते लगा, कि जिनके कारण मैं अपने आपको सनाथ समझ रहा हूँ, वे मुझे दुःख मुक्त क्यों नहीं कर पाते? विचारते-विचारते मुझे मालूम हुआ, कि ये माता-पिता, भाई-बहन, स्त्री और वैद्य आदि स्वयं ही अनाथ हैं, फिर ये मुझे सनाथ कैसे बना सकते हैं। मैंने अपने दुःख को इन सब पर घटा कर देखा अपना-सा सम्बन्ध इन सब का भी देखा, तो मुझे मालूम हो गया, कि मेरी ही तरह ये लोग भी अनाथता बढ़ानेवाली वस्तु के अधीन पड़े हुए हैं।

माता-पिता आदि सम्बन्धी के वर्णन द्वारा, मुनि ने, अपने नीति पूर्ण सामाजिक जीवन का भी परिचय दिया है। उन्होंने यह भी बतलाया है, कि मेरा सामाजिक जीवन किस प्रकार नीति-पूर्ण था। नीति के अनुसार, माता-पिता का पुत्र के प्रति, भाई का भाई के प्रति, बहन का भाई के प्रति और स्त्री का पति के प्रति क्या कर्त्तव्य होता है, मुनि ने इसका भी दिग्दर्शन कर दिया है।

। आध्यात्मिक जीवन का मूल, नीति-पूर्ण सामाजिक-जीवन है। यद्यपि आत्मा सुग्री तो आध्यात्मिक जीवन से ही हो सकता है, लेकिन नीति-पूर्ण सामाजिक जीवन के अभाव में आध्यात्मिक जीवन के लिए क्षेत्र तयार नहीं होता। यह बात दूसरी है, कि नीति-पूर्ण सामाजिक जीवन थोड़ी ही देर का हो, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की उत्पत्ति के लिए उसका होना आवश्यक है। मुनि का सामाजिक-जीवन, नीति-पूर्ण था, इसीमें उनमें आध्यात्मिक जीवन उत्पन्न होने में देर न लगी।

। मुनि का कथन सुन कर राजा श्रेणिक उनमें कहने लगा—हे आर्य, हे संयति, आपके वचनों ने मेरे हृदय का यह गर्व-मिटा दिया, कि मैं सनाथ हूँ। अत्र मैं इस बात को भली भाँति समझ गया, कि मैं जिस सम्पदा पर से अपने आपको सनाथ मान रहा हूँ, वह सम्पदा सनाथ बनाने वाली नहीं, किन्तु अनाथता बढ़ाने वाली है। अत्र कृपा करके यह घतलाइये, कि आपकी जो वेदना इतने उपाय करने पर भी नहीं गई थी, वह वेदना गई कैसे और वास्तव में सनाथ होने का उपाय क्या है ?

-मुनि बोले—हे राजा, जब सारे उपाय हो जाने पर भी मेरे शरीर की वेदना न मिटी, तब मैं, उसी वेदना में पड़ा पड़ा अपने आप ही विचारने लगा, कि इतना उपचार होने पर भी मेरी पीड़ा क्यों नहीं मिटी ? यदि यह पीड़ा भौतिक कारणों से है तो भौतिक

उपाय से इसका शमन भी होना चाहिए ! भौतिक उपायों में किसी प्रकार की क्रेमी न रहने पर भी मेरे शरीर के रोग नहीं भिटे और मैं सुखी नहीं हुआ, इससे प्रकट है, कि यह वेदना भौतिक कारणों से नहीं, किन्तु आध्यात्मिक कारणों से है । इन रोगों के होने में मेरे पूर्व-संस्कारों का अवश्य ही सम्बन्ध है । मेरे साथ, पूर्व के कोई ऐसे संस्कार हैं, जिनके कारण मुझे ये रोग घेर रहे हैं । मैंने अपने मन में यह निर्णय किया, कि ये रोग आध्यात्मिक कारणों से ही हुए हैं, बाह्य कारणों से नहीं हुए हैं । इस निर्णय पर पहुँचने के साथ ही, हृदय में ये प्रश्न होने लगे, कि यदि पूर्व-संस्कार के कारण ये रोग हुए हैं, तब क्या मैं पहले भी था । यदि मैं पहले न होता, तो ये पूर्व-संस्कार होते ही कैसे ? इसलिए निश्चय ही मैं पहले भी था । लेकिन यदि मैं पहले भी था, तो मुझे ऐसे ही न मालूम कितने दुःख सहने पड़े होंगे । इस प्रकार मेरे मन में अनेक प्रश्न होने लगे और मैं, अपने आप ही उनका समाधान करने लगा । अन्त में,

तत्रो ह एवमाहसु; दुःखमा हु पुणो पुणो ।

वेयणा अणुभविउ जे, ससारमि अणन्तए ॥३१॥

भावार्थ—रोग न मिटने से, विचार करने पर मुझे विश्वास हुआ, कि इस अनन्त-संसार में अमण करते हुए, मैंने इस प्रकार की वेदना बार-बार अनुभव की है ।

राजा, इस प्रकार विश्वास होने पर, मैं यह सोचने लगा, कि संसार में भ्रमण करने और बार-बार ऐसे कष्ट अनुभव करने का कारण क्या है ? इस प्रश्न पर विचार करते हुए मैं इस सिद्धांत पर पहुँचा, कि मोह के बश होकर, आत्मा, सासारिक पदार्थों द्वारा अपने आपको सनाथ बनाना चाहता है, लेकिन इन सांसारिक पदार्थों से, जैसे जैसे सम्बन्ध बढ़ता जाता है, यह आत्मा, वैसे-ही-वैसे अनाथ होता जाता है और वह अनाथता ही संसार में भ्रमण कराने एवं ऐसे या इससे भी अधिक—दुःख अनुभव करने का कारण है।

राजा, आत्मा की यह बहुत बड़ी गल्ती है, कि आत्मा, माता-पिता, भाई-बहन, स्त्री-पुत्र, धन-वैभव और वैद्य-दवा आदि पर विश्वास करके, उनके आश्रित रहने में स्वयं को सनाथ मानता है।—इसी मूल के कारण, आत्मा, अनाथ है और संसार में परिभ्रमण एवं फिर फिर दुःख अनुभव कर रहा है। वास्तव में, ये सब, आत्मा को सनाथ बनानेवाले नहीं हैं, किन्तु अनाथ बनानेवाले हैं। चाहे आत्मा इनके अधीन रहे, इनको अपना नाथ माने, या इन्हें अपने अधीन रखे, आप इनका नाथ रहे, दोनों ही प्रकार की बातें अनाथता देनेवाली हैं। जिस प्रकार एक थम्वे को पकड़ने वाला आदमी, चाहे यह माने, कि थम्वे ने मुझे पकड़ रखा है, या यह माने, कि मैंने थम्वे को पकड़ रखा

है, लेकिन, जब तक वह श्म्वे को न छोड़ दे, तब तक परार्थीन ही है। इसी प्रकार चाहे सासारिक पदार्थों का आप होकर रहे, या सांसारिक पदार्थों को अपना करके रखे, है दोनों ही तरह अनाथता।

राजा, इस निश्चय पर पहुँचने के पश्चात्, मैंने रोग-निवारण के लिए, भौतिक उपायों का करना त्याग दिया और यह सोचने लगा, कि आत्मा इस अनाथता से निकल कर सनाथ बने, इसका उपाय क्या है ? क्योंकि अब मुझे विश्वास हो गया था, कि ये रोग, अनाथता से ही हैं। विचारते-विचारते, मैं इस निर्णय पर पहुँचा, कि इस सकुचित सम्बन्ध को त्याग कर, विशाल सम्बन्ध स्थापित कर लिया जावे। माता-पिता, भाई-बहन, स्त्री आदि को ही अपना न मान कर, ससार के प्राणिमात्र को अपना माना जावे। इसी प्रकार, केवल माता-पिता आदि व्यक्ति या समूह विशेष के बनकर रहने के बदले, ससार के प्राणिमात्र का बनकर रहा जावे। केवल इन्हीं से अपने आपको सनाथ न मानकर, ससार के प्राणिमात्र से अपने आपको सनाथ माना जावे, और केवल इन्हीं के नाथ न रह कर, ससार के प्राणिमात्र का नाथ रहा जावे। भौतिक पदार्थों पर विश्वास न करके, अपने आप (आत्मा) पर ही विश्वास किया जावे, भौतिक पदार्थों से ममत्व तोड़ दिया जावे, तो यह अनाथता भिट सकती है। प्राणिमात्र को अपना नाथ बनाने, एवं प्राणिमात्र का नाथ बनने के लिए, क्रोध, लोभ,

इन्द्रिय-लोलुपता और आरम्भ-समारम्भ को त्यागने एव चामा, इन्द्रिय निग्रह, निरारम्भता और निर्लोभता आदि को अपनाने की आवश्यकता है। जब तक ऐसा न किया जावे, तब तक अनाथता नहीं मिट सकती। इस निर्णय पर पहुँचते ही, मैंने अपने मन में सकल्प किया कि—

सहं च जइ मुचेज्जा वेयणा विउला इतो ।

खन्तो दन्तो निरारम्भो पव्वइए अणगारिय ॥३२॥

भावार्थ—यदि मैं एक बार इस महान् वेदना से मुक्त हो जाऊँ, तो क्षमावान्, इन्द्रियों का दमन करनेवाला, एव निरारम्भी बनकर अणगार धर्म स्वीकार करूँगा।

एवं च चिन्तइत्ताण पसुत्तो मि नराहिमा ।

परियत्तन्तीइ राइए वेयणा मे खय गया ॥३३॥

भावार्थ—हे नराधिप, इस प्रकार चिन्तन करते-वर्ते, मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। रात्रि के बीतने पर सुबेरे मैंने देखा, कि मेरी शारीरिक वेदना क्षय हो गई है और मेरा शरीर, वेदना रहित हो गया है।

मुनि कह रहे हैं—राजा, अब तक मैं, मोह की नींद में पड़ा सो रहा था, इसलिए इन रोगों ने, मेरे यहाँ चोर, की, भौंति प्रवेश कर लिया था। रोग रूपी चोरों को, न मैं ही भगा सका था, न माता-पिता, वैद्य आदि ही। रोगों को, मैं या वे भगा भी कैसे सकते थे ? क्योंकि, मैं और मेरे साथ ही वे सब भी, मोह

की नींद में पड़े हुए थे। चोर, घर में तभीतक रह सकते हैं, जबतक घर का स्वामी सोया हुआ हो। स्वामी के जागने पर चोरों का साहस, ठहरने का नहीं हो सकता। मैं, जब मोह की नींद से जागा, तभी उन रोग रूपी चोरों को भगाने में समर्थ हो सका। मैंने, मोह-निद्रा भंग करके, जैसे ही रोग रूपी चोरों से यह कहा, कि तुम लोग मेरे यहाँ से भाग जाओ, वैसे ही रोग रूपी चोर, भाग गये। उनसे समझ लिया, कि अन्न गृह स्वामी जाग गया है, इससे यहाँ रहने में कुशल नहीं। राजा, मोह-निद्रा दूर कर देने पर, रोगों के भगाने में मुझे, माता-पिता आदि किसी की भी सहायता न लेनी पड़ी। सहायता लेता भी तो किसने ? माता-पिता आदि स्वयं ही मोह की नींद में जकड़े हुए थे। यद्यपि उन रोग रूपी चोरों को, मैं, अपने यहाँ पहले भी नहीं रहने देना चाहता था, लेकिन पहले मैं, मोह की नींद से घेसुध था और साथ ही अनाथ भी था। सोये हुए अशक्त का भय कौन करता है। इसलिए मेरी इच्छा न होने पर भी, वे रोग रूपी चोर, मेरे शरीर रूपी घर में घुसे रहे। मैं, मोह-निद्रा से जागकर भी यदि अशक्त ही बना रहता, अपने आपको सशक्त न बनाता, तो वे रोग रूपी चोर न भागते। क्योंकि, जागते हुए अशक्त की बात कौन मानता है। लेकिन मैंने जागने के साथ ही, अपने आपको सशक्त बना लिया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन

करते हुए—यानी यह कहने हुए, कि मैं क्षमायान, इन्द्रियों का दमन करनेवाला, एव निरारम्भी बनकर अनगार (सयति) होऊँगा—मैंने, रोग रूपी चोरों को डाटा। मेरे हाटते ही वे भाग गये।

राजा, वेदना के भाँ, मुझे बहुत दिनों से नींद नहीं आई थी, लेकिन मैंने जैसे ही यह सङ्कल्प किया, कि वेदना मिट जाने पर, मैं अनगार होऊँगा' वैसे ही मुझे नींद आगई। मुझे नींद आई जानकर, मेरे माता पिता आदि को बहुत प्रसन्नता हुई। जिस रोगी को नींद नहीं आती उसका रोग, असाध्य माना जाता है। मुझे नींद नहीं आती थी इसलिए मेरे घरवाले, मेरा रोग असाध्य मानकर दुःखी हो रहे थे, लेकिन मुझे नींद आ जाने में, मेरे घरवाले बहुत प्रसन्न हुए। वे, यह समझते लगे, कि अब हमारा पुत्र, भाई या पति स्वस्थ हो जावेगा। उस समय मेरे घर के लोगों को कैसा हर्ष हुआ होगा, यह मैं नहीं बता सकता। मेरे घर के लोग मुझे नींद में सोया हुआ जान रहे थे, लेकिन राजा, मेरी यह नींद, दूसरी ही तरह की थी। वे सब लोग, मुझे सोया हुआ और अपने आपको जागता हुआ समझ रहे थे, लेकिन मेरी समझ में, मैं जाग रहा था, और वे सब लोग सो रहे थे।

अपने सोने और घर के लोगों के जागने में, मुनि जो प्रन्तर बता रहे हैं, वह, गीता के निम्न कथन के अनुसार है—

या निशा सर्व भूताना तस्या जागर्ति संयमी ।

येस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥

अध्याय २३

अर्थात्—सब लोग जिसे रात समझते हैं, उसमें संयमी पुरुष जागता रहता है और जिसमें मारा-संसार जागता है, उसे तत्त्वज्ञानी मुनि, रात समझते हैं। मतलब यह, कि संसार में लिपटे हुए लोग, जिसे सब समझते हैं, ज्ञानी लोग, उसे भूत समझते हैं और जो तत्त्व की बात, संसार में लिपटे हुए लोगों से छिपी हुई है, उसे ज्ञानी लोग साफ देखते हैं।

मुनि भी यही बात कह रहे हैं। वे कहते हैं, कि राजा, घर के लोग मुझे सोता और अपने आप को जागता समझ रहे थे, लेकिन वास्तव में, मैं जाग रहा था और वे लोग, सो रहे थे, अर्थात्, जिसे वे सनाथता समझते थे, उसे मैं, अनाथता मानने लगा था, और जिसे मैं सनाथता मानने लगा था, उसे वे लोग, तेरी ही तरह अनाथता मान रहे थे। तू भी तो अपने आप को सनाथ मान कर, मेरा नाथ बनने को तयार हुआ है, लेकिन वास्तव में, तू भी अनाथ ही है, सनाथ नहीं है। तेरी दृष्टि में, हम (साधु) सोये हुए हैं और तू जाग रहा है, लेकिन वास्तव में, हम जाग रहे हैं और तू सोया हुआ है।

राजा, रात्रि व्यतीत होने पर, यानी सूर्योदय होने पर, मैंने

देखा, कि मेरा शरीर तो वही है, लेकिन उसमें किंचित भी वेदना नहीं है। यह देखकर, मुझे इस बात पर विश्वास ही गया, कि रोगों को, मैंने ही ठहरा रक्खा था, इसीसे ठहरे थे। अरु मुझे, पिता, माता, बहन, भाई, स्त्री, धन, वैयादि और औषधादि से सनाथ बनने की अपनी भूल भी समझ में आ गई। मुझे, इस बात पर पूर्णतः विश्वास हो गया, कि सर्वारम्भ को त्यागने, इन्द्रियों का दमन करने और जमा को अपना कर अनगारं धर्म में प्रव्रजित होने पर ही, सनाथ हो सकता है, तथा प्रत्येक दुःख, अनाथ को ही सताते हैं, सनाथ को नहीं सताते। शक्ति-सम्पन्न में, रोगादि प्रत्येक दुःख, भय खाते रहते हैं।

यहा प्रश्न होता है, कि जब सनाथी मुनि का रोग, मयम का चिन्तवन करने मात्र से ही चला गया, तब फिर संयमी लोगों को कष्ट क्यों भोगने पडे ? उदाहरण के लिए, मुनि श्री गजसुकुमारजी का, आग से जलना।

इस प्रश्न का उत्तर यही है, कि जिसे ससार के लोग रात समझते हैं, वह ज्ञानियों के लिए दिन है और जिसे ससार के लोग दिन समझते हैं, ज्ञानियों के लिए वह रात है। इसके अनुसार, ससार के लोग, मुनि श्री गजसुकुमारजी का आग से जलना मानते हैं, उनके लिए कष्ट समझते हैं, लेकिन गजसुकुमार मुनि, इसे कष्ट नहीं समझते थे, किन्तु सुख समझते थे और

सिर पर आग रखनेवाले को, लक्ष्य पर पहुँचानेवाला सहायक मानते थे। उन्हें तो, शरीर को शीघ्र से शीघ्र त्यागना ही अभीष्ट था। यदि उनकी यह इच्छा न होती, तो वे शमशान में ही क्यों जाते और अपने सिर पर अग्नि रखने ही क्यों देते? अग्नि रखी जा चुकने पर भी, यदि वे उस अग्नि से कष्ट अनुभव करते होते, तो, इच्छा करने मात्र से ही अग्नि को शीतल कर सकते थे। उनमें ऐसी शक्ति थी, कि चाहने पर अग्नि शीतल हो ही जावे। इस शक्ति के होते हुए भी, उन्होंने अग्नि को शीतल करने की इच्छा नहीं की, इसका कारण यही है, कि वे उस अग्नि से, दुःख अनुभव नहीं करते थे, किन्तु यह विचार कर सुख मान रहे थे, कि मैं अपने ध्येय के समीप शीघ्र पहुँच रहा हूँ। इस प्रकार, जब अग्नि से जलनेवाले मुनि ही जलने में दुःख नहीं मानते थे, तब फिर यह कैसे कहा जा सकता है, कि संयमी गजसुकुमार मुनि को कष्ट हुए। संयमी को, किसी प्रकार का कष्ट तो होता ही नहीं। रुयम स्वीकार करनेवाला, कष्टों को जीत लेता है। वह अपने लिए कष्टों का अस्तित्व पहले ही मिटा देता है, तब संयम लेता है।

सनाथी मुनि का रोग, संयम की उच्च भावना से मिटा, मन्त्र औषध आदि से नहीं मिटा, न माता पिता आदि की सेवा सुश्रूषा से ही कोई लाभ हुआ, यह बात ठीक है, लेकिन इसका यह-

अर्थ नहीं है, कि औषध आदि से रोग मिटते ही नहीं, या वैद्य, रोगों को मिटा ही नहीं सकता, इस कारण माता-पिता वैद्यादि को रुग्ण की परिचर्या करने की ही आवश्यकता नहीं है। यदि औषधादि से रोग मिटते ही न होते, वैद्य रोगी को स्वस्थ कर ही न सकता होता, या माता, पिता, भाई, बहन, स्त्री आदि की परिचर्या से लाभ ही नहीं होता, तो न तो कोई किसी का उपचार ही करता, न किसी की परिचर्या ही। लाभ इनसे भी होता है, इनसे भी रोग मिटते हैं, लेकिन इन उपायों से रोग मिट ही जाते हैं, यह निश्चित बात नहीं है। इनमें किसी को लाभ होता भी है, और किसी को लाभ नहीं भी होता। इसके सिवा, इस प्रकार से मिटे हुए रोग, सदा के लिए मिट गये, यह भी नहीं रुद्धा जा सकता, न शारीरिक रोग मिट जाने के कारण, आत्मा सनाथ ही बन जाता है। समय की उच्च भावना से जानेवाले रोग, निश्चित रूप से चले जाते हैं और आत्मा भी अनाथता से निरुनकर सनाथ बन जाता है। तात्पर्य यह, कि औषध परिचर्या आदि से लाभ न होने के कारण, किसी की औषध परिचर्या करनी ही न चाहिए, यह समझना गलती है। चाहे रोग जावे या न जावे, कष्ट में पड़े हुए को लाभ हो या न हो, लेकिन जो आदमी, रोगी या कष्ट में पड़े हुए की, औषध एवं सेवा सहायता करता है, उसे तो अनुकम्पा का लाभ होता ही है।

औषधादि द्वारा, तथा संयम की उच्च भावना द्वारा, रोग जाने में जो प्रधान अन्तर है, वह आत्मा की अनाथता। एव सनाथता का है। यानी, एक से आत्मा अधिक अनाथ होता है, और दूसरे से सनाथ होता है। वहिक मन्त्र के द्वारा निरोग बने हुए का आत्मा, औषध द्वारा निरोग बने हुए के आत्मा की अपेक्षा अधिक पराधीन हो जाता है। क्योंकि औषध पर चाहे विश्वास किया जावे या न किया जावे, प्रयोग में आई हुई औषध कभी कभी अपना अच्छा या बुरा प्रभाव दिखाती ही है लेकिन यन्त्र-मन्त्र का प्रभाव तो तभी हो सकेगा, जब उन पर पूर्णतः विश्वास किया जावे। उदाहरण के लिए—मेस्मरेजि का प्रभाव, उस भोलेभाले आदिमी पर ही अधिक पड़ता है जिसमें अन्व विश्वास की मात्रा अधिक है। जिसे मेस्मरेजि पर विश्वास नहीं है, जो यन्त्र-मन्त्र को नहीं मानता, उस पर मेस्मरेजिम का वैसा प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा प्रभाव, उस विश्वास करनेवाले पर पड़ता है। इस प्रकार, औषध की अपेक्षा यन्त्र-मन्त्र से निरोग होनेवाले को, आत्म-विश्वास विलकुल ही खो देना पड़ता है। संयम की उच्च भावना से रोग जाने में, यह बात नहीं है। उसमें आत्मा, पराधीन नहीं होता, किन्तु स्वाधीन होता है। इस प्रकार से रोग जाने में, आत्म विश्वास बढ़ता है, घटता नहीं है। उच्च भावना से गया हुआ रोग, कदा-

चित्त 'फिर' कभी आ भी गया,' तो आत्म विश्वास के कारण, आत्मा की भावना और उच्च होगी, और इस प्रकार आम-विश्वास बढ़ेगा।

सनाथी मुनि कहते हैं—राजा, वैद्य, एवं औषधादि से मेरा रोग नहीं गया, यह अच्छा ही हुआ। यदि इनके द्वारा मेरा रोग चला जाता, तो मैं अनाथता में अधिक फँस जाता अनाथता से निकल न पाता। 'मेरे में, आम विश्वास उत्पन्न न होता, किन्तु वैद्य औषध आदि पर ही विश्वास करने लगता और इस प्रकार अपनी परतन्त्रता को और बढा लेता। यद्यपि मेरा उपचार एवं मेरी परिचर्या करनेवालों—मेरे दुःख से दुःखी रहनेवालों—की भावना उपकार की ही थी, वे तो अपनी ओर से, मुझ पर दया ही करते थे, और ज्ञान होने तक उनकी वह दया मुझे सुखप्रद भी मालूम होती थी, लेकिन अन ज्ञान होने पर, मैं ससार को बधनकारक समझने लगा हूँ, और मुझे उनकी दया, मेरी परतन्त्रता बढानेवालों दिखती है।

राजा, मेरे शरीर में रोग आये, यह भी अच्छा ही हुआ। यदि मेरा शरीर, रोगी न हुआ होता किन्तु स्वस्थ होता, तो मैं अनाथ ही बना रहता, सनाथ न हो पाता। उन रोगों ने, मुझ में सनाथ बनने की भावना उत्पन्न कर दी, इसलिए मैं, उन रोगों को मित्र मानता हूँ। अब भी यदि मुझे कोई रोग हो, तो उस

रोग को मैं दुख दाना नहीं मानूँगा, किन्तु सुखदाता मानूँगा और समझूँगा, कि मेरे में किसी प्रकार की कमी आई है, मेरी उच्च भावना में कोई न्यूनता हो गई है, इसीलिए यह मेरा पूर्व-परिचित मित्र मुझे सावधान करने के लिए आया है।

राजा, सवेरे मुझे वेदना रहित देखकर मेरे भाई, बहन, माता पिता, स्त्री आदि को बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे जागा हुआ जानकर, सब लोग मेरे पास आये। उस समय वे सब बहुत ही हर्षित थे। सब कहते थे कि हमारे पुण्य अच्छे हैं, जिससे हमारा पुत्र, भाई, या पति अच्छा हो गया। - सब लोग अपने अपने भाग्य की बढाई करने-लगे और मुझसे पूछने लगे, कि तुम्हारे शरीर की वेदना, एक दम से कैसे चली गई? अब तो शरीर में वेदना नहीं है? आदि। मैंने उनसे कहा, कि अब मैं अच्छा हो गया। अब मेरे शरीर में, तनिक भी वेदना नहीं है। वे सब कहने लगे, कि तुम्हारे अच्छे हो जाने से, हमें जो प्रसन्नता है, वह प्रसन्नता, त्रैलोक्य की सम्पत्ति मिलने पर भी नहीं हो सकती। अब यह बताओ, कि जो वेदना इतने इतने उपाय करने पर भी नहीं गई थी, वह वेदना आज आप ही आप मिट गई या किसी कारण विशेष से चली गई? मैं उनसे कहने लगा, कि इतने उपचार करने पर भी जो वेदना नहीं गई थी, जिस वेदना के न मिटने के कारण, मैं आपको और आप-मुझे सुखी

न कर सके थे, उस वेदना को मिटाने के लिए, मैंने एक शक्ति का स्मरण किया। उस शक्ति का स्मरण करते ही, मुझे बहुत दिनों से उड़ी हुई नींद आ गई और मैं सो गया। इस समय जाग कर, मैं, शरीर को रोग-रहित स्वस्थ-देखता हूँ। यह सब, उस शक्ति के स्मरण एवं उसकी कृपा का प्रताप है।

मेरी बात सुन कर, मेरे घर के सब लोग, हर्ष सहित, उस शक्ति को बड़ाई करने लगे और कहने लगे, कि वह शक्ति कहाँ रहती है और कौन है ? जिसने ऐसे समय में, तुम्हारी और हम सब की इस प्रकार सहायता की। हम उस शक्ति को कोटि-कोटि नमस्कार करते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं।

राजा, उन सब के प्रश्न के उत्तर में, मैंने कहा कि वह शक्ति और कहाँ नहीं रहती है, किन्तु हृदय में ही रहती है। मैं, उस शक्ति को भूला हुआ था, इसीसे इतने कष्ट उठा रहा था। कष्टों से मुक्त होने के समस्त उपाय असफल होने पर, मैंने उस शक्ति का स्मरण करके उससे कहा, कि यदि एक बार मैं कष्ट-मुक्त हो जाऊँ, तो तेरी शरण आऊँगा। ऐसा कहते ही, मुझे नींद आ गई, मेरी वेदना कम हो गई और इस समय मैं, अपने आपको रोग रहित स्वस्थ देख रहा हूँ।

मेरी इस बात को सुन कर उन लोगों का फौनूदन बढ़ गया अब वे, उस शक्ति का नाम जानने के लिए, अधिक उत्सुक थे।

उनकी उसुकता देखकर, मैंने कहा, कि भेदों से तो उस शक्ति के, ज्ञाना, सत्य, अहिंसा, आदि कई नाम हैं, लेकिन समुच्चय में वह समय की शक्ति है। समय की शक्ति से ही, मैं रोग-मुक्त हुआ हूँ। अब मैं, उस समय की शक्ति से की हुई अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, उसकी शरण जाना चाहता हूँ, इसलिए आप सब लोग, स्वीकृति दीजिये।

‘यमो परम्’ धातु से, ‘सयम’ शब्द की उत्पत्ति है। - इसका अर्थ है, समस्त विकारों से दूर रहना।

मेरे इस कथन को सुनकर, मेरे घरवालों को मेरे वियोग का स्वाभाविक दुःख हुआ। सब लोग, आपस में एक दूसरे की ओर देखने और अपनी-अपनी आँसु से, आँसू टपकाने लगे। मैं, उन्हें बहुत प्रिय था, इसीलिए उन्हें मेरी यह बात सुनकर दुःख हुआ। उन लोगों को दुःखी देखकर, मैंने उनसे कहा, कि आप लोग दुःखी क्यों होते हैं? मैं, जो वेदना अनुभव कर रहा था, उसी वेदना में यदि मेरी मृत्यु हो गई होती, तो आप लोगों को धैर्य रखना पड़ता या नहीं? फिर जिस समय की शक्ति की कृपा से मैं अरुद्धा हुआ हूँ, उसकी शरण जाने के समय, आप लोग धैर्य रखकर मुझे स्वीकृति क्यों नहीं देते? यदि उस शक्ति की कृपा न होती, तो मैं वेदना से मुक्त हो पाता हूँ। इन बातों पर विचार करके, आप लोग प्रसन्नतापूर्वक सुन

सयम की शरण जाने के लिए स्वीकृति दे दीजिए । : इस प्रकार, मेरे बहुत समझाने बुझाने पर, मेरे घर के लोगो ने, मुझे सयम लेने के लिए स्वीकृति दी ।

तत्रो कल्ले पमायम्मि आपुच्छिताण षण्णवे । ।

खन्तो दन्तो निरारम्भो पव्वङ्गो अणगारिय ॥३४॥

भावार्थ—सवेरे वेदना मिटने पर, मैंने अपने बाधवों से स्वीकृति ली, और क्षमावान्, इन्द्रिय निरोधी, एष निरारम्भी बनकर, अनगार धर्म स्वीकार कर लिया ।

तत्रो ह णाहो जाओ अप्पणो य परस्त य ।

सव्वेसिं चेव भूयाण तसाण थावराण य ॥ ३५ ॥

भावार्थ—सयम लेकर, मैं, अपना स्वयं का, तथा दूसरे सब ब्रह्मण्य स्थावर जीवों का नाथ बन गया ।

सनाथी मुनि कहते हैं—राजा, अब मुझे किसी भी प्रकार के रोग शोक का भय नहीं है । अब मैं सनाथ हूँ, इसलिए किसी प्रकार का दुःख मेरे समीप भी नहीं आ सकता । यदि कभी कोई गोगन्दु स आया भी, तो उसे मैं अपने आप ही भित्ताने में समर्थ हूँ । उनमें घबरा कर, किसी दूसरे की शरण जाने की आवश्यकता न पड़ेगी । मेरी जीतन-गाथा सुनकर, तू समझ गया होगा, कि मैं कैसा अनाथ था, और अब किस प्रकार सनाथ हूँ । मेरे कथन पर से, तू अपने आपको लिए भी विचार ले, कि तू

सनाथ है या अनाथ, और मेरा नाथ बनने को समर्थ है, या नहीं।

राजा, तेरे को यह तो मालूम हो ही गया होगा, कि जब तक कोई किसी दूसरे जीव या पदार्थ पर अपना आधिपत्य रखता है, आप शासक और उन्हें शासित मानता है, तब तक वह, अपना स्वयं का भी नाथ नहीं है, और दूसरे का भी नाथ नहीं है। जो, दूसरे को अपने अधीन रखना चाहता है, वह स्वयं भी दूसरे के अधीन हो जाता है, यह अटल सिद्धांत है। इसी प्रकार, जो दूसरे शासक के अधीन है, वह तो अनाथ है ही। सनाथ तभी हो सकता है, जब आप स्वयं भी दूसरे के अधीन न रहे, और न किसी दूसरे को ही अपने अधीन रखे। इस प्रकार सनाथ बननेवाला, अपने आपका ही नाथ नहीं रहता है, किन्तु प्राणिमात्र का नाथ बन जाता है। तू, यह मत समझ, कि फिर तो प्राणिमात्र पर अपना आधिपत्य हुआ। इस प्रकार से प्राणिमात्र का नाथ बनने में, आधिपत्य या अधीनता को तो स्थान ही नहीं है। इसमें तो केवल मित्रता को ही स्थान है। सयम का अर्थ ही, विकारों से दूर रहना है। जब सयम स्वीकार लिया, तब, छोटे-बड़े, शासक-शासित या अधिपति-अधीन आदि विचार रहा ही कहीं? फिर तो, मैत्री-भावना ही विकसित होती है। स्वयं अपना नाथ बना हुआ व्यक्ति, प्राणिमात्र का नाथ, मित्रता के बल पर बनता है, साम, दाम, दण्ड और भेद आदि सासारिक

रीति के बल पर नहीं। यदि तू मेरा नाथ बनने का इच्छुक है, तो अपने अधीनस्थ लोगों पर से अपना आधिपत्य उठा ले, भौतिक पदार्थों पर विश्वास करना छोड़ दे और अपने आप पर विश्वास कर। वस, फिर तू केवल मेरा ही नहीं, किन्तु प्राणिमात्र का नाथ बन जावेगा।

राजा, तू अपने आपको, हाथी घोड़े आदि के होने से सनाथ मानता है, लेकिन तूने, हाथी घोड़े क्यों रख छोड़े हैं ? तू, इस विषय में भली प्रकार और एक एक पर अलग अलग विचार कर। यदि तू पैदल चल सकता होता, तो घोड़े क्यों रखता ? पैदल नहीं चल सकता, इसी कारण घोड़े रखे हैं न ? तेरे से जो काम नहीं हो सका, जिसके करने की तेरे में शक्ति नहीं थी, वह काम करने के लिए ही तूने घोड़े रखे हैं न ? फिर इसमें विशेषता की बात कौन सी रही ? यह तो और कमजोरी हुई। यदि घोड़े, तेरे को उठा कर चलने से इनकार कर दें, तो तू कैसे चलेगा ? घोड़े ने, तुझ कमजोर पर कृपा की है, तेरी सहायता की है, जो तेरा वजन उठाकर चल रहे हैं। ऐसी दशा में तू उन घोड़ों का नाथ कैसे रहा ? हाँ, लोकोक्ति से, वे घोड़े, तेरे नाथ तो हो भी सकते हैं; क्योंकि, तुझ अशक्त को सहायता देते हैं।

राजा, घोड़ों की ही तरह हाथी के लिए समझ। जब

तेरा काम घोड़ो से नहीं चला, तब तू हाथी की शरण गया, यानी हाथी रखने लगा । जो काम हाथी करता है, वह काम करने की शक्ति, यदि तेरे में ही होती, तो तू उसकी सहायता क्यों लेता ? यही बात, पैदल, दास दासी आदि के लिए भी समझ ले । अब यदि मेरी ही तरह तुझे सनाथ बनना है, तो संसार की समस्त वस्तुओं पर से अपना अधिकार उठाकर, इस समय रूपी शक्ति की शरण आ जा, फिर तू अपना भी नाथ बन जावेगा और मेरा तथा प्राणिमात्र का नाथ बन जावेगा । यदि तू एक दम से ऐसा नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे कर । अनाथता देनेवाली वस्तुओं को, धीरे धीरे त्यागने पर भी, जितने अश में उन वस्तुओं को त्यागेगा, उतने ही अश में सनाथ बनता जावेगा और जब अनाथता देनेवाली वस्तुओं को सर्वथा त्याग देगा, तब सर्वाश में सनाथ बन जावेगा ।

राजा, उतने कष्ट भोग कर अनाथता त्यागने एव नाथ बनने के पश्चात्, मैं इस सिद्धान्त पर पहुँचा हूँ —

अप्या नई वेयरणी अप्या मे कूडसामली ।

अप्या काम दुहा धेणू अप्या मे नन्दण वण ॥३६॥

भावार्थ—मेरा आत्मा ही चैतरणी नदी है; मेरा आत्मा ही कूड चालमली वृक्ष है, मेरा आत्मा ही इच्छित वस्तु देने वाली कामधेनु है, और मेरा आत्मा ही नन्दनवन है ।

शास्त्रकारों ने, पुण्य और पाप के फल के लिए, सुख और दुःख ये दो पक्ष दिखाये हैं। यानी यह बताया है, कि पुण्य से सुख प्राप्त होता है और पाप से दुःख। इस सुख दुःख से, धर्म का फल भिन्न है, क्योंकि, धर्म का फल मोक्ष है। मोक्ष होने पर, न तो कर्मजनित सुख ही है, न दुःख ही। यदि मोक्ष में कर्मजनित सुख माना जावेगा, तो फिर वहाँ दुःख का भी अस्तित्व मानना पड़ेगा। क्योंकि, जहाँ एक पक्ष होगा, वहाँ दूसरा पक्ष भी होगा ही। लेकिन मोक्ष में, कर्मजनित दुःख का नाम भी नहीं है, इसलिए कर्मजनित सुख भी नहीं है। दुःख और सुख तो तभी तक हैं, जबतक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए धर्म का फल—मोक्ष—सुख-दुःख रहित है।

शास्त्रकारों ने, पाप का फल दुःख बताया है। दुःख में भी वैतरणी नदी एवं कूटशाल्मली के वृक्ष के दुःख विशेष हैं। शास्त्रकारों का कथन है, कि नैरयिक को, वैतरणी नदी द्वारा बड़े बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह, उसने झूना तथा उतराता है, उसके अन्दर रहनेवाले अनेक जीव उसे काटते खाते हैं। इस प्रकार वैतरणी नदी द्वारा, नैरयिक को बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं।

नैरयिकों को नरक में कूटशाल्मली वृक्ष से भी बहुत दुःख होता है। कूटशाल्मली वृक्ष के पत्ते, पौने होते हैं। वे पत्ते, नैरयिकों के शरीर पर गिरकर, उनके शरीर को क्षत-विक्षत करते

से मारनेवाले को तो नहीं पकड़ता, और लकड़ी को पकड़ता है। वह समझता है, कि मारनेवाली यह लकड़ी ही है। यद्यपि वह लकड़ी तो निमित्त मात्र है, मारनेवाला तो दूसरा ही है, लेकिन कुत्ता, अज्ञान के वश यह नहीं समझता। इसी प्रकार, सुख-दुःख का दाता दूसरे को माननेवाले लोग भी, भूल करते हैं। दूसरा तो निमित्त मात्र है, सुख-दुःख का देनेवाला, दूसरा कदापि नहीं हो सकता। सुख या दुःख का दाता कौन है, इस बात को सिंह की तरह देखने की आवश्यकता है। सिंह पर जब कोई आदमी, गोली या तीर चलाता है, तब सिंह, उस गोली या तीर को नहीं पकड़ता, किन्तु, गोली या तीर चलानेवाले पर झपटता है। वह समझता है, कि यह गोली या तीर, अपने आप नहीं आया है, किन्तु दूसरे के चलाने से आया है। इसी प्रकार दुःख-सुख देनेवाले—वैतरणी नदी, कूटशात्मली वृत्त, कामधेनु और नन्दनवन आदि—किसी और को मत मानो, किन्तु यह देखो, कि दुःख सुख बनाया किसने है ? इन्हें प्राप्त करनेवाला कौन है ? ये 'सुख दुःख आते कहाँ से हैं और किसके भेजे हुए आते हैं ?' इस बात का, शेर की तरह अनुसन्धान करने पर, अन्त में यही ठहरता है कि हमारा आत्मा ही वैतरणी नदी, कूटशात्मली वृत्त, कामधेनु, और नन्दनवन है। इसी प्रकार शत्रु मित्र, अनुकूल, प्रतिकूल, स्वपत्नी, विपत्नी, आदि भी हमारे आत्मा से ही बनते हैं।

सनाथी मुनि जो बात कह रहे हैं, वही बात गीता में भी, इस प्रकार से कही है—

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

अध्याय ६ ठा

अर्थात्—अपने आत्मा से ही अपने आत्मा का उद्धार करो, गिरने मत दो । आत्मा का शत्रु या मित्र, स्वयं आत्मा ही है । दूसरा कोई ठग्याण या पतित करनेवाला नहीं है ।

सनाथी मुनि कहते हैं—

अप्या कृत्ता विकृता य दुहाण य सुहाण य ।
अप्या मित्तममित्त य दुपट्टिय सुपट्टियो ॥ ३७ ॥

भावार्थ—सुख और दुःख का उत्पादक, एव विनाशक (कर्ता हर्ता) आत्मा ही है । आत्मा ही मित्र, शत्रु, दुष्प्रतिष्ठ (दुःख पात्र), एव सुप्रतिष्ठ (सुख पात्र) है ।

“ सनाथी मुनि कहते हैं, कि छोटे से लेकर चैतरणी नदी और और कूटशास्मली वृत्त तक के महान् दुःख, आत्मा के ही पैदा किये हुए हैं, और आत्मा ही इन्हें नष्ट भी कर सकता है । इसी प्रकार, छोटे से लेकर कामधेनु एव नन्दनवन तक के महान् सुख भी आत्मा के ही पैदा किये हुए हैं, और आत्मा इन

सुखों को भी नष्ट कर सकता है। समस्त दुःख-सुख का कर्ता आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है।

भ्रमवश आत्मा, अपने लिए दुःख सुख का देने और करने वाला किसी दूसरे को ही मानता है। इस बात को तो भूल ही जाता है कि सुख दुःख मेरे ही किये हुए हैं, इसीसे मैं इन्हें भोग भी रहा हूँ, और यदि मैं चाहूँ तो इनसे निकल भी सकता हूँ। इस बात को, आत्मा किस प्रकार भूला हुआ है, यह बात एक दृष्टान्त द्वारा समझाई जाती है।

एक महल में, एक कुत्ता घुस गया। उस महल में, चारों ओर प्रतिबिम्ब-दर्शक काँच लगे हुए थे। कुत्ते को उन चारों तरफ लगे हुए काँच में अपना प्रतिबिम्ब दिखाई देने लगा। अपने प्रतिबिम्ब को देख कर, कुत्ता समझने लगा, कि ये दूसरे कुत्ते हैं। वह जिधर भी देखता है, उधर उसे अपने ही समान कुत्ते दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि काँच में दिखाई देने वाले कुत्ते, नहीं हैं, उसी कुत्ते का प्रतिबिम्ब है, और काँच में के इसी कुत्ते ने बनाया है, लेकिन कुत्ता इस बात को नहीं और काँच में दूसरे बहुत से कुत्ते समझ कर भोकता कुत्ता आप, स्वयं जिस प्रकार मुँह बना कर भौंकना प्रकार काँच-स्थित कुत्ते भी मुँह बनाकर भौंक रहे कर, तथा अपनी ही प्रतिध्वनि सुन कर, कुत्ता,

और समझता है, कि इन सब कुत्तों ने, मुझे पारो ओर से घेर लिया है, तथा मुझ पर हमला करने के लिए भौंक रहे हैं। इस प्रकार, वह अपने भ्रम से ही व्याप दुःखी हो रहा है दुःख देने वाला दूसरा कोई नहीं है।

ठीक इसी तरह, आत्मा, अपने आपके पैदा किये हुए दुःख भोगता है, कोई दूसरा दुःख नहीं दे रहा है। फिर भी, आत्मा वही समझता है, कि मुझे दूसरो ने दुःख दे रखा है। यदि वह कुत्ता चाहे, तो उस कौंच जटित महल से बाहर निकल कर, अपने आप को सुखी बना सकता है, जो सर्वथा उसी के अधीन है, इसी तरह यदि आत्मा भी चाहे तो अपने आप को दुःख-मुक्त और सुखी बना सकता है।

चाहे स्वर्ग का सुख हो, या नरक का दुःख, उस सुख-दुःख का कर्त्ता आत्मा ही है। आत्मा ने ही, स्वर्ग या नरक में जाने योग्य कार्य किये हैं। किसी दूसरे के किये हुए कार्यों के कारण, अपना आत्मा, स्वर्ग या नरक को नहीं जा सकता। आत्मा को अपने कर्त्तव्य से ही स्वर्ग नरक प्राप्त होता है। सुख दुःख का देनेवाला दूसरे को माननेवाले लोग, उपादान और निमित्त को नहीं समझते, इसीसे उन्हें यह भ्रम रहता है, कि सुख-दुःख का देने वाला दूसरा है।

कार्य के बिना कार्य नहीं होता। चाहे स्वर्ग के सुख हो,

या नरक के दुःख, प्राप्त होते हैं कारण से ही। उन कारणों का उत्पादक, स्वयं आत्मा ही है। आत्मा ही, स्वर्ग या नरक प्राप्त होने के कार्य करता है। बिना कर्म किये, स्वर्ग या नरक नहीं जाता, न सुख-दुःख ही पाता है। नरक या स्वर्ग का आयुष्य बाँधने में, कर्म-बन्ध की प्रधानता है। कर्म-बन्ध, अध्यवसाय से होता है और अध्यवसाय, आत्मा के अधीन हैं। इसलिए आत्मा ही सुख दुःख का कर्त्ता, भोक्ता, एव हर्त्ता है।

कुछ लोग काल को नरक-स्वर्ग या सुख-दुःख का देने वाला कहते हैं। कुछ का कहना है, कि स्वभाव से ही नरक या स्वर्ग प्राप्त होता है। कोई, सुख-दुःख का देने वाला होनहार को मानते हैं, और कुछ लोग कहते हैं, कि सब कुछ ईश्वर के अधीन हैं, वह जैसा चाहता है, वैसा हो जाता है।

कालवादी कहते हैं, कि कर्त्ता-हर्त्ता काल ही है। वे लोग, अपने कथन की पुष्टि में कहते हैं, कि, 'काल होने पर ही, ज्वानी आती है, और काल होने पर ही, बुढ़ापा आता है। काल होने पर ही, स्त्रियों, बालक प्रसव करती हैं और वृक्ष फूलते फलते हैं। काल होने पर ही गर्मी सर्दी और वर्षा भी होती है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य, काल से ही होता है, बिना

कुछ नहीं होता। इसी के अनुसार, काल होने पर, आत्मा

जाना पड़ता है और काल होने पर नरक जाना पड़ता है।

काल होने पर, सुख मिलता है, और काल होने पर दुःख मिलता है। 'तात्पर्य यह, कि सब कुछ काल ही करता है और काल ही से सब कुछ होता भी है।'

स्वभाववादी कहता है, कि 'काल कर्ता नहीं है, किन्तु स्वभाव कर्ता है। जो कुछ होता है, स्वभाव से ही होता है, काल आदि किसी के किये कुछ भी नहीं होता। यदि काल ही कर्ता है, काल से ही सब कुछ होता है, तो काल तो सब पर वर्तता है। फिर एक का काम होता है, और दूसरे का काम क्यों नहीं होता? काल होने पर भी एक स्त्री के तो बालक होता है और दूसरी स्त्री के क्यों नहीं होता? एक ही बाग के कुछ वृक्ष तो फलते हैं और कुछ वृक्ष काल होने पर भी क्यों नहीं फलते? एक वृक्ष में आम लगते हैं, दूसरे में नींबू क्यों लगते हैं? सब में आम क्यों नहीं लगते? फल तो सब पर समानता से वर्तता है, फिर इस प्रकार की विषमता क्यों? इन बातों पर दृष्टि देने से काल, कर्ता नहीं ठहरता, किन्तु स्वभाव कर्ता ठहरता है। जो कुछ होता है, स्वभाव से ही होता है। स्वभाव होने पर ही, स्त्री के बालक होते हैं और वृक्ष में फल लगते हैं। इसी प्रकार, जिस वृक्ष में, आम का फल लगने का स्वभाव होता है, उसमें, आम का फल लगता है और जिसमें नींबू का फल लगने का स्वभाव होता है उसमें, नींबू का फल लगता है। जिसमें नरक

का स्वभाव होता है, वह नरक जाता है और जिसमें स्वर्ग का स्वभाव होता है, वह स्वर्ग जाता है। जिन्में सुर का स्वभाव होता है, वह सुर पाता है, और जिसमें दुर का स्वभाव होता है, वह दुर पाता है। इस प्रकार, सब कुछ स्वभाव से ही होता है। स्वभाव ही, प्रत्येक बात का कर्त्ता है, काल आदि कोई भी कर्त्ता नहीं है।'

होनहारवादी, काल तथा स्वभाव आदि को न कुछ बताकर कहता है, कि 'जो कुछ होता है, होनहार से ही होता है। होनहार ही कर्त्ता है, दूसरा कोई भी कर्त्ता नहीं है। स्वभाववादी ने, कालवादी को भूठा ठहरा कर, स्वभाव को कर्त्ता बताया है, लेकिन स्वभाव भी कर्त्ता नहीं है, कर्त्ता तो होनहार ही है। यदि स्वभाव ही कर्त्ता हो, तो दो स्त्रियों में से, एक के तो पहले बालक हुआ और दूसरी के बहुत समय पश्चात् बालक क्यों हुआ ? बालक उत्पन्न करने का स्वभाव तो इस दूसरी में भी था, फिर इतने विलम्ब का क्या कारण ? स्वभाव होने पर भी पहले बालक नहीं हुआ और फिर बालक हुआ, इससे सिद्ध है, कि जो कुछ होता है, होनहार से ही होता है।'

ईश्वर को कर्त्ता माननेवाले लोग कहते हैं, कि 'जो कुछ होता है, वह सब ईश्वर के करने से ही होता है। काल, स्वभाव या होनहार कर्त्ता नहीं है, किन्तु ईश्वर ही कर्त्ता है।' प्रत्येक बात,

को ही नहीं समझता है, तब वह, चैतन्य आत्मा के विषय में कुछ करने के लिए समर्थ कैसे हो सकता है ? चैतन्य-आत्मा को, जड़-काल के अधीन समझना, चैतन्य आत्मा के लिए, जड़ काल को कर्त्ता मानना, कौनसी बुद्धिमानी है ? जड़ काल के अधीन चैतन्य आत्मा को मानना, चैतन्य को जड़ बनाना है । इस कारण, काल, कदापि कर्त्ता नहीं माना जा सकता ।

काल की ही तरह, स्वभाव के लिए भी यही प्रश्न होता है, कि 'स्वभाव' जड़ है, या चैतन्य ? यदि कहो कि जड़ है, तो फिर काल की ही तरह स्वभाव भी, चैतन्य आत्मा का कर्त्ता कैसे हो सकता है और चैतन्य आत्मा को, जड़ स्वभाव के अधीन कैसे माना जा सकता है ? यदि कहो, कि स्वभाव चैतन्य है, तो आत्मा से भिन्न है, या अभिन्न ? यदि अभिन्न है, तब तो फिर आत्मा ही कर्त्ता ठहरता है, स्वभाव, कर्त्ता कहाँ रहा ? स्वभाव, आत्मा के अधीन है । आत्मा, अपने स्वभाव को अपनी इच्छानुसार बना सकता है । क्षमावान से क्रोधी, क्रोधी से क्षमावान, चोर से साहूकार और साहूकार से चोर होते देखे जाते हैं । इस प्रकार, स्वभाव में परिवर्तन होता है, जो सर्वथा आत्मा के अधीन है । 'इसलिए, स्वभाव कर्त्ता नहीं हो सकता' । यह बात दूसरी है, कि आत्मा के अधीन रहकर, स्वभाव, कर्त्तृत्व में भी भाग लेता हो, लेकिन इस कारण, स्वभाव कर्त्ता नहीं कहा

है। स्वयं कुछ करने की शक्ति नहीं रखता है। फिर भी यदि ईश्वर उसे नरक भेजता है, तब तो ईश्वर अन्यायी ठहरा। उसने स्वयं ही, आत्मा से बुरा काम कराया और फिर भी उसे नरक में भेज दिया, इससे अधिक अन्याय और क्या होगा? ऐसा अन्याय तो मनुष्य भी नहीं करता। मनुष्य भी, अपने सेवक द्वारा कराये हुए अच्छे बुरे कार्य के परिणाम को, स्वयं भोगता है, नौकर पर नहीं डालता। एक व्यापारी का मुनीम, यदि नुकसान का सौदा कर बैठता है, तो उस नुकसान को भी व्यापारी ही उठाता है, मुनीम को नहीं उठाना पड़ता। फिर जो ईश्वर स्वयं ही आत्मा से पाप करावे, वही उस आत्मा को नरक भेज दे, यह न्यायोचित कैसे है? उचित तो यह है, कि ईश्वर, प्रत्येक आत्मा को कुछ न कुछ इनाम ही दे, फिर चाहे आत्मा द्वारा बुरा ही काम सम्पादन क्यों न हुआ हो। क्योंकि बुरा काम करके भी, आत्मा ने, ईश्वर की आज्ञा का पालन ही किया है, और आज्ञा का पालन करने के कारण, आत्मा तो पुरस्कार का ही अधिकारी है।

आत्मा से, ईश्वर ही सब कुछ कराता हो, आत्मा, कुछ भी अधिकार न रखता हो, तब तो फिर, ससार में, किसी प्रकार का सदुपदेश देने, या धर्म का प्रचार करने आदि की भी आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि आत्मा तो दूसरे के अधीन है, इसलिए

नहीं होता, तो इसका अर्थ तो यह हुआ, कि आत्मा एक मशीन है और ईश्वर उसका संचालक है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आत्मा एक मिट्टी का ढेला है और ईश्वर, उस मिट्टी के ढेले के अर्तन बनानेवाला कुम्हार है। या यों कहा जा सकता है, कि आत्मा बन्दर है, और ईश्वर मदारी। ईश्वर-रूपी मदारी, आत्मा-रूपी बन्दर को जैसा सिरपलाता और नचाता है, उसे उसी प्रकार नाचना होता है। ईश्वर को, इस प्रकार का कर्त्ता मानने पर तो बड़ी गड़बड़ होती है। ससार अनावस्था दोष से परिपूर्ण हो जाता है। फिर तो धर्म करने की भी आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि, चाहे धर्म करो या पाप, होगा वही, जो ईश्वर चाहेगा। धर्म करने से, कोई लाभ न होगा। इसी प्रकार, यह भी मानना होगा, कि आत्मा यदि धर्म करता है, तो ईश्वर की प्रेरणा से और पाप करता है, तो ईश्वर की प्रेरणा से। अच्छा बुरा, ईश्वर की प्रेरणा से ही करता है। सब ईश्वर ही करता कराता है। लेकिन यदि ऐसा है, तो यह प्रश्न होता है, कि फिर आत्मा को, नरकादि के कष्ट क्यों भोगने पड़ते हैं? आत्मा ने, स्वयं तो कुछ किया नहीं, जो कुछ किया, वह ईश्वर के कराने से किया, फिर बिना किये का फल, आत्मा को क्यों भोगना पड़े? ईश्वर के सम्मुख, आत्मा तो एक मिट्टी के ढेले के समान, या एक मदारी के बन्दर के समान निरधिकारी

सभी तो पापियों को दण्ड और पुण्यात्माओं को सुख मिलता है । यदि ईश्वर कर्ता न हो, तो यह व्यवस्था न रहे ।

इस प्रकार, राजा का उदाहरण देकर, ईश्वर-कर्तृत्व सिद्ध करते हैं, लेकिन इस दलील पर भी कई प्रश्न होते हैं । सत्र से पहला प्रश्न तो यही होता है कि जब ईश्वर ही आत्मा से पुण्य-पाप कराता है, तब उसका फल आत्मा क्यों भोगे ? दूसरा प्रश्न यह होता है कि बहुत स्थानों पर, राजा नहीं होता है, बिना राजा के ही काम चलाता है, तो क्या इसी प्रकार, कहीं-कहीं बिना ईश्वर के भी काम चलता है ? तीसरा प्रश्न यह है कि कहीं-कहीं राजा का अस्तित्व ही उठ गया है और सम्भव है कि सभी जगह से उठ जावे, तो क्या ऐसा ईश्वर के लिए भी हो सकता है ? चौथा प्रश्न यह है कि राजा का परिवर्तन भी होता रहता है और उसके नियम भी बदलते रहते हैं, तो क्या ऐसे ही ईश्वर और उसके नियम भी परिवर्तनशील हैं ? सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि एक आदमी, चोरी कर रहा है । यह चोरी का पाप, वह आदमी, पूर्व-पाप के दण्ड स्वरूप कर रहा है, या नया पाप कर रहा है ? यदि यह कहो, कि पूर्व पाप के दण्ड स्वरूप कर रहा है, तब तो यह अर्थ हुआ कि ईश्वर पाप का दण्ड देने के लिए, पाप कराता है । फिर तो किसी का 'चोरी मत करो !' उपदेश, ईश्वरीय-व्यवस्था में हस्तक्षेप करना—अपराध—होगा । यदि यह कहा जाये

उस पर उपदेश का कोई असर नहीं हो सकता और ईश्वर को उपदेश की आवश्यकता ही क्या है ? यदि यह कहा जावे, कि ईश्वर की प्रेरणा से ही, एक आत्मा, दूसरे आत्मा को उपदेश देता है, तो यह बात ठीक नहीं जँचती । क्योंकि वही ईश्वर, चोरी त्यागने का उपदेश दिलावे और वही ईश्वर चोरी करने की प्रेरणा करे, यह कैसे सम्भव है ।

ईश्वर को कर्त्ता मानने पर, इसी प्रकार के बहुत से ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जिनका समाधान होना कठिन है ।

ईश्वर को कर्त्ता माननेवाले लोग ईश्वर-कर्तृत्व के विषय में, एक यह दलील देते हैं, कि 'ईश्वर को कर्त्ता न मानने से, ससार में अन्याय फैल जावेगा । लोगों को, पुण्य-पाप का फल देनेवाला कोई न रहेगा । कोई भी अपराधी, स्वयं दण्ड नहीं भुगतना चाहता । स्वयं जेल जाना, किसी को भी पसन्द नहीं है । स्वेच्छापूर्वक, कोई भी दुःख नहीं सहना चाहता, सब सुख ही चाहते हैं । इसलिए, जिस प्रकार राजा के न होने पर अन्याय अपराध बढ़ जावेंगे, अपराधियों को दण्ड और अच्छे काम करनेवालों को पुरस्कार देनेवाला कोई न रहेगा, जिससे व्यवस्था में गड़बड़ होगी और अशान्ति बढ़ जावेगी, इसी प्रकार, यदि ईश्वर न हो, तो पाप-पुण्य का फल कौन दे ? ईश्वर कर्त्ता है,

तभी तो पापियों को दण्ड और पुण्यात्माओं को सुख मिलता है । यदि ईश्वर कर्ता न हो, तो यह व्यवस्था न रहे ।'

इस प्रकार, राजा का उदाहरण देकर, ईश्वर-कर्तृत्व सिद्ध करते हैं, लेकिन इस दलील पर भी कई प्रश्न होते हैं । सब से पहला प्रश्न तो यही होता है कि जब ईश्वर ही आत्मा से पुण्य-पाप कराता है, तब उसका फल आत्मा क्यों भोगे ? दूसरा प्रश्न यह होता है कि बहुत स्थानों पर, राजा नहीं होता है, बिना राजा के ही काम चलता है, तो क्या इसी प्रकार, कहीं-कहीं बिना ईश्वर के भी काम चलता है ? तीसरा प्रश्न यह है कि कहीं-कहीं राजा का अस्तित्व ही उठ गया है और सम्भव है कि सभी जगह से उठ जावे, तो क्या ऐसा ईश्वर के लिए भी हो सकता है ? चौथा प्रश्न यह है कि राजा का परिवर्तन भी होता रहता है और उसके नियम भी बदलते रहते हैं, तो क्या ऐसे ही ईश्वर और उसके नियम भी परिवर्तनशील हैं ? सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि एक आदमी, चोरी कर रहा है । यह चोरी का पाप, वह आदमी, पूर्व-पाप के दण्ड स्वरूप कर रहा है, या नया पाप कर रहा है ? यदि यह कहो, कि पूर्व पाप के दण्ड स्वरूप कर रहा है, तब तो यह अर्थ हुआ कि ईश्वर पाप का दण्ड देने के लिए, पाप कराता है । फिर तो किसी का 'चोरी मत करो ।' उपदेश, ईश्वरीय-व्यवस्था में हस्तक्षेप करना—अपराध—होगा । यदि यह कहा जावे,

कि वह चोरी करनेवाला, नया पाप कर रहा है, तो ईश्वर को प्रेरणा से कर रहा है, या स्वेच्छा से ? यदि ईश्वर की प्रेरणा से कर रहा है, तब तो यह हुआ कि ईश्वर पाप कराता है और स्वयं पाप करा कर भी, पाप का दण्ड देता है । यदि यह कहा जावे, कि पाप करने के लिए, आत्मा स्वतंत्र है, इसलिए वह स्वेच्छा से पाप कर रहा है, तब भी यह प्रश्न होता है, कि पाप हो जाने पर उसका दण्ड देने के बदले, ईश्वर, पाप करनेवाले को, पाप करने के समय ही क्यों नहीं रोक देता ? पाप करने दे कर फिर दण्ड देने से, ईश्वर को क्या लाभ ? वह ब्यालु कहता है, फिर किसी को दुःख में पडने या किसी के पास दुःख रहने ही क्यों देता है ?

ईश्वर को कर्त्ता सिद्ध करने के लिए दी जाने वाली समस्त दलीलें, इसी प्रकार लचर ठहरती हैं । हाँ, ईश्वर को निमित्त रूप कर्त्ता तो जैन-शास्त्र भी मानते हैं, लेकिन ईश्वर को उपादान कर्त्ता मानने, एव आत्मा को—जो प्रत्यक्ष ही कर्त्ता भोक्ता है—अकर्त्ता मानने का कोई कारण नहीं है । यदि आत्मा को ही शुद्ध-प्ररूपणा के अनुसार ईश्वर माना जावे, तब तो ईश्वर को कर्त्ता मानने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ईश्वर को व्यक्ति विशेष और आत्मा से भिन्न मान कर कर्त्ता मानना, ठीक नहीं है । गीता में भी कहा है—

न कर्तृत्व न 'कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु' ॥

अध्याय ५ वा ।

अर्थात्—ईश्वर न तो ससार के कर्तृत्व में है, न कर्मों की सृष्टि करने में ही है ।

इस प्रकार गीता के अनुसार भी, ईश्वर कर्ता नहीं है ।

कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन कर्मबन्ध हो जाने पर आत्मा, कर्म के आधीन हो जाता है । फिर आत्मा को, कर्मों का अच्छा बुरा फल-विपाक या प्रदेश से-भोगना ही पड़ता है । कर्म का फल भुगताने वाला कोई दूसरा नहीं है, किन्तु कर्म स्वयं ही अपना फल उसी प्रकार भुगतावे हैं, जिस प्रकार मिश्री और मिर्चा, अपना मीठापन और कड़ुआपन देती हैं । मिश्री को मुँह में रखने पर मीठापन और मिर्च को मुँह में रखने पर कड़ुआपन, आप ही मालूम होता है । इस मीठेपन या कड़ुएपन के देने में, किसी और की सहायता-प्रेरणा या शक्ति नहीं होती । यदि किसी दूसरे की प्रेरणा या शक्ति से मिर्च और मिश्री, कड़ुआपन या मीठापन दें, तो इसका अर्थ यह होगा कि मिर्च और मिश्री में, स्वभावतः कड़ुआपन या मीठापन नहीं है । लेकिन वास्तव में, मिर्च और मिश्री, किसी की प्रेरणा से कड़ुआपन या मीठापन नहीं देती है, किन्तु उनमें, मुँह में रखने पर कड़ुआपन और मीठापन देने का स्वभाव ही है । ठीक इसी प्रकार,

कर्म में फल भुगताने की शक्ति स्वभावतः है। शुभ कर्म का शुभ फल और अशुभ कर्म का अशुभ फल, कर्म अपने स्वभाव से ही भुगताते हैं। इसमें किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है। यदि कर्म का फल कोई तीसरा भुगताता हो, तो इसका अर्थ यह होगा कि कर्म अपना फल भुगताने की शक्ति नहीं रखते। लेकिन यह बात नहीं है। मिर्च और मिश्री की तरह, कर्म में भी अन्धा-धुरा फल भुगताने की शक्ति है, इसलिए कर्म-फल भुगताने के लिए, ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती।

रही यह बात, कि फिर आत्मा, स्वर्ग या या मोक्ष क्यों नहीं चला जाता? इसका उत्तर यह है, कि जैन-शास्त्रों के समीप, स्वर्ग कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। जैन-शास्त्र, स्वर्ग को भी कर्म-फल भोगने का वैसा ही एक स्थान मानते हैं, जैसा कि नरक को। हाँ, यह अन्तर अवश्य मानते हैं, कि स्वर्ग में शुभ कर्मों का फल भुगता जाता है और नरक में अशुभ कर्मों का फल भुगता जाता है। शुभ कर्म भोगने के लिए, आत्मा को स्वर्ग जाना पड़ता है, इसलिए यदि आत्मा स्वर्ग चला भी गया, तब भी कोई विशेषता की बात नहीं हुई। अब केवल मोक्ष जाने की बात रही, लेकिन जब तक आत्मा के साथ कर्म हैं, आत्मा, मोक्ष जा ही कैसे सकता है और कर्म-रहित होने पर आत्मा को मोक्ष से रोक ही कौन सकता है? कर्म-रहित आत्मा का नाम ही 'मुक्तात्मा' है। आत्मा

के साथ कर्म न होने को ही मोक्ष कहते हैं। यदि आत्मा अपने कर्मों को नष्ट कर दे, तो वह मुक्त ही है।

साराश यह, कि फाल, स्वभाव, होनहार, या ईश्वर को कर्त्ता मानना, भयकर भूल है। इस भूल में, आत्मा, अनाथता में पड़ता है। कर्त्ता, कोई दूसरा नहीं है, किन्तु आत्मा ही है। इसी प्रकार, फल देने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, किन्तु कर्म, अपना फल आप ही भुगता देते हैं। इसलिए आत्मा ही कर्त्ता, हर्त्ता और भोक्ता है।

कुछ लोग कहते हैं, कि जो कुछ होता है, कर्म से होता है। इस प्रकार, वे सब भलाई बुराई कर्म पर ही ढाल देते हैं, लेकिन यह नहीं विचारते कि ये कर्म, किये हुए किसके हैं? कर्म का करने वाला कर्त्ता कौन है? कर्म आत्मा के किये बिना आप ही आप नहीं आये हैं। आत्मा के करने से ही आये हैं। जब आत्मा के करने में ही कर्म आये हैं और अपना अच्छा बुरा फल देते हैं, तब कर्म के कर्त्ता—आत्मा—को छोड़ कर, कर्म को दोष देने से क्या लाभ? यह तो वही कुत्ते की सी बात हुई, जो लकड़ी मारने वाले को न पकड़ कर, लकड़ी को पकड़ता है। कर्म तो आत्मा के किये हुए हैं और आत्मा उन्हें नष्ट करने की शक्ति भी रखता है। उन बेचारों की क्या शक्ति है, जो आत्मा के किये बिना ही, आत्मा को अच्छा बुरा फल भुगतावें। कोई आदमी अपने

मुँह में मिर्च रख ले, और जब मुँह जलने लगे, तब मिर्च को दूष दे, तो ऐसे आदमी का मिर्च को दूष देना, मूर्खता के सिवा और क्या कहा जावेगा ? मिर्च की ही तरह कर्मों का तो शुभाशुभ फल देना, स्वभाव ही है । यदि आत्मा, कर्म में लिप्त न हो, तो वे कर्म, शुभाशुभ फल दे ही कैसे सकते हैं ? इस प्रकार बेचारे कर्म, निर्दोष हैं ।

तात्पर्य यह कि वैतरणी नदी एवं कूटशाल्मली वृक्ष ऐसा दुःख देने वाला, तथा कामधेनु और नन्दनवन ऐसा सुख देने वाला आत्मा ही है । यही बात अनाथता और सनाथता के लिए भी है । आत्मा, अनाथ भी अपने आप ही होता है और सनाथ भी अपने आप ही होता है । कोई दूसरा न तो रुष्ट होकर अनाथ बना सकता है न तुष्ट होकर सनाथ बना सकता है ।

अब प्रश्न यह होता है, कि आत्मा, वैतरणी नदी, कूटशाल्मली वृक्ष, कामधेनु या नन्दनवन बनता कैसे है ? अर्थात् कैसे कार्यों के करने से वैतरणी नदी, कूटशाल्मली वृक्ष बनता है और कैसे कार्यों से कामधेनु, एवं नन्दनवन बनता है ? सनाथी मुनि के शब्दों में, इस प्रश्न का उत्तर यह है, कि सासारिक गड़बड़ में फँस कर पाप एवं निषिद्ध कार्य करना, यह तो अपने आत्मा को वैतरणी नदी और कूटशाल्मली वृक्ष बनाना है, तथा सासारिक कर्मों से निकल कर, आत्मा को मोक्ष की

और घटाना, संयम धारण करना, यह अपने आत्मा को कामधेनु एवं नन्दनवन बनाना है। सनाथी मुनि कहते हैं, कि पहले मेरा आत्मा ही चैतरणी नदी और कूटशात्मली घृत्त घना हुआ था, इसीसे स्वयं भी कष्ट भोग रहा था और दूसरो को भी कष्ट पहुँचा रहा था, लेकिन अब वही मेरा आत्मा, कामधेनु और नन्दनवन बन गया है, इससे आप भी आनन्द में है, तथा दूसरो को भी आनन्द पहुँचाता है।

राजा, जब मैं रोग-ग्रस्त था, तब कहता था, कि मेरी आँखें, मेरा सिर और मेरा शरीर दुःख दे रहा है। यदि ये दुःख न दें, तो मुझे शांति हो जावे। उधर वैद्य कहते थे, कि वात पित्त आदि में विषमता आ गई है, इससे दुःख हो रहा है। यदि वात पित्त आदि नम हो जावें, तो दुःख मिट जावे। उनकी समझ से, दवा, वात पित्त को सम कर सकती थी, इसलिए, दवा ही शांति देने वाली थी। इस प्रकार मैं कुछ समझ रहा था और वैद्य कुछ कह रहे थे। अपनी समझ के अनुसार उन्होंने मेरा उपचार भी किया, लेकिन मुझे, शान्ति न हुई। वैद्य लोग, पीडा का अवास्तविक निदान करते थे, वास्तविक निदान नहीं करते थे। यानी यह नहीं बतलाते थे, कि वास्तव में यह पीडा आई कहाँ से। उनकी दृष्टि, अपने व्यवसाय तक ही सीमित थी, इसलिए वे, इन रोगों के होने का यह कारण न बता सके, कि ये रोग आत्मा की अनाथता से ही

उपन्न हुए हैं। अन्त में, उपचार की ओर से उत्पन्न निराशा एवं अविश्वास ने, मेरे ही हृदय में यह विचार पैदा किया, कि ये सब रोग, मेरे आत्मा मे से ही निकले हैं और उसकी अनाथता से उत्पन्न हुए हैं।

सनायी मुनि ने, राजा श्रेणिक से यह कहा है, कि हमारा आत्मा ही वैतरणी नदी, कूटशाल्मली वृक्ष, कामधेनु और नन्दनवन है। इस कथन पर से किसी के हृदय में यह प्रश्न हो सकता है, कि वैतरणी नदी, कूटशाल्मली वृक्ष, नन्दनवन और कामधेनु का अस्तित्व है भी, या केवल कल्पना ही कल्पना है? इस प्रश्न का उत्तर यह है, कि शास्त्रकारों को, किसी प्रकार का भय दिखाना या प्रलोभन देना अभीष्ट नहीं था, जो वे भूठी कल्पना करते। भूठी कल्पना तो तब की जाती है, जब कोई स्वार्थ हो। शास्त्रकारों ने, वैतरणी नदी एवं नन्दनवन आदि बता कर यह नहीं कहा है, कि हमें कुछ दोगे, तो नन्दनवन तथा कामधेनु प्राप्त होगी और नहीं दोगे, तो वैतरणी नदी एवं कूटशाल्मली वृक्ष प्राप्त होगा। यदि उन्होंने, ऐसी कोई योजना रखी होती, तब तो उक्त सन्देह होना स्वाभाविक था, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई योजना नहीं रखी है—ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया है—इसलिए यह सन्देह नहीं किया जा सकता, कि शास्त्रकारों ने, वैतरणी नदी आदि की भूठी कल्पना की होगी।

शास्त्रकारों ने, वैतरणी नदी आदि बताने के साथ ही यह भी कहा है, कि तुम्हारा आत्मा ही वैतरणी नदी, कूटशाल्मली वृक्ष, नन्दनवन और कामधेनु है। - तुम्हारा आत्मा ही, दुःख एवं सुख का कर्ता है। इस प्रकार वैतरणी नदी, तथा नन्दनवन आदि का अस्तित्व आत्मा में ही सिद्ध किया है और कहा है, कि तुम अपने आत्मा को, इनमें से चाहे जैसा बना सकते हो।

अब प्रश्न यह होता है कि वैतरणी नदी, कूटशाल्मली वृक्ष, कामधेनु और नन्दनवन, हमारे आत्मा से दूर हैं और हमारा आत्मा इन से दूर है। ऐसी दशा में, आत्मा से इन सब का सम्बन्ध कैसे हो सकता है ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है, कि स्वर्ग-नरक, सुख-दुःख, वैतरणी नदी, कूटशाल्मली वृक्ष, कामधेनु और नन्दनवन आदि सबका विधायक आत्मा ही है। आत्मा ही विधायक है, इस लिए वैतरणी नदी तथा नन्दनवन आदि दूर होने पर भी, समीप किस प्रकार आजाते हैं और आत्मा उनके समीप किस प्रकार पहुँच जाता है, यह बात निम्न दृष्टान्त पर से समझ में आजावेगी।

एक आदमी बीमार है। निरोगता उससे दूर है। इसी प्रकार एक आदमी स्वस्थ है और रोग उससे दूर है। लेकिन रोगी आदमी ने पथ्य और स्वस्थ आदमी ने कुपथ्य का सेवन

किया, इससे रोगी आदमी स्वस्थ बन गया। और स्वस्थ आदमी रोगी बन गया। यानी, बीमार आदमी से निरोगता दूर थी, फिर भी उसके पास आगई और वह बीमार, निरोगता के पास होगया। तथा स्वस्थ आदमी से रोग दूर थे, फिर भी रोग समीप आगये और वह रोगों के समीप हो गया।

ठीक इसी प्रकार, वैतरणी नदी, कृटशाल्मली वृक्ष, कामधेनु एव नन्दनवन से आत्मा और आत्मा से ये सब दूर हैं, फिर भी अच्छे या बुरे, पाप या पुण्य कार्य से, ये सब आत्मा के और आत्मा इनके समीप हो जाता है।

सनाथी मुनि ने, राजा श्रेणिक से कहा, कि आत्मा ही सुख दुःख का निर्माता एव भोक्ता है और आत्मा ही अच्छा करने वाला मित्र, तथा बुरा करने वाला शत्रु है। सनाथी मुनि के इस कथन के प्रथमोश का विवेचन तो हो चुका, अब यह देखना है, कि आत्मा, अच्छा करने वाला मित्र एव बुरा करने वाला शत्रु कैसे बनता है।

सबसे पहले यह देखने की आवश्यकता है, कि, मित्र तथा शत्रु कहते किसे हैं ? जैसे तो ससार में खाने पीने वाले बहुत से मित्र बन जाते हैं, लेकिन वे वास्तव में मित्र हैं या शत्रु, यह परीक्षा समय विशेष पर ही होती है। तुलसीदासजी ने कहा है—

धीरज धर्म मित्र अरु नारी ।

आपति काल परखिये चारी ॥

अर्थात्—धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री की परीक्षा, आपति-काल में करो ।

मित्र की परीक्षा, आपति के समय में ही होती है । दुःख में जो सहायता करे, वही मित्र है । सकट के समय सहायता न करे, वह मित्र नहीं है किन्तु मित्र के रूप में छिपा हुआ, शत्रु है । श्री जम्बू महाराज ने अपनी रानियों से कहा था, कि प्रिये, तुम प्रेम दिखाती हो, मित्रता बताती हो, लेकिन मित्र वही है, जो सकट के समय काम आवे । केवल सुख के समय, मित्रता का प्रदर्शन करने वाला ही, मित्र नहीं है । इसके लिए मैं एक दृष्टान्त देता हूँ ।

एक राजा का प्रधान था । प्रधान ने विचारा कि अपने समय असमय के लिए किसी को मित्र भी बना रखें । यह विचार कर उसने अपना एक नित्य-मित्र बनाया । प्रधान, नित्य-मित्र की बहुत खातिर करता । उसे, अपनी तरह खिलाता पिलाता और पहनाता ओढाता । नित्य मित्र से वह किसी भी प्रकार का भेद दुराव न रखता । नित्य-मित्र, प्रधान के और प्रधान, नित्य-मित्र के साथ ही रहता । प्रधान ने, एक दूसरा पर्व-मित्र भी बनाया । वह, पर्व-मित्र को आठवें पन्द्रहवें दिन अपने यहाँ बुला

कर, उसकी खातिर करता, खिलाता-पिलाता और पहनाता ओढाता । इन दोनों मित्रों का प्रधान को बहुत भरोसा था । प्रधान समझता था कि ये मित्र कष्ट के समय में, मेरी सब प्रकार की सहायता करेंगे । दोनों मित्रों के प्रकट व्यवहार से भी ऐसा ही प्रतीत होता था ।

इन दो-मित्रों के सिवा, प्रधान ने, एक सेठ, को भी मित्र बना रखा था । प्रधान का, सेठ से कोई विशेष व्यवहार न था, केवल, सैन जुहार का ही सम्बन्ध था । प्रधान और सेठ जब कभी इधर-उधर मिल जाते, तब परस्पर जुहार-कर लेते और इशारे से एक दूसरे की कुशल पूछ लेते । इन दोनों में, इतनी ही मित्रता थी ।

कुछ दिनों तक मित्रों के साथ प्रधान का मित्रतापूर्ण व्यवहार चलता रहा । - प्रधान के साथ नित्य-मित्र तो सदा और पर्व-मित्र यदा कदा आनन्द उढाता रहा । इनकी परीक्षा का कोई समय न आया । एक बार राजा की प्रधान पर कोप दृष्टि हो गई । राजा ने, आज्ञा दी कि प्रधान को पकड कर कारागार में डाल दो । राजा की आज्ञा का समाचार सुन कर प्रधान भयभीत हुआ । उसने विचारा, कि जो होना होगा सो तो होगा ही, लेकिन यदि इस समय मैं क्रुद्ध राजा के हाथ पड गया, तो मेरी बड़ी दुर्दशा होगी । इसलिए इस समय राजा के हाथ न पडना ही अच्छा है ।

इस प्रकार विचार कर, प्रधान घर छोड़ कर भाग निकला। उसे सबसे अधिक अपने नित्य मित्र का विश्वास था, इसलिए वह अपने नित्य-मित्र के पास गया। प्रधान ने नित्य-मित्र से राजा के कोप का वृत्तान्त कह कर कहा कि-मेरे घर पर राजा ने पहरा लगा दिया है, मैं जैसे-तैसे निकल भागा हूँ, इस समय यदि मैं पकड़ा जाऊँगा, तो मेरी बड़ी दुर्दशा होगी, इज्जत मिट्टी में मिल जावेगी इसलिए तुम मुझे कहीं छिपाने को स्थान दो और मुझे बचाने का प्रयत्न करो। प्रधान की बात के उत्तर में, नित्य-मित्र ने कहा, कि जिस पर राजा का कोप है, उसे मैं अपने घर में कदापि नहीं रख सकता। नित्य-मित्र की यह बात सुन कर, प्रधान को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह नित्य-मित्र से कहने लगा कि अरे! तू यह क्या कहता है। मैं तेरा और तू मेरा मित्र है न। आज तक अपनसाथ रहे, साथ और समान खाया-पिया और आज समय पड़ने पर इस तरह उत्तर देता है? नित्य-मित्र ने, क्रुद्ध हो कर प्रधान से कहा कि घस। यहाँ से चला जा, नहीं तो अभी पत्थर से सिर फोड़ दूँगा या राजा को खरबेकर पकड़वा दूँगा। प्रधान अधिक क्या कहता। वह चुपचाप भाग चला।

नित्य-मित्र के पास से खाना होकर, प्रधान अपने पर्व मित्र के यहाँ आया। पर्व-मित्र ने पहले तो प्रधान की खातिर की, लेकिन जब प्रधान ने अपना सकट सुना कर, पर्व-मित्र से सहायता

एव रक्षा की याचना की, तब पर्व-मित्र ने हाथ जोड़ कर प्रधान से कहा कि मैं, राजा के अपराधी को, अपने यहाँ रखने में असमर्थ हूँ। यदि राजा को खबर हो जावेगी, तो वह मेरा घर खुदवा कर फिक्का देगा। इसलिए कृपा करके आप यहाँ से पधार जाइये। हाँ, यदि आप भूखे हो, तो मैं आपको भोजन कराऊँ और यदि द्रव्य की आवश्यकता हो, तो द्रव्य ले जाइये, लेकिन यहाँ मत ठहरिये।

नित्य-मित्र ने प्रधान के साथ जो व्यवहार किया था, उसके अनुभव ने, प्रधान में यह साहस न होने दिया, कि वह पर्व-मित्र से और कुछ कहता। वह, पर्व-मित्र के यहाँ से यह विचार कट चलता बना, कि इसके साथ तो मैंने, नित्य-मित्र से कम ही मित्रता का व्यवहार किया था, फिर भी यह पत्थर मारने को तो तैयार नहीं हुआ।

प्रधान, सैन जुहारी मित्र, सेठ के यहाँ गया। रात का समय था। सेठ के घर का द्वार बन्द हो चुका था। नित्य-मित्र और पर्व-मित्र की श्रोर से रक्षा के लिए स्थान नहीं मिला था किन्तु मित्रता के विपरीत व्यवहार हुआ था, इसलिए प्रधान को अपने सैन जुहारी मित्र सेठ से किसी प्रकार की आशा तो न थी, फिर भी उसने सबक पर सड़े होकर सेठ को आवाज दी। सेठ ने द्वार खोल कर पूछा कौन है? प्रधान ने कहा इधर मैं

बताता हूँ । सेठ प्रधान के समीप गया । प्रधान को देखकर सेठ ने आश्चर्यान्वित हो कहा—कि आप इस समय कैसे ? प्रधान ने उत्तर दिया, कि मुझे आपसे कुछ कहना है । सेठ ने कहा, कि कुछ कहना है, तो घर में चल कर कहिये, यहाँ सड़क पर खड़े रह कर बात करना ठीक नहीं । प्रधान ने कहा—कि आप मेरी बात यहाँ सुन लें तो अच्छा होगा, मुझे घर में ले जाने पर सम्भव है कि आपकी कोई हानि हो । क्योंकि इस समय मुझ पर राजा का कोप है । सेठ ने उत्तर दिया, कि यदि ऐसा है, तो सड़क पर खड़े रह कर बात करना और भी बुरा है । आप घर में चलिये, जो होगा सो देखा जावेगा ।

सेठ, प्रधान को अपने घर में लिवा गया । घर में पहुँच कर, सेठ ने, प्रधान से कहा, कि पहले आप शौचादि आवश्यक कार्य से निपट लीजिये, जिसमें फिर निश्चिन्त होकर अपन बात चीत करें । सेठ के कथनानुसार प्रधान ने हाथ मुँह धोया । फिर सेठ ने, प्रधान को भोजन कराया । प्रधान को ऐसे समय में भोजन कब अच्छा लग सकता था, फिर भी उसने सेठ के अत्याधिक आम्रह पर थोडा—बहुत भोजन किया । भोजन कर चुकने के पश्चान् सेठ ने प्रधान से कहा, कि अब आप सब वृत्तान्त कहिये, परन्तु मैं आपका मित्र हूँ, इसलिए आप कोई बात छिपाइये या मूठ मत कहिये, किंतु सच्ची र बात बताइये,

जिसमें कुछ उपाय किया जासके । प्रधानने यह बात स्वीकार की ।

प्रधान, सेठ से कहने लगा, कि मेरे लिए मेरे विरोधी लोगों ने, राजा से अमुक अमुक बातों की चुगली की है । इन्हीं बातों पर से, राजा मुझ पर कुपित हैं, लेकिन वास्तव में ये बातें गलत हैं और मैं निर्दोष हूँ । यदि राजा ने मुझे अवकाश दिया होता, या मुझ से पूछा होता, तब तो मैं सब बातें बता देता, परन्तु इस समय तो राजा के पास जाना, अपनी, इज्जत खोना है । विरोधी लोगो ने जो बातें राजा से कही हैं, उनमें की अमुक अमुक बात तो अमुक मिसल में, या अमुक वही में लिखी हुई है । हाँ, अमुक बात की गलती मेरे से अवश्य हुई है ।

प्रधान ने इस प्रकार अपने ऊपर लगाये जाने वाले सभी अभियोगों एवं उनकी सफाइयों से सेठ को परिचित कर दिया और जो भूल हुई थी, उसे भूल मान लिया । प्रधान को सब बातें सुन कर, सेठ ने प्रधान से कहा, कि कोई चिन्ता की बात नहीं है । सब कुछ अच्छा ही होगा । अब जब तक राजा की कोप-दृष्टि न मिट जावे, तब तक आप इसी घर में रहिये, किसी प्रकार का सकोच न करिये । आपने मुझे सच्ची बातों से परिचित कर दिया है, इसलिए परिणाम भी अच्छा ही होगा ।

प्रधान को, सेठ की बातों से बहुत धैर्य मिला । वह, सेठ के यहाँ ही रहा । दूसरे दिन सेठ, राजा के पास पहुँचा । राजा

से, सेठ ने अपने आने की सूचना कराई। राजा ने विचारा, कि यह सेठ अपने यहाँ कभी कभी ही आता है, और जब भी आता है, किसी न किसी काम से। आज भी यह किसी काम से ही आया होगा। इस प्रकार विचार कर, राजा ने सेठ को अपने पास बुलाया। उचित शिष्टाचार और थोड़ी बहुत इधर-उधर की बातों के पश्चात्, सेठ ने प्रधान का किरसा छेडा। सेठ ने राजा से कहा, कि प्रधानजी के विषय में बहुत से समाचार सुनने में आते हैं, और मालूम हुआ है, कि आप प्रधानजी पर रुष्ट हैं तथा प्रधानजी भी भाग गये हैं, सो क्या ये बातें सन्धी हैं ? राजा ने उत्तर दिया—हाँ सेठ, प्रधान बड़ा बेईमान निकला। उसने राज्य का बहुत नुकसान किया और अब भाग गया है, लेकिन भाग कर कहाँ जावेगा। जहाँ होगा, वहाँ से पकड़वा मँगवाऊँगा और उसे दण्ड दूँगा।

सेठ—अपराधी को दण्ड तो मिलना ही चाहिए और आप के हाथ भी बडे हैं, प्रधानजी भाग कर कहाँ जावेंगे, परन्तु प्रश्न यह है, कि प्रधान के बिना राज्य का प्रबन्ध कौन करेगा ?

राजा—दूसरा प्रधान लावेंगे ।

सेठ—यदि दूसरा प्रधान भी ऐसा ही बेईमान निकला तो ?

राजा—उसकी जाँच करेंगे, तत्र रखेंगे ।

सेठ—मेरी प्रार्थना यह है, कि जब आप उस नये प्रधान

की जाँच करेगे, तो पुराने प्रधान की ही जाँच क्यों न कर ली जावे ? पुराने प्रधान के जिन-जिन कामों के विषय में शिकायत है, उन-उन कामों की रागज-पत्र आदि से जाच कर ली जावे, जिसमें मालूम तो हो जावे, कि वास्तव में प्रधान की वेईमानी है, या नहीं। प्रधानजी मेरे मित्र थे, वे प्रायः नित्य ही मुझे भिला करते थे और दरवार में जो काम करते, उनका भी जिक्र किया करते थे। प्रधानजी के कार्यों का बहुत समाचार मुझे भी मालूम है, इसलिए मैं भी इस जाँच में कुछ सेवा दे सकूँगा।

राजा को, सेठ की बात ठीक जँची। उसने प्रधान के विरुद्ध लगाये गये सब अभियोग, सेठ को बतलाये। सेठ ने एक एक अभियोग के लिए राजा से कहा, कि इस अभियोग के विषय में प्रधानजी ने मुझ से यह कहा था, कि अमुक फाइल में—या अमुक वही में—सब खुलासा है। सेठ के कथनानुसार, राजा ने फाइलें और वहियें देखी, तो उसमें प्रधान की कोई वेईमानी मालूम नहीं हुई। कुछ अभियोगों के लिए, सेठ ने कहा कि यह प्रधानजी से गलती हुई। प्रधानजी मुझसे भी कहते थे, कि अमुक काम में मेरे से अमुक गलती हो गई है। इतना बड़ा राजकाज चलाने वाले से यदि ऐसी गलती हो जावे, तो कोई आश्चर्य या वेईमानी की बात तो नहीं हो सकती।

इस प्रकार धीरे-धीरे सेठ ने, राजा के सामने, प्रधान को,

सभी अभियोगों में निर्दोष सिद्ध कर दिया। राजा को मालूम हो गया, कि प्रधान निर्दोष है, और पिशुन लोगों ने मुझ से प्रधान की भूठी बातें कह कर, मुझे प्रधान पर कुपित किया है। मैंने भी मूर्खतावश बिना जाँच किये ही प्रधान को पकड़ने की आज्ञा दे दी। अच्छा हुआ जो प्रधान भाग गया, नहीं तो मैं उसकी बहुत खराबी करता।

राजा, सेठ से कहने लगा—कि आपने बहुत अच्छा किया, जो ये सन बातें घतला दीं और प्रधान को निर्दोष सिद्ध किया। वास्तव में, प्रधान निर्दोष एव ईमानदार है, वेईमान लोगों की बातों में पड कर ही मैंने उसकी प्रतिष्ठा पर हाथ डाला है, लेकिन अब क्या हो सकता है। जो होना था, वह हो चुका। अब तो केवल यह प्रश्न है कि प्रधानजी को पुन किस प्रकार प्राप्त किया जाने। सेठ ने उत्तर किया, कि यदि आप मुझे और प्रधानजी को क्षमा करें, और प्रधानजी की प्रतिष्ठा को जो धक्का पहुँचा है, उनका सम्मान बढ़ा कर उस क्षति की पूर्ति करें, तो मैं प्रधानजी को हँड लाऊँ। राजा ने यह बात स्वीकार की, तब सेठ ने कहा कि प्रधानजी मेरे ही यहाँ हैं, आप पधारिये।

सेठ के साथ, हाथी घोड़े आदि सहित राजा, प्रधान को लाने के लिए सेठ के घर को चला। नगर में भी हल्ला हो गया, कि राजा, प्रधान को लाने जा रहे हैं, इससे नगर के लोग भी

राजा के साथ हो गये । गाजे वाजे से राजा, सेठ के घर पहुँचा । सेठ ने घर में जा कर प्रधानजी से कहा, कि चलिये, आपको राजा लेने के लिए आये हैं । सेठ की यह बात सुन कर, प्रधान घबराया । वह समझा, कि राजा मुझे पकडने आये हैं । उसने सेठ से कहा, कि क्या, आप मुझे पकडा देंगे ? सेठ ने उत्तर दिया—नहीं, आप घबराइये मत, राजा आपको सम्मानपूर्वक लेने के लिए आये हैं, और द्वार पर हाथी लिये खड़े हैं । राजा ने आपको निरपराधी पाया, इसी का यह परिणाम है ।

सेठ की बात से, प्रधान को प्रसन्नता हुई । वह बाहर आकर राजा से मिला । राजा ने, प्रधान को हाथी पर बैठा कर शहर में घुमाया, तथा पुन प्रधान पद प्रदान किया ।

यह दृष्टान्त देकर, श्री जम्बू महाराज ने अपनी रानियों से पूछा—प्रिये, तुम्हारी दृष्टि में, प्रधान के तीनों मित्र में से कौन सा मित्र अच्छा था ? जम्बू महाराज की रानियों ने उत्तर दिया, कि पहला नित्य-मित्र तो किसी काम का ही नहीं था । ऐसे मित्र का तो मुँह भी न देखना चाहिए । वह तो मित्र नहीं, किन्तु मित्र के रूप में नीच शत्रु था । दूसरा पर्व मित्र, मध्यम है । उसने नीच नित्य-मित्र की तरह अशिष्ट व्यवहार तो नहीं किया, लेकिन मित्रता का पालन भी नहीं किया । तीसरा सैन—जुहारी मित्र,

उत्तम है। उसने, मित्रता का पालन करके सकट के समय मित्र की सहायता की।

जम्बू स्वामी कहने लगे, कि उस प्रधान की ही तरह, मैंने भी अपने तीन मित्र बना रखे हैं। पहला नित्य-मित्र, यह शरीर है। इस शरीर को नित्य ही नहलाता-धुलाता सजाता पहनाता और पिलाता पिलाता हूँ। मैं, इसे दूसरा नहीं समझता। लेकिन जब कर्म रूपी राजा बदलता है, जब वृद्धावस्था या रुग्णावस्था आती है, तब, सबसे पहले यह शरीर ही धोखा देता है। उस समय यह शरीर, पत्थर मारने ऐसे काम करता है। दूसरा मित्र, कुटुम्ब-परिवार है, जिसमें तुम लोग भी सम्मिलित हो। यद्यपि तुम लोग अभी मुझसे इतना प्रेम करती हो, लेकिन जब कर्म रूपी राजा, मुझसे घदल कर मेरा शत्रु बनेगा, तब, क्या तुम लोग, मेरी किसी प्रकार की सहायता कर सकोगी? उस समय, पर्व मित्र की तरह यह तो न फहोगी, कि भूख हो, तो भोजन करा दें, दवा चाहो, तो दवा का प्रबन्ध कर दें, या हम अपने आभूषण दे दें। क्या उम समय तुम मेरी रक्षा कर सकोगी? मुझे कोई सहायता पहुँचा सकोगी? कदापि नहीं।

मैंने अपना तीसरा मित्र, सुधर्मा स्वामी को बना रखा है। यद्यपि सुधर्मा स्वामी हैं सैन—जुहारी मित्र ही, उनसे नित्य-मित्र और पर्व-मित्र की तरह कोई विशेष व्यवहार नहीं है, फिर भी

उन्होंने मुझे ऐसा उपाय बताया, कि जिसके करने पर, मैं, कर्मरूपी शत्रुओं से लड़ सकता हूँ और उन पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। उनसे मुझे सिखाया है, कि तेरे आत्मा में जो कमी है, तेरे में जो अनाथता है, उसे निकाल, फिर तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने मुझसे कहा है, कि तेरा मित्र भी तू ही है और तेरा शत्रु भी तू ही है।

तात्पर्य यह, कि मित्र वही होता है, जो सकट के समय काम आये। जम्बू महाराज के कहे हुए दृष्टान्त में, प्रधान परलौकिक सकट था, इसलिए लौकिक मित्र ने सहायता की, लेकिन पारलौकिक सकट के समय, लौकिक मित्र सहायता नहीं कर सकता। उस समय, अपना आत्मा ही अपनी सहायता कर सकता है। क्योंकि, परलोक में, इसका मित्र यही है दूसरा नहीं। आत्मा स्वयं का मित्र बन कर, स्वयं की सहायता तभी कर सकता है, जब वह स्वयं की मित्रता के कार्य करता हो। सकट के समय सहायता करे, वही मित्र है और जो सकट के समय काम न आवे, किन्तु सकट बढ़ा दे, वही शत्रु है।

अच्छे काम में लगा हुआ आत्मा, स्वयं का मित्र, तब सुप्रतिष्ठ है और बुरे काम में लगा हुआ आत्मा, स्वयं का शत्रु तथा दुःप्रतिष्ठ है। उदाहरण के लिए, एक ने अपने कानों से

शास्त्र-श्रवण किया और दूसरे ने, वेश्या का गाना सुना। इन दोनों में से, शास्त्र श्रवण करनेवाला आत्मा, स्वयं का मित्र एवं सुप्रतिष्ठ बना और वेश्या का शृङ्गार रस पूर्ण गाना सुनानेवाला आत्मा, अपने आपका शत्रु एवं दुष्प्रतिष्ठ बना।

आत्मा को प्राप्त-इन्द्रिय मन और बुद्धि साधनों से, दोनों ही प्रकार के काम किये जा सकते हैं। यानी ऐसे अच्छे काम भी किये जा सकते हैं, जिनसे आत्मा स्वयं का मित्र और सुप्रतिष्ठ बने, और ऐसे बुरे काम भी किये जा सकते हैं, जिनसे आत्मा, स्वयं का शत्रु एवं दुष्प्रतिष्ठ बने। इन्द्रिय, मन, और बुद्धि के कामों पर, से ही, आत्मा, मित्र, शत्रु, दुष्प्रतिष्ठ सुप्रतिष्ठ और सनाथ या अनाथ बनता है।

सनाथ बने हुए व्यक्ति को, कभी दुःख या कष्ट तो होते ही नहीं। सासारिक लोग जिन्हे घोर से घोर कष्ट समझते हैं, उन कष्टों के समय में भी, सनाथ बना हुआ व्यक्ति, हँसता ही रहता है। शरीर से, चर्म खींचे जाने पर भी, सनाथ बने हुए व्यक्ति को दुःख नहीं होता। वह तो यही समझता रहता है, कि यह सब, मैंने ही—मेरे लिए—किया है, इसमें सुख या दुःख मानने की कौनसी बात है। सुख दुःख मानने से, कष्ट के समय रोने एवं सुख के समय हँसने से तो और हानि है, तथा यही अनाथता बढ़ाने या अनाथता में डालने का कारण है। मैं,

सनाथ तभी हूँ, जब दुःख के समय भी हँसता रहूँ। दुःख को भी सुख मानने से तथा दुःख के समय भी हँसते रहने से, आत्मा की रही सही अनाथता भी दूर होगी। इस प्रकार विचार कर, सनाथ बना हुआ व्यक्ति, मृत्यु के समय भी हँसता रहता है, दुःख नहीं करता। वह जानता है, कि किसी भी समय रोने से, कुछ लाभ नहीं है, किन्तु ऐसा 'करना, आत्मा को अनाथ बनाना है। उसको, इस बात पर विश्वास रहता है, कि आत्मा और शरीर, तलवार और म्यान की भाँति, भिन्न-भिन्न हैं। 'मैं' आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर को चाहे कोई कितना ही कष्ट दे, उससे मेरा कुछ नहीं विगड़ सकता। मैं तो ब्रती ही हूँ जिसे कोई कष्ट दे ही नहीं सकता। मौत भी मेरा कुछ नहीं विगाड सकती है, क्योंकि मैं अमर हूँ। सनाथ बना हुआ व्यक्ति गीता के कहे हुए निम्न श्लोक को बिलकुल ठीक मानता है। गीता में कहा है —

नैन त्रिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक ।

न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत ॥

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्य सर्वगतः स्याणुरचलोऽय सनातन ॥

अर्थात्—यह आत्मा, शस्त्र से नहीं कट सकता, इसे भाग नहीं जला सकती, यह पानी से नहीं भीग सकता और इसे हवा नहीं सुख सकती। यह अछेय है, कट नहीं सकता, न जलाया, भिगोया या सुखाया ही जा सकता है। यह नित्य, व्यापक, स्थिर अचल और सनातन—यानी सदा रहने वाला—है।

अनाथता को त्यागकर, सनाथ बनना ही आत्म तत्त्व को समझ कर उसके अनुसार आचरण करना है। जो आत्म-तत्त्व को जान चुका, वह न तो किसी को भय देता ही है, न किसी से भयभीत ही होता है। वह, हर्ष अमरोप आदि सब से परे रहता है। गीता में कहा है—

समः शत्रौ च मित्रौ च तथा मातापमानयो ।

शीतोष्ण सुख दुःखेषु सम भग विवर्जित ॥

तुल्यानिन्दास्तुति मौनी सन्तुष्टो येनकनचित् ।

अध्याय १२ वॉ ।

अर्थात्—जो शत्रु, मित्र, मान, अपमान, सर्त गर्मी, और सुख तथा दुःख में समान भाव रखता है, जो वासना रहित है जो निन्दा स्तुति में तुल्य भावना रखता है और जो मौनी है, (वही सनाथ है।)

ये, सनाथ बने हुए व्यक्ति के लक्षण हैं। इन लक्षणों से ही, सनाथ व्यक्ति पहचाना जाता है।

यद्यपि सनाथी मुनि के उपदेश को सुनकर, राजा श्रेणिक,

अनाथता देने वाली वस्तुओं को त्याग न सका, लेकिन उसकी यह श्रद्धा अवश्य हो गई, कि ये वस्तुएँ अनाथता देने वाली हैं। अब तक, वह इन्हीं वस्तुओं को, सनाथ बनाने वाली मानता था मनुष्य-जन्म को, भोग के लिए जानता था और सयम को, मनुष्य-जन्म का दुरुपयोग एवं अपमान समझता था। लेकिन अब उसकी, श्रद्धा, इसके विपरीत हो गई है। अब वह, इन वस्तुओं के वास्तविकरूप को समझने लगा है। अब उसकी श्रद्धा, शुद्ध हो गई है।

शास्त्रकारों का कथन है, कि 'कल्याण साधने में, श्रद्धा का शुद्ध होना आवश्यक है।' श्रद्धा के अनुसार आचरण करना करना, अपनी अपनी शक्ति पर निर्भर है, लेकिन श्रद्धा तो शुद्ध ही होनी चाहिए। श्रद्धा शुद्ध होने पर, यदि परिस्थिति वशा किसी बुरे कार्य में प्रवृत्त होना भी पडा, तो शुद्ध श्रद्धा वाला उस कार्य को समझेगा बुरा ही, और शुद्ध श्रद्धा के अभाव में, वह बुरा कार्य भी अच्छा मालूम होगा। जो आदमी, बुरे कार्य को बुरा ही समझता है उससे वह बुरा कार्य कभी छूट सकता सम्भव है, लेकिन जो बुरे काम को बुरा ही नहीं समझता, वह उसे क्यों छोड़ेगा ? शुद्धाचरण करना, प्रत्येक की शक्ति से परे की बात है, प्रत्येक आदमी, ऐसा करने में समर्थ नहीं हो सकता है लेकिन शुद्ध श्रद्धा, प्रत्येक आदमी धारण कर सकता है। शुद्ध

श्रद्धा के होने पर, शुद्धाचरण दुर्लभ नहीं माना जाता, लेकिन अशुद्ध श्रद्धा के होने पर, शुद्धाचरण दुर्लभ है । और यदि व्यवहार दृष्टि से किसी में शुद्धाचरण हुआ भी, तब भी, तात्विक दृष्टि से तो वह अशुद्धाचरण ही है । इसी कारण शास्त्र में कहा है—

सद्धा परम दुल्लहा ।

। अर्थात् श्रद्धा होना बहुत दुर्लभ है ।

राजा श्रेणिक की श्रद्धा, अब तक अशुद्ध थी, लेकिन अब शुद्ध होगई । इस शुद्ध श्रद्धा ने—सयम न ले सकने पर भी— राजा श्रेणिक ने, तीर्थङ्कर गोत्र बाँध लिया । इसलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए, शुद्ध श्रद्धा धारण करना, उचित एवं आवश्यक है । जब तक श्रद्धा शुद्ध न हो, तब तक कैसा भी उँचा धर्म नहीं प्राप्त नहीं हो सकता, परन्तु शुद्ध श्रद्धा होने पर, उँचे धर्म को प्राप्त करना, कोई कठिन कार्य नहीं है ।

आत्मा को, यह सर्वोत्तम मनुष्य शरीर, बड़े पुण्य से प्राप्त हुआ है । यह शरीर प्राप्त होने से पूर्व, आत्मा ने, न मालूम कौन कौन-से शरीर धारण किये थे, और न मालूम कैसे कैसे श्रेष्ठों को सहा था । अनन्त काल तक, अन्य अन्य शरीर धारण करते रहने के पश्चात्, इसे यह शरीर प्राप्त हुआ है ।

यह मनुष्य शरीर, कैसा उत्कृष्ट है, यह बात सभी मालूम हो सकती है, जब इसकी तुलना दूसरे जीव के शरीर से की

जावे । किसी वस्तु की विशेष कीमत तभी मानी जाती है, जब वह वस्तु, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा श्रेष्ठ प्रतीत हो । इसी प्रकार, मनुष्य शरीर की विशेषता भी तभी ज्ञात हो सकती है, जब इसकी तुलना, पशु, पक्षी आदि के शरीर से करके देखी जावे । वैसे तो, आँसू, नाक, कान, आदि पशु के भी होते हैं और मनुष्य के भी, बल्कि मनुष्य की अपेक्षा पशु के बड़े होते हैं, फिर भी पशु-शरीर की अपेक्षा, मनुष्य-शरीर बड़ा ठहरता है । क्योंकि, पशु में, विवेक नहीं है । पशु-शरीर और पशु की इन्द्रियाँ, विवेक-रहित हैं । लेकिन मनुष्य में विवेक है, मनुष्य-शरीर और मनुष्य की इन्द्रियाँ, विवेक सहित हैं । विवेक अपना लाभ-हानि विचार कर सकने की शक्ति-होने से, मनुष्य-शरीर, अन्य समस्त जीवों के शरीर से उत्कृष्ट माना जाता है । ऐसा उत्कृष्ट शरीर प्राप्त होना, कम पुण्य की बात नहीं है ।

मनुष्य-शरीर प्राप्त होना तो बड़े पुण्य का फल है ही, लेकिन स्वास्थ्य, एव सर्वाङ्ग सम्पन्न मनुष्य-शरीर का प्राप्त होना, और भी महान् पुण्य का फल है । क्योंकि मनुष्य-शरीर पाकर भी बहुत से लोग, अंधे, बहरे, गूंगे, या पगु आदि होते हैं । बहुत से मनुष्य, जन्मजात पागल, बुद्धिहीन या और किन्हीं रोगों से घिरे होते हैं । यदि ऐसे लोगों में पुण्य की कमी न होती, तो उन्हें इस प्रकार का क्यो होना पडता ? उनमें

पुण्य सु-कमी है, स्वस्थ एव सर्वाङ्ग-सम्पूर्ण मनुष्य की अपेक्षा, वे, कम पुण्यवान हैं, तभी वे, अङ्गहीन या रोगी हैं । इस-प्रकार, पशु-शरीर की अपेक्षा मनुष्य-शरीर उत्तम है और अस्वस्थ एव अङ्गहीन मनुष्य-शरीर की अपेक्षा स्वस्थ एव सर्वाङ्ग-सम्पूर्ण मनुष्य-शरीर, बड़े पुण्य से प्राप्त हुआ है, यह बात स्पष्ट है ।

अब देखना यह है, कि ऐसा सर्वोत्तम मनुष्य-शरीर पाकर करना क्या चाहिए ? यदि इसे खाने-पीने या विषय-भोग में ही लगा दिया, तब तो इसे उत्कृष्ट माने जाने का कोई कारण नहीं रहता । क्योंकि, यह कार्य तो पशु-शरीर से भी हो सकता है । बल्कि इस विषय में, मनुष्य की अपेक्षा पशु, कहीं बड़े हुए होते हैं । इसलिए खाने-पीने और दुर्विषय भोग में लगने के कारण मनुष्य-शरीर उत्कृष्ट नहीं माना जा सकता । मनुष्य शरीर, इस-लिए उत्कृष्ट माना जाना जाता है, कि इस शरीर को पाकर, आत्मा, अपने आप को सनाथ बना सकता है, जन्म-मरणसे मुक्त कर सकता है- और समस्त कष्टों का अन्त करके, अक्षय सुख प्राप्त कर सकता है । यह न करके, यदि मनुष्य शरीर को मासारिक विषय-भोग में डाल दिया, तब तो इस उत्कृष्ट शरीर द्वारा वह काम किया, जो काम निवृष्ट माने जानेवाले पशु पक्षी के शरीर में भी नहीं किया गया था । पशु-पक्षी के शरीर में

तो आत्मा ने, शुद्ध परिणाम रखने की वह करणी की, जिसे यह मनुष्य-शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन मनुष्य-शरीर पाकर, दुर्विषय-भोग में पडा हुआ आत्मा, वह करणी कर रहा है, जिसे नरक-निगोद में पड़े।।

आत्मा को, मनुष्य-शरीर के साथ ही जो विवेक प्राप्त हुआ है, भोग प्रवृत्त होने वाला, इस विवेक का दुरुपयोग कर रहा है। यद्यपि विवेक द्वारा दुर्विषय-भोग से निवृत्ति के कार्य करते चाहिए, लेकिन दुर्विषय-भोग में प्रवृत्त आत्मा, विवेक द्वारा दुर्विषय-भोग में अधिकाधिक प्रवृत्त होने के कार्य करता है, विवेक को, भोग की सुविधा ढूँढने में लगाता है, अधिकाधिक भोग प्राप्त करने में लगाता है, तथा उस नीति को भग करने में लगाता है, जिस नीति का पालन, पशु भी करते हैं। मनुष्य-शरीर भोग से निवर्तने के लिए है, भोग में प्रवृत्त होने के लिए नहीं। भोग में प्रवृत्त होना, मनुष्य-शरीर के ध्येय के विलकुल विपरीत है।

सनाथी मुनि ने, अनाथता सनाथता का जो वर्णन किया है। उससे यह बात सिद्ध हो चुकी, कि सासारिक-वैभव तथा भोगादि में पडने पर, यह आत्मा सनाथ होता है और इनसे निवर्त कर सयम लेने पर, सनाथ होता है। यदि कोई आदमी, सर्वविरति सयम न ले सके और देशविरति संयम ले, तब भी वह, सनाथता के मार्ग का अनुसरण करनेवाला है और कभी

एँ सनाथ भी बन सकता है। अनाथ आत्मा, निरन्तर दुःख में भोगता रहता है, और सनाथ आत्मा, दुःख-मुक्त हो जाता है। सनाथता अनाथता का यह भेद, मनुष्य ही समझ सकता है और मनुष्य ही, अनाथता से निकलकर सनाथ हो सकता है। मनुष्य होकर भी यदि अनाथता सनाथता के भेद को न समझ, अनाथता से निकल कर सनाथ होने की चेष्टा न की, तो कहना चाहिए, कि उसने दुर्लभ मनुष्य-जन्म का वास्तविक लाभ नहीं लिया। तात्पर्य यह, कि मनुष्य-शरीर में विवेक एवम् अनाथता से निकलकर सनाथ बनने की क्षमता है, इसी से यह उन्कृष्ट माना जाता है।

सनाथी मुनि ने, श्रेणिक राजा के समीप, यह तो सिद्ध कर देखाया, कि असयमी जीवन अनाथतापूर्ण है। अर्थात्, ससार व्यवहार में रहना अनाथता है और ससार-व्यवहार त्याग कर, सयम स्वीकार करना, सनाथता है। अब सनाथी मुनि यह बताते हैं, कि कोई आदमी सयम स्वीकार कर भी, किस प्रकार अनाथ हो जाते हैं।

इस दूसरी अनाथता-यानी सयम ले चुकने पर भी आने वाली अनाथता-का दर्शन सनाथी मुनि, कई अभिप्राय से करते हैं। एक अभिप्राय तो सयमी लोगों को सावधान करना है। उन्हें यह घतलाना है, कि तुम अनाथता से निकलने के लिए ही,

ससार-व्यवहार त्याग कर साधु हुए हो, लेकिन यदि तुमने साधुता के नियमों का पालन न किया, साधु-नियम के पालने में असावधानी से काम लिया, या जिन पदार्थों को त्याग कर सयम लिया है, उन्हीं से फिर प्रेम किया, तो जिस अनाथता से छुटकारा पाने के लिए साधु हुए हो, उमसे भी अधिक अनाथता में पड़ जाओगे।

इस वर्णन से, सनार्थी मुनि का दूसरा अभिप्राय उन लोगों को उलहना देना है, जो सयम लेकर संयम के नियमों का पालन नहीं करते हैं, संयम के नियम पालने में असावधानी रखते हैं या सयम लेकर भी, त्यागे हुए पदार्थों में आसक्ति या उनकी कामना रखते हैं। जो लोग अनाथता को जानते ही नहीं, या जान कर सनाथ हो गये हैं, या सनाथ होने की चेष्टा कर रहे हैं, उन्हें तो उलहना देने का कोई कारण है, नहीं है। उलहना वही उसी को दिया जाता है, जो जान बूझ कर घुरे काम करता है।

इस दूसरी अनाथता के वर्णन का तीसरा बहुत बड़ा अभिप्राय, जनता को सावधान करना है। सनार्थी मुनि, राश्ट्रश्रेणिक को यह बताते हैं, कि यद्यपि सयम लेना, सनाथता में अपनाना है और इस कारण अनाथ लोगों की दृष्टि में, संयम पूज्य है, लेकिन सयम लेने वालों में भी, कई अनाथ ही हैं।

, । वल्कि, ऐसे अनाथ होते हैं, जैसा अनाथ, सयम न-ले
 कने वाला भी नहीं होता ।

सयम लेकर सनाथ बने हुए और सयम लेकर भी अनाथ
 बने हुए व्यक्ति, वेश-भूषा में समान हो सकते हैं, लेकिन गुणों
 में समान नहीं हो सकते हैं । सनाथता, गुणों में है, केवल,
 वेश-भूषा में ही नहीं है । यद्यपि आदरणीय वेश भी है,
 लेकिन तब, जब गुण-युक्त हो । गुण रहित वेश की पूजा करना,
 भगवान् महावीर का सिद्धान्त नहीं है ।

अनाथता से निकल कर सनाथ बनने वाले सयमी को,
 जनता, अपना गुरु मानती है और अपने पारलौकिक जीवन की
 नाव को, उसके सहारे छाड़ देती है । लेकिन जब तक आचार
 विचार से यह विश्वास न कर लिया जावे, कि यह वास्तव में
 सनाथ है इसके पहले अपना आत्मा उसे सौंप देना, केवल अन्व
 विश्वास है । सयमी को अपना गुरु, इसीलिए माना जाता है,
 कि वे, सासारिक बन्धनों को त्याग कर सनाथ बने हैं लेकिन
 उन्होंने वास्तव में सासारिक बन्धनों को त्यागा है या नहीं, जिस
 सयम में दोहित हुए हैं, उसके नियमों का पालन करते हैं, या
 नहीं, यह जानना आवश्यक है । यह पहचान, केवल वेश से
 नहीं हो सकती । वेश में तो सनाथ और अनाथ, ऐसे दोनों ही
 प्रकार के रहते हैं-। वेशधारी परन्तु अनाथ सयमी को अपना

आत्मा सौंप देने से, लाभ के बजाय हानि है । सनाथ और अनाथ वेशवारी की पहचान कैसे हो सकती है, अनाथ वेशवारी के प्रधान लक्षण क्या हैं, यह बात सभी लोग नहीं जानते । सनाथी मुनि, इस प्रकार के अनाथ लोगों की पहचान करने के लिए ही, इस दूसरी अनाथता का वर्णन करते हैं ।

आज कल, साधु-वेश रख कर असाधुता के काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है । सनाथ मुनि ने, इस दूसरी अनाथता का वर्णन, लगभग ढाई हजार वर्ष पहले किया है, इससे प्रकट है, कि ऐसे लोग उस समय भी थे । तुलसीदासजी ने भी, ऐसे लोगों के लक्षण बताकर, उनकी निन्दा की है । उन्होंने कहा है—

जे जन्मे कालिकाल कराला, कर्तव वायस वैष मराला ।

वचक भक्त कहाइ राम के, किकर कंचन कोह काम के ॥

अर्थात् कराल कलियुग में जन्मने वाले लोग, काम तो बौए के करते हैं और वेश, हस का रखते हैं । वे ठग, राम के भक्त कहा कर भी काम क्रोध एवम् द्रव्य के गुलाम बने रहते हैं ।

तात्पर्य यह, कि मुनि-वेश में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो साधु कहला कर भी, असाधुता के काम करते हैं । एक ही वेश में, दोनों प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, इसलिए पहचान

कठिन हो जाती है। उनकी पहचान कराने के लिए ही, सनाथी मुनि, इस दूसरी अनाथता का वर्णन करते हैं।

इस दूसरी अनाथता को समझना भी, जनता का कर्तव्य है। इससे मुख्य लाभ तो यह है, कि कुगुरु सद्गुरु का निर्णय हो जाता है। यह वेशधारी, वास्तव में निर्मन्थ धर्म का अनुयायी-निर्मन्थ धर्म का पालन करने वाला-है; या नहीं! यह बात मालूम हो जाती है यह मालूम होने में, जनता अनेक हानियों से भी बच जाती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति साधु-वेशधारी है। उस व्यक्ति का आचरण देखकर नहीं, किन्तु केवल वेश के कारण विश्वास किया गया; इसलिए उसके द्वारा किसी भी समय, धन, जन, प्रतिष्ठा और धर्म की हानि हो सकती है। यदि वेश के साथ ही, उसके आचरण के सम्बन्ध में भी विश्वास कर लिया जावे, तो फिर ऐसी हानि की आशका नहीं रहती। इसलिए सनाथी मुनि द्वारा वर्णित, दूसरी अनाथता के लक्षणों को ध्यान में रख कर, इन लक्षणों पर से सयम-वेशधारी अनाथ को पहचान लेना, जनता के लिए, प्रत्येक दृष्टि से हितकारी हैं।

बुद्ध लोगो ने, यह सिद्धान्त बना रखा है, कि 'अपने-यानी साधु साधवियों के-चरित्र सम्बन्धी शास्त्राज्ञा से, गृहस्थ' को परिचित न किया जावे। परिचित कर देने पर, गृहस्थ लोग

अपने को पट-पट पर टोकेंगे, इससे अपनी मनमानी न चन सकेगी ।' इस प्रकार के विचार से, कई लोग, साधु के आचा से गृहस्थों को अपरिचित रखते हैं, लेकिन ऐसा करना, उनका समय पाल सकने की अक्षमता के सिवा और कुछ नहीं कहला सकता । जो समय पालने में वीर होगा, वह, इस प्रकार का सिद्धान्त कभी न बनावेगा । वह तो सनाथी मुनि द्वारा वर्णित, इस दूसरी अनाथता को जनता के सन्मुख विस्तृत रूप में रख कर, यह घोषणा करेगा, कि अनाथता के इन लक्षणों में से, यदि कोई लक्षण हम पर घटता हो, तो हमें उलाहना दो और ऐसा उपाय करो, कि हम में से अनाथता का वह लक्षण मिट जावे ।

कई आदमी, गृह-संसार त्याग कर और संयम को अपन कर भी, अनाथता में पड़ जाते हैं । संयम लेकर भी अनाथता में कैसे पडते हैं, और फिर अनाथता में पड़ना कितना एव कैसे बुरा है यह बताने के लिए, सनाथी मुनि कहते हैं—

इमा हु अरणा वि अणाहया निवा, नमगचित्तो निहुओ सुणोहि
नियएठवम्म लहियाण वी जहा, मीयन्ति एगे बहु कायरानरा ॥३॥

भावार्थ—हे राजा, एक अनाथपता और है, जिसे तुम स्थिर वि

सनाथ बनाथ निर्णय

से मुनो। सनाथ बनाने वाले निर्ग्रन्थ धर्म को प्राप्त करके भी, बहुत से कायरलोग, पतित हो जाते हैं और निर्ग्रन्थपने में दुःख पाते हैं।

सनाथी मुनि कहते हैं—हे राजा, निर्ग्रन्थ-धर्म, शूद्रों द्वारा पाला जा सकता है। इसे कायरलोग नहीं पाल सकते, लेकिन बहुत-से कायरलोग, निर्ग्रन्थ धर्म स्वीकार करके, घर-बार, कुटुम्ब, ससार आदि छाड भी देते हैं, सयति का वेश भी पहन लेते हैं, रजोहरण एव सुरवस्त्रिका आदि भी धारण कर लेते हैं और फिर कामना-पूर्ण न होने पर, साधुपने में दुःख पाते हैं।

कई लोग क्षणिक आवेश में, सनाथ बनने की क्षणिक भावना से प्रेरित होकर, सयम ले लेते हैं। कई, ससार-व्यवहार का भार सहन न कर सकने के कारण, कमाकर खाने की अशक्यता के कारण, सयम ले लेते हैं। कई—

‘नारि मुई गृह सपति नासी ।’

‘मूड मुडाय भये सन्यासी ।’

इसके अनुसार, यानी स्त्री सम्पत्ति आदि के नष्ट हो जाने से, सयमी बन जाते हैं। कई साधुओं की प्रतिष्ठा देख कर, वैसी ही प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, साधु-वेश पहन लेते हैं। इस-प्रकार बहुत से कायर लोग, भिन्न भिन्न कारणों से सयम स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें सच्चा वैराग्य

नहीं होता, आकाक्षा-रहित, समय लेने की भावना नहीं होती, सनाथ बनने के परिपक्व विचार नहीं होते, इसलिए समय में दीक्षित होने के पश्चात्, वे, पश्चात्ताप करते हैं, समय में कष्ट अनुभव करते हैं और फीचड में फँसे हुए हाथों के समान, दुखी रहते हैं। ऐसे लोग, वीर नहीं, किन्तु कायर हैं। समय लेकर समय में दुख मानना वैसी ही कायरता है, जैसी कायरता, घर से लडाई के लिए निकल कर फिर मरने में और घर से सती होने के नाम पर जीवित जलने के लिए निकल कर फिर अग्नि में जलने से भय करने में मानी जाती है। जिस प्रकार लडाई के लिये घर से निकला हुआ, मृत्यु से भय न करने पर ही लोक व्यवहार में वीर माना जाता है, उसी प्रकार समय लेकर उस में दुख न मान कर सुख मानने वाला ही वीर है।

राजा, समय लेकर फिर समय में दुख अनुभव करने वाला व्यक्ति, किसी भी ओर का नहीं रहता। न वह संसार-व्यग्रहार का ही रहता है, न समय का ही। उसकी दशा, घोषी के कुत्ते की-सी होती है, जो न घर का ही होता है, न घाट का ही। इसी प्रकार, समय लेकर फिर समय में दुख अनुभव करने वाले व्यक्ति का जीवन, संसार और समय, दोनों की उलझन में ही बीत जाता है। न वह असयमी ही रहता है, न समय लेकर सनाथ ही बन पाता है। वह संसार की अनाथता से निकल

कर, दूसरी अनाथता में पड जाता है, जो अमयम की अनाथता में भी बुरी होती है ।

कायरलोग, सयम लेकर उसमें सासारिक सुखों की इच्छा करते हैं । वे, अच्छा-अच्छा भोजन, मान प्रतिष्ठा, अच्छे अच्छे वस्त्र आदि चाहते रहते हैं और जत्र इनकी प्राप्ति नहीं होती, तब वे सयम में दुःख मानते हैं । यद्यपि सयम लेने के समय, सासारिक सुखों को त्याग चुके हैं लेकिन कायरलोग, सयम में सासारिक-सुख चाहते हैं, और उसे प्राप्त करने के लिए, वे अपने सयम के ध्येय को भुला देते हैं । उन्हें यह ध्यान नहीं रहता, कि हमारा ध्येय क्या है, हम किस भावना को लेकर उठे हैं और सयम लेने के समय हमारा उद्देश्य क्या था । वे लोग, एक ओर तो सासारिक सुख भी भोगना चाहते हैं, और दूसरी ओर, साधुपने की मान प्रतिष्ठा भी । यानी यह भी चाहते हैं, कि हमें कोई असयमी भी न कहे, किन्तु सयमी मान कर सब हमारी पूजा-प्रतिष्ठा करें और यह भी चाहते हैं, कि हमें सत्कार के समस्त सुख भी प्राप्त हों । इसके लिये, वे, प्रकट में तो साधु का वेश रखते हैं और परोक्ष में, सासारिक-सुख प्राप्त करने के उपाय करते रहते हैं, तथा सासारिक सुख न मिलने पर, अपने आपको कष्ट में मानते हैं । यदि वे, सासारिक सुख-प्राप्त भी कर लेते हैं, तब भी उन्हें दुःख घेरे ही रहता है । उन्हें सदा यह भय घना रहता है,

नहीं होता, आकाञ्छा-रहित, संयम लेने की भावना नहीं होती, सनाथ बनने के परिपक्व विचार नहीं होते, इसलिए सयम में दीक्षित होने के पश्चात्, वे, पश्चात्ताप करते हैं, सयम में कुछ अनुभव करते हैं और कीचड़ में फँसे हुए हाथी के समान, दुखी रहते हैं। ऐसे लोग, वीर नहीं, किन्तु कायर हैं। संयम लेकर संयम में दुख मानना वैसी ही कायरता है, जैसी कायरता घर से लड़ाई के लिए निकल कर फिर मरने में और घर से सती होने के नाम पर जीवित जलने के लिए निकल कर फिर अग्नि में जलने से भय करने में मानी जाती है। जिस प्रकार लड़ाई के लिये घर से निकला हुआ, मृत्यु से भय न करने पर ही लोकोपकार व्यवहार में वीर माना जाता है, उसी प्रकार संयम लेकर उस दुख न मान कर सुख मानने वाला ही वीर है।

राजा, सयम लेकर फिर संयम में दुख अनुभव करने वाला व्यक्ति, किसी भी ओर का नहीं रहता। न वह ससार-व्यवहार का ही रहता है, न सयम का ही। उसकी दशा, घोबी के कुत्ते की-सी होती है, जो न घर का ही होता है, न घाट का ही। इस प्रकार, सयम लेकर फिर सयम में दुख अनुभव करने वाला व्यक्ति का जीवन, ससार और सयम, दोनों की उलझन में बीत जाता है। न वह असयमी ही रहता है, न सयम लेकर सनाथ ही बन पाता है। वह ससार की अनाथता से निकल

कर, दूसरी अनाथता में पड़ जाता है, जो असयम की अनाथता से भी बुरी होती है।

कायरलोग, सयम लेकर उसमें सासारिक सुखों की इच्छा करते हैं। वे, अच्छा-अच्छा भोजन, मान प्रतिष्ठा, अच्छे-अच्छे वस्त्र आदि चाहते रहते हैं और जब इनकी प्राप्ति नहीं होती, तब वे सयम में दुःख मानते हैं। यद्यपि सयम लेने के समय, सासारिक सुखों को त्याग चुके हैं, लेकिन कायरलोग, मयम में सासारिक-सुख चाहते हैं, और उसे प्राप्त करने के लिए, वे अपने सयम के ध्येय को भुला देते हैं। उन्हें यह ध्यान नहीं रहता, कि हमारा ध्येय क्या है, हम किस भावना को लेकर उठे हैं और सयम लेने के समय हमारा उद्देश्य क्या था। वे लोग, एक ओर तो सासारिक सुख भी भोगना चाहते हैं, और दूसरी ओर, साधुपने की मान प्रतिष्ठा भी। यानी यह भी चाहते हैं, कि हमें कोई असयमी भी न कहे, किन्तु सयमी मान कर सब हमारी पूजा-प्रतिष्ठा करें और यह भी चाहते हैं, कि हमें ससार के समस्त सुख भी प्राप्त हों। इसके लिये, वे, प्रकट में तो साधु का वेश रखते हैं और परोक्ष में, सासारिक-सुख प्राप्त करने के उपाय करते रहते हैं, तथा सासारिक सुख न मिलने पर, अपने आपको कष्ट में मानते हैं। यदि वे, सासारिक सुख-प्राप्त भी कर लेते हैं, तब भी उन्हें दुःख घेरे ही रहता है। उन्हें सदा यह भय बना रहता है,

कि हमारे इस असयमपूर्ण कुकृत्य का कहीं भएडा न फूट जावे । भएडा फूट जाने पर, हम अपमानित हो जावेंगे, इस आशका से, वे, यह सोचते रहते हैं कि हमने सयम क्यों ले लिया । उन से सयम का वेश भी त्यागते नहीं बनता । ऐसा करने में, अपमान एव निन्दा का भय है । इस प्रकार के कायर लोग सयम को दुःख मानते हैं और सयम से, पतित भी हो जाते हैं ।

अब सनाथी मुनि, सयम-पतित के लक्षण बताते हैं और यह बताते हैं, कि कायर लोग, सयम लेकर भी, असाधुता के कौन-कौन-से कार्य करते हैं । वे कहते हैं—

जो पव्वइत्ताण महव्वयाइ सम्मच नो फासयई पमाया ।

अनिग्गहप्पा यरसेसु गिद्धे न मूलओ छिन्दई वधणसे ॥ ३६ ॥

भावार्थ—जो लोग, सयम लेकर भी, पच महाव्रत को प्रमादवश सम्यक प्रकार नहीं स्पशते—पालन नहीं करते—जो अपने आपको सयम में नहीं रख सकते, तथा रस लोलुप बने हुए हैं, वे, संसार-बंधन के मूल-राग द्वेष-का छेदन नहीं कर सकते । यानी समार में, जन्म-मरण किया ही करते हैं ।

सनाथी मुनि कहते हैं—राजा, नाथ बनने के लिए, उठकर फिर अनाथता में पडने वाले कायर लोग, सयम तो ले लेते हैं, लेकिन सयम में जिन पाँच महाव्रत का पालन करना आवश्यक है, उनका भली प्रकार पालन नहीं करते, किन्तु उसके पालन में

प्रमाद करते हैं। यद्यपि उन्होंने, घर ससार छोड़ कर सयम लेते समय, पंच महाव्रत पालने की प्रतिज्ञा की है, लेकिन वे कायर लोग या तो अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं, या उसकी उपेक्षा करते हैं।

सयम लेने के समय, जिन पाँच महाव्रत की प्रतिज्ञा ली जाती है, उनमें से पहला महाव्रत 'अहिंसा' है। अहिंसा महाव्रत का पूर्णतया पालन तभी होता है, जब, तन, मन या वचन द्वारा छ. काय के जीवों में से, किसी भी जीव की तीनों करण से हिंसा न की जावे।- इस महाव्रत की रक्षा के लिए, सयम लेने वाले लोग, आरम्भ को सर्वथा त्याग कर, निरारम्भी होते हैं। वे किसी भी प्रकार का आरम्भ, नहीं करते। दया, क्षमा, रक्षा, अक्रोध आदि का समावेश, अहिंसा की रक्षा के लिए, इन सदगुणों के पालन का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं।

सनाथी मुनि कहते हैं—राजा, कायर लोग, अहिंसा महाव्रत के पालन की प्रतिज्ञा तो करते हैं, लेकिन वे, अग्नी, पानी, आदि का आरम्भ भी करते हैं, लोगो से, लड़ाई-झगडा एवं निर्दयता का व्यवहार भी करते हैं, क्षमा को पास भी नहीं आने देते और बात-बात में क्रोध करते रहते हैं। ऐसा करने वाले अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाले नहीं हैं। अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाला, अपनी प्रतिज्ञा का कभी भी न

भूलेगा, किन्तु यह ध्यान रखेगा, कि 'मैं'। अहिंसा महाव्रत को स्वीकार करके समय में प्रवर्जित हुआ हूँ, मैंने, संसार के सब जीवों को अपना मित्र माना है, फिर किसी जीव को हिंसा कैसे करूँ। किसी जीव के शरीर या मन को कैसे 'दुःखाऊँ'। किसी पर क्रोध कैसे करूँ। ऐसा करने पर, मैं, अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाला कैसे रह सकता हूँ।"।

राजा, अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाला, किसी दूसरे जीव को भी दुःख नहीं देता है और अपने काम को भी दुःखी नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को, चाहे कोई मारे, गाली दे, अपमानित करे और घोर कष्ट देकर प्राण भी हरण करले, तब भी वह प्रसन्न ही रहता है। अपने-आप को, 'दुःख' में तो मानता ही नहीं, न प्रतिहिंसा या वैर-विरोध के भाव ही हृदय में आने देता है। ऐसे समय में, अहिंसायुगी विचारता है कि 'यह व्यक्ति जो मार रहा है या, गाली दे रहा है, आत्म-स्वरूप को भूल कर, पतित हो रहा है, तथा हिंसा कर रहा है। यह दूसरे को दुःख देने वाला, अपने आत्मा को नीची दशा में गिरा कर ही, दूसरे को दुःख देता है। यदि इसका आत्मा, उर्ध्व दशा में होता, तो यह ऐसा करता ही क्यों। इसमें, काम क्रोध आदि दुर्गुण विद्यमान हैं, तभी तो यह ऐसा कर रहा है। यदि इसके साथ मैं भी ऐसा करने लगूँ, मैं भी अपने आत्मा को

दु खी कहुँ; मैं भी अपने में, बैर-विरोध या क्रोध आने दूँ, तो हिंसा करने वाले में और मुझ अहिंसा का पालन करने वाले में, क्या अन्तर रहा । फिर मैंने, प्राणिमात्र से मित्रता क । क्या व्यवहार किया । मुझे दु ख देने के नाम पर, यह, अपने आत्मा को दु खित कर रहा है । यदि मैं भी इसी की तरह अपने आत्मा को दु खित कहुँ, जिसे यह दु ख मान रहा है, उसे ही मैं भी दु ख मानूँ, तो मैं सनाथ कैसा । फिर तो मैं भी इसी की तरह अनाथ हुआ ।' इस प्रकार के विचार रख कर, अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाला, 'आप स्वयं भी दु खी नहीं होता, न किसी दूसरे को ही दु खी करता है । वह तो, प्रत्येक दशा में, आनन्दित ही रहता है । कायर लोग, अहिंसा महाव्रत के पालन की प्रतिज्ञा लेकर भी, इसके विपरीत व्यवहार करते हैं । वे लोग, प्रकट या अप्रकट हिंसा करते हैं, लेकिन अपनी कायरता छिपाने के लिए, उम हिंसा को भी अहिंसा के ही अन्तर्गत घतंलाते हैं और इस प्रकार अपने आपको, अहिंसक घोषित करते रहते हैं ।

सयम लेने के समय स्वीकार किये जाने वाले, पाँच महाव्रत में दूसरा महाव्रत, सत्य है । इस सत्य महाव्रत का पूर्णतया पालन नहीं होता है, जग, मन, वचन, और काया से भूठ का त्याग किया जावे । सत्य महाव्रतधारी, कभी और किसी भी दशा में, भूठ का प्रयोग नहीं करता । 'भय, क्रोध, हास्य आदि

के बश हो कर भी, भूठ नहीं बोलता । सयम में प्रवर्जित व्यक्ति, भूठ तो बोलता ही नहीं, लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं बोलता, जिसके कारण दूसरे को दुःख पहुँचे ।

सनाथी मुनि कहते हैं—राजा, कायर लोग; प्रतिज्ञा करके भी, इस सत्य महाव्रत का पालन नहीं करते । भूठ को काम में लाने से किंचित् भी नहीं हिचकिचाते और ऐसा करके भी, अपने आपको, सत्य महाव्रत का पालन करनेवाला बतलाते हैं ।

तीसरा महाव्रत अदत्ता दान त्याग है । कोई वस्तु चाहे वह किसी के अधिकार में हो या न हो—बिना किसी के दिये, लेना, अदत्तादान है । तीसरे महाव्रत का पालन करनेवाला, ऐसी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता, जो किसी के द्वारा दी हुई न हो । उसे यदि मार्ग पर की धूल की आवश्यकता होगी, तो वह भी, किसी न किसी स्वीकृति से लेगा, बिना स्वीकृति न लेगा । वह विचारेगा, कि 'ससार की समस्त वस्तुओं पर से मैं अपना अधिकार उठा चुका हूँ । मेरे अधिकार में, केवल वे ही वस्तुएँ हैं, जो सयम की रक्षा के लिए आवश्यक हैं । इसलिए मैं, अपने अधिकार से परे की कोई वस्तु, बिना किसी के दिये, नहीं ले सकता । इस प्रकार के विचार से, वह अपने अधिकार से बाहर की, छोटी से छोटी और आवश्यक से आवश्यक वस्तु भी, बिना किसी के दिये, न लेगा । यहाँ तक कि वह अपने सहधर्मी एवं साथी सत

के अधिकार की वस्तु भी, विना उसकी स्वीकृति के, अपने काम में, या अपने अधिकार में न लेगा। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करता, जो शास्त्राज्ञा के विरुद्ध हो। उसको यह ध्यान रहता है, कि कहीं मुझे, देव, गुरु, सहधर्मी और गाथापति का अदत्त न लगे।

जिस काम के करने से शास्त्र रोकता है, उसे करना और जिसके करने को कर्त्तव्य बताता है, उसे न करना, देव-अदत्त है। गुरु, जो नियम बनाये, या जो आज्ञा दे, उसका पालन न करना, और उसके विरुद्ध करना, गुरु, अदत्त है। अपने साथी साधुओं के साथ विचर रहे हैं, उस समय भिक्षा में भोजन की कोई अच्छी वस्तु मिल गई और उसे अकेले ही खा लिया, साथी सहधर्मियों को उस वस्तु से वंचित रख दिया या उनकी स्वीकृति के बिना उनकी कोई वस्तु ले ली, तो यह, सहधर्मी-अदत्त है। राजा का भग करना, यह राजा का अदत्त है। और किसी सार्वजनिक या व्यक्ति विशेष के स्थान या पदार्थ को, गृहस्थ की आज्ञा विना काम में लेना, गाथापति (गृहपति) का अदत्त है।

सनायी मुनि कहते हैं—राजा, सयम लेकर, भी, कायर लोग, इस तीसरे महाव्रत का पालन नहीं करते और फिर भी, अपने आपको, आदत्तादान का त्यागी ही, घतलाते हैं।

चौथा महाव्रत, ब्रह्मचर्य है। इस महाव्रत के पालन में, अब्रह्मचर्य का सर्वथा त्याग करना पड़ता है। सयम में प्रवर्जित

एव इस महाव्रत का धारक, किसी भी प्रकार के मैथुन का सेवन नहीं करता । वह, इस सम्बन्धी उन समस्त नियमों के, पालन का पूरा ध्यान रखता है, जो शास्त्र में बतलाये गये हैं, इस महाव्रत को धारण करनेवाला, केवल शरीर से ही नहीं, किन्तु मन और वचन से भी, मैथुन का चिन्तवन या सेवन नहीं करता ।

सनाथी मुनि कहते हैं—राजा, कायर लोग, सयम लेकर भी इस चौथे महाव्रत का पालन नहीं करते । वे किसी न किसी रूप में मैथुन का सेवन करते रहते हैं, ब्रह्मचर्य की रक्षा के नियमों को अवहेलना करते हैं और ऐसा करके भी अपने आपको पूर्ण ब्रह्मचारी बतलाते हैं ।

पाँचवा महाव्रत, अपरिग्रह है । इस महाव्रत में, परिग्रह का विलकुल त्याग किया जाता है । किसी वस्तु पर ममत्व रखने का नाम ही, परिग्रह है, फिर वह चाहे सोना चाँदी हो या, कपड़ा कागज आदि । छोटी से छोटी, एव बड़ी से बड़ी वस्तु—यदि उस पर ममत्व रखा तो वह परिग्रह में है । इस महाव्रत का पालन करनेवाला, और किसी वस्तु पर ममत्व रखना तो दूर रहा, अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं रखता । उसके शरीर को, चाहे कोई क्षत-विक्षत कर डाले या नष्ट कर डाले, तब भी उसे चिन्ता नहीं होती । वह किसी भी छोटी या बड़ी—ऐसी वस्तु को अपने पास नहीं रखता, जिसकी सयम पालने में आवश्यकता न हो ।

सनाथी मुनि कहते हैं—राजा, सयम लेकर भी, कायरों से वस्तु का ममत्व नहीं छूटता । अपरिमह व्रत लेकर भी, वे, घर-बार छोड़, पुत्र, या शिष्य-शिष्या सं ममत्व रखते हैं । उनसे, स्वीकार किये हुए अपरिमह व्रत का पालन नहीं होता फिर भी वे, अपने आपको अपरिमही ही कहते हैं ।

राजा, सयम लेने के समय पाँच महाव्रत को, तीन करण और तीन योग से पालन करने की प्रतिज्ञा ली जाती है, और हिंसा, मूठ, अदत्तादान, अब्रह्मचर्य्य और परिमह का, तीन करण तीन योग में त्याग किया जाता है । गृहस्थों द्वारा स्वीकार किये जाने वाले पाँच अणुव्रत में जो सकुचितपना रहता है, इन महाव्रतों में, वह सकुचितपना नहीं है, किन्तु इनमें विशालता है । गृहस्थ लोग, इन व्रतों को स्थूल रूप में स्वीकार करते हैं और स्थूल व्रत में भी आगार रखते हैं । वे, स्थूल अहिंसा व्रत स्वीकार करके, अपराधी को दण्ड देने, स्थूल सत्यव्रत स्वीकार करके बिना जानी बात के लिए मूठ का प्रयोग हो जाने, स्थूल अदत्तादान व्रत स्वीकार करके, अपने मित्र भाई आदि की वस्तु बिना दिये लेने, स्थूल ब्रह्मचर्य्य व्रत स्वीकार करके, स्वछी सेवन करने, स्थूल अपरिमह व्रत स्वीकार करके मर्यादित परिमह रखने का आगार रखते हैं, लेकिन सयम लेनेवाले, इन व्रतों को महाव्रत के रूप में स्वीकार करते हैं, तथा किसी भी प्रकार का आगार

नहीं रखते । गृहस्थो के व्रत में, स्थूल एवं आगार की जो सङ्चितता है, साधु, उस सङ्चितता से निकल जाता है । वह इन व्रतों को, सूक्ष्म रूप में स्वीकार करता है । गृहस्थ, दो कर्ण तीन योग आदि भेदों से व्रत स्वीकार करता है, लेकिन साधु तीन कर्ण तीन योग में व्रत स्वीकार करते हैं ।

राजा, पंच महाव्रत को स्वीकार करके फिर उनका भली प्रकार पालन न करने वाले, उनके पालन में प्रमाद करने वाले, पासत्था कहलाते हैं । पासत्था लोग पंच महाव्रत के पालन में शिथिलता करते हैं, अर्थात् भली प्रकार पालन नहीं करते, किन्तु सासारिक सुखों की चाह करते हैं और ऐसा करके भी, अपने आपको साधु बतलाते हैं । यदि कोई उनसे पूछता है, कि तुम अपने आपको साधु कैसे कहते हो, तो वे कहते हैं, कि हमने पंच महाव्रत धारण किये हैं । लेकिन राजा, पंच महाव्रत धारण करने मात्र से साधु नहीं होता, साधु तो पंच महाव्रत का पालन करने से होता है । सनाथ तभी तो हो सकता है, जब पंच महाव्रत का भली प्रकार पालन करे, प्रमाद न करे । पंच महाव्रत धारण करके भी जो उनका पालन नहीं करता है, वह पासत्था, एक अनाथता से निकल कर दूसरी अनाथता में पड़ जाता है ।

राजा पासत्था का मन स्थिर नहीं रहता है । महाव्रतों का पालन तभी हो सकता है, जब मन चंचल न हो, किन्तु स्थिर हो ।

महाव्रतों का धारण तथा अव्रतों का त्याग, मन से किया जाता है। जब मन ही अस्थिर हो, तब को हुई प्रतिज्ञा का ध्यान एवं उसका पालन कैसे हो सकता है। मन के अस्थिर रहने से, वह पासस्था, जान वृम्भ कर भी महाव्रतों का उल्लंघन करता है, फिर भी वह स्वयं, महाव्रतों का उल्लंघन नहीं समझता।

अब सनाथी मुनि उन कार्यों का वर्णन करते हैं, जिनके करने से महाव्रतों का उल्लंघन होता है। वे कहते हैं—

आउत्तया जस्स य नरिथ काइ इरियाए भासाए तहेसणाए ।
आयाण निक्खेव दुगुद्धणाए न वीर जाय अणुजाइ मग्ग ॥४०॥

भावार्थ—वह (कायर) ईर्यासमिति, भापासमिति, दृषणासमिति, आदानभाण्डपात्रनिक्षेपणसमिति और उच्चारणस्त्रवणसमिति में, तनिक भी यत्न नहीं रखता। यानों चलने, बोलने, आहारादि लेने, वस्त्र पत्रादि रखने उठाने एवं परठने परठाने में, किंचित भी सावधानी नहीं रखता। ऐसा करने वाला कायर, वीरों के मार्ग पर नहीं चल सकता।

शास्त्रकार कहते हैं, कि साधु, त्रिना कारण गमनागमन न करे, किन्तु अचल बनकर, काया को गोप कर रखे। मुनि को, चलने का अधिकार उसी समय है, जब, आहारादि लाना हो, विहार करना हो, बैठे-बैठे शरीर को कष्ट होने लगा हो, मल मूत्र त्यागने को जाना हो और अपने गुरु आचार्य्य को वन्दना करनी हो या उनसे कुछ पूछना हो। ऐसे समय में भी, ईर्यासमिति का

ध्यान रखना, आवश्यक है। मुनि का कर्त्तव्य है, कि चलने के समय, साढे तीन हाथ आगे की भूमि पर दृष्टि रखे, तथा और किसी भी ओर ध्यान न जाने दे, किन्तु इसी बात का ध्यान रखे, कि आगे कोई जीव-जन्तु तो नहीं है। चलने के समय मुनि का ध्यान दूसरी ओर जाने पर, चाहे मुनि के पाँव से कोई जीव मरे या न मरे, ईर्यासमिति भग हो जाती है। क्योंकि दूसरी ओर ध्यान रखने पर, प्रतिक्रमण के समय, अपने गमानागमन, जीव मिलने-लगने आदि का वर्णन न कर सकना, स्वाभाविक है।

गमनागमन की तरह, शास्त्रकारों ने, साधु के लिए बिना काम बोलने एवं सावध भाषा का प्रयोग करने का भी निषेध किया है। साधु को, अकारण बोलना मना है। कारण सहित बोलने पर, साधु निर्वध भाषा ही बोल सकता है, सावध भाषा नहीं बोल सकता। साधु, जो कुछ भी बोले, वह, यतना सहित एवं ध्यान रखकर बोले, जिसमें प्रतिक्रमण के समय, बोली हुई सब बातें याद आ जावे। यदि कोई साधु, इन बातों में असावधानी रखता है तो वह, भाषासमिति का उल्लंघन करता है।

ईर्यासमिति और भाषासमिति की ही तरह, मुनि को, एषणा समिति के पालने का ध्यान रखना भी आवश्यक है। आहार लेने की विधि को, एषणा समिति कहते हैं। शास्त्रकारों ने, साधु को, केवल उतना और वैसा ही आहार लेने की आज्ञा दी है,

जितना आहार, जीवन के लिए आवश्यक हो, तथा जो दूषित एवं विकार उत्पन्न करनेवाला न हो। शक्ति बढ़ाने, या शरीर को हृष्ट-पुष्ट करने के लिए आहार लेना, मुनि धर्म के विरुद्ध है। मुनि, केवल जीवन की रक्षा के लिए ही आहार ले सकता है, और वह भी, किसी एक घर से नहीं, किन्तु थोड़ा-थोड़ा अनेक घर से। एक ही घर से भिन्ना लेने का निषेध, अन्य ग्रन्थकार भी करते हैं। यति-धर्म की विधि बताते हुए अत्रि-स्मृति में कहा है—

चरेन्माधुकरी वृत्ति मपि म्लेच्छकुलादपि ।

एकान्न नैव भोक्तव्य बृहस्पति समो यदि ॥

अर्थात्—यति, भँवर-वृत्ति का अवलम्बन लेकर चाहे म्लेच्छ के घर का भी अन्न ग्रहण करे, परन्तु एक के घर का अन्न कदापि न खाये, चाहे वह बृहस्पति के ही समान क्यों न हो।

अनेक घर से आहार लेने में भी, साधु को, इस बात की सावधानी रखनी चाहिए, कि यह आहार, दोष-सहित एवं समय का वाधक तो नहीं है। जो साधु, इन नियमों का पालन नहीं करता, वह एषणासमिति को भंग करता है।

चौथी, आदानभाण्डमात्रनिक्षेपणसमिति है। वस्त्र, पात्र, उपकरणादि रखने उठाने की विधि को, आदानभाण्ड-मात्रनिक्षेपणसमिति कहते हैं। इस समिति का पालन करना भी, मुनि का कर्त्तव्य। साधु को चाहिये, कि अपने वस्त्र

पात्रादि रखने उठाने, और प्रतिलेखन करने में, यत्ना का विशेषरूप से ध्यान रखे। वस्त्र पात्रादि रखने उठाने में, किसी जीव की हिंसा न हो जावे, इस बात की सावधानी रखना आवश्यक है। जो मुनि इसमें असावधानी रखता है, वह इस चौथी समिति को भग करता है।

पाँचवीं उच्चारप्रस्रवणत्रादिपरिस्थापनसमिति है। त्यागी जानेवाली वस्तु को त्यागने की विधि का नाम, उच्चार प्रस्रवण दिपरिस्थापन समिति है। साधु का कर्तव्य है, कि त्यागी जाने वाली वस्तु को त्यागने या परठने में यत्ना का पूरा ध्यान रखे। जो साधु इस ओर में असावधान रहता है, वह इस पाँचवीं समिति का भग करता है।

सनाथी मुनि कहते हैं—राजा, कायर लोग इन पाँच समिति के पालन में, असावधानी रखते हैं। कार्य का अभ्यास करने में गलती होना दूसरी बात है। किसी वीर से यदि इस प्रकार गलती हो भी जावे, तो वह अपनी गलती निकालने की चेष्टा करेगा और भविष्य में सावधानी रखेगा। अभ्यास में गलती होने मात्र से कोई साधु, कायर नहीं कहलाता। क्योंकि, छद्मस्थ अपूर्ण है लेकिन बहुत से लोग, जान बूझ कर पाँच समिति की अवहेलना करते हैं। समिति की उपेक्षा करते हैं और दिन प्रति दिन इस ओर सपतित होते जाते हैं। ऐसा करने वाले कायर लोग, वीर मार्ग

के पथिक और पंच महाव्रत के पूर्ण आराधक नहीं हैं। यद्यपि कायर लोग, समितियों के न पालने में, पंच महाव्रत का भग नहीं समझते, लेकिन वास्तव में, पंच महाव्रत भग हो जाते हैं। क्योंकि, पंच महाव्रत का सूक्ष्म रूप से पालन तभी सम्भव है, जब पाँचों समिति का भर्त्सना-प्रकार पालन किया जावे। यद्यपि पंच महाव्रत एवं पंच-समिति का पूर्णतया पालन तो, यथाव्याप्त-चरित्रवाला ही कर सकता है, लेकिन इस और गति करना, प्रमाद न करना, प्रत्येक साधु का कर्त्तव्य है। अपने इस कर्त्तव्य को समझ कर, जो साधु सावधानी रखता है, उससे यदि कभी कोई गल्ती हो भी जावे, तो वह पतित नहीं कहलाता। पतित तो तभी कहलाता है, जब, ज्ञान वृद्ध कर उपेक्षा की जावे और जो गल्ती हुई है, उसे सुधारने की चेष्टा करने के बदले और बढ़ने दे।

हे मुनियो ! तुम्हारा पद, चक्रवर्ती राजाओं एवं देवताओं से भी बड़ा है। देवता लोग, चक्रवर्ती के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाते, लेकिन तुम्हारे आगे अपना मस्तक झुकाते हैं। चक्रवर्ती राजा भी, तुम्हारे दर्शन को लालायित रहता है। ऐसे प्रतिष्ठित पद को पाकर भी, पाँच समिति के पालन में सावधानी न रखने पर, तुम्हारी गणना, कायरों एवं पतितों में होगी। इस के साथ ही, जिस उद्देश्य से तुमने घर-बार छोड़ा है, जिस ध्येय

को लेकर, सांसारिक सुख त्याग संयम में प्रव्रजित हुए हो, समिति पालन में असावधानी रखने पर, उसकी भी पूर्ति नहीं होती। तुम्हारे पदकी प्रतिष्ठा, तुम्हारे ध्येय की पूर्ति, एव गृह-ससार छोड़ने से लाभ, तभी है जब तुम पंच महाव्रत के साथ ही पंच समिति के पालन में सावधानी रखो। यदि तुम से कोई गल्ती भी हो जावे, तो उसका प्रतिशोधन करो, लेकिन उसे बढ़ने मत दो। पहाड़ पर से एक पाव किसला और दूसरे पाव से उसी समय सम्बल गया, तब तो गिरने से रुक जाता है, और यदि दूसरे पाव को भी ढील दे दी, तो लुढ़कता हुआ नीचे ही चला जाता है। इसी प्रकार, पंच समिति के पालन में कोई गल्ती हो जावे और उसी समय अपनी गल्ती को मान कर, भविष्य के लिए सम्बल जाओगे, तब तो तुम्हारी गणना, कायरों में न होगी, तुम दूसरी अनाथता में न पड़ोगे, अन्यथा, सनाथी मुनि के कथनानुसार तुम कायर एव अनाथ के अनाथ ही माने जाओगे। तुम्हारे लिए, इससे अधिक लज्जा की बात क्या होगी ? इसलिए पंच महाव्रत एव पंच समिति के पालन में, किंचित् भी असावधानी या प्रमाद मत करो। एक कदम आगे बढ़ाने वाला, वीर माना जाता है और एक कदम पीछे हटाने वाला, कायर माना जाता है। तुम अधिक आगे न बढ़ सको तब भी, पीछे तो कदम मत हटाओ। यानी तुमने जिस चरित्र को स्वीकार किया है,

उसके पालन में तो प्रमाद मत करो। तुम्हें समिति गुप्ति के पालन में, किस प्रकार एकाग्रचित्त रहना चाहिए, इसके लिए एक दृष्टान्त दिया जाता है।

एक पारधी, शिकार की ताक लगाये बैठा था। उसके पास होकर एक वारात निकली। थोड़ी ही देर बाद, उसी वारात के कुछ आदमियों ने पारधी के पास आकर, पारधी से पूछा, कि क्या इस तरफ से वारात निकली है? पारधी ने उत्तर दिया—कि मैंने नहीं देखा। उनमें पूछा तुम यहाँ कितनी देर से हो? पारधी ने उत्तर दिया—सुबह से। उन लोगों ने कहा—कि जब तुम यहाँ सुबह से हो, तो तुमने वारात अवश्य ही देखी होगी। क्योंकि उस वारात के जाने का मार्ग यही था। पारधी ने उत्तर दिया—कि यदि गई भी हो, तो मुझे पता नहीं। मैं, शिकार की ताक में बैठा था, वारात की ओर ध्यान क्यों देने लगा।

हे मुनियो! वह पारधी, रुद्रध्यान में था। उस ध्यान से उसे हिंसा करने की अभीष्ट थी। उस रुद्र ध्यान में भी, वह ऐसा एकाग्रचित्त रहा, कि उसे पास से जाती-वजाती हुई वारात निकल जाने की भी खबर न हुई, तो तुम्हें धर्मध्यान में अपना चित्त कैसा एकाग्र रखना चाहिए। इसका विचार करो।

चिरपि स मुण्डरुई भवित्ता अथिस्वए तव नियमेहि भट्टे ।

चिरापि अप्पाण किलेसइत्ता न पारए होइ हु सपराए ॥४१॥

भावार्थ—व्रत नियम और तप में अस्थिर रहने वाला, चाहे चिर काल तक सिर मुण्डन कराता रहे और आत्मा को कष्ट में डालता रहे, तब भी ससार से पार नहीं होता ।

सनाथी मुनि कहते हैं—हे राजा, कई कायर लोग, सयम लेकर, शिर के केश तो लुचन करते हैं लेकिन व्रत नियम और तप की आराधना रूप भगवान महावीर के मार्ग पर नहीं चलते । ऐसे लोग, चाहे चिरकाल तक केश लुचन किया करें, चिरकाल तक कष्ट उठाते रहे, लेकिन जन्म-मरण से नहीं छूटते ।

राजा, कायर लोग, व्रत नियम का पालन न करके भी, साधु-वेश का त्याग नहीं करते, किन्तु साधु-वेश रख कर, केश लुचनादि बाह्य क्रिया करते रहने हैं । लेकिन, केवल बाह्य क्रिया से, कोई भी जन्म-मरण मुक्त नहीं हो सकता । जन्म-मरण से मुक्त तो तभी हो सकता है, ससार के कष्टों से, तभी छूट सकता है, अनाथता से निकल कर सनाथ तभी हो सकता है, जब, सयम में प्रव्रजित होने के समय लिये गये व्रत-नियमादि के पालन में प्रमाद न करे । राजा, सयम में प्रव्रजित होकर भी, व्रत-नियमादि का पालन न करना और फिर साधु-वेश धारण किये रहना—यानी साधु बने रहना—कैसा है, यह सुनो—

पुल्लेव मुट्टी जह से अतारे अयन्तिए कूड कहानणे वा ।

रादामणी वेरालियपगा से अमहरघए होइ यजाणएसु ॥४२॥

कुसील लिङ्ग इह धारइत्ता इसिजभय जीविय वूह इत्ता ।

असजए सजय लप्यमाणे विणिघाय मागच्छइसे चिरपि ॥४३॥

भावार्थ—जिस प्रकार भिड़ी हुई होने पर भी खाली मुट्टी, मणि के समान चमकता भी काँच का टुकड़ा और अनियन्त्रित एवं खोटा सिक्का, जानकार के समीप असार है, इसी प्रकार, अत नियम रहित 'साधु चिन्ह धारण करने वाला भी है। असयति होता हुआ भी, साधु वेश धारण करके जो अपने आप को सयति बताता है और इस प्रकार आजीविका करता है, वह बहुत काल तक नरक की पीडा भोगता है।

सनाथी मुनि कहते हैं, कि मुट्टी में कुछ न होते हुए भी— खाली मुट्टी बन्द करके-अज्ञान लोगों को धोखा दिया जासकता है। अज्ञान लोग, खाली परन्तु बन्द मुट्टी देखकर चाहे यह धोखा खा जावें, कि इस मुट्टी में कुछ है, लेकिन जानकार अर्थात् धोखा न खावेगा। काँच के चमकते हुए टुकड़े को, कोई अज्ञान चाहे मणि मान भी ले, लेकिन मणि को पहचान सकनेवाला, काँच को कदापि मणि नहीं मान सकता। सच्चे सिक्के के समान दिखनेवाले खोटे सिक्के को, जानकार कभी सच्चा सिक्का नहीं मान सकता। ठीक इसी प्रकार, संयम न पाल कर लिङ्ग (वेश) धारण करके आजीविका करनेवाले

धारक को, अज्ञान लोग चाहे साधु मान लें, अज्ञान लोग ऐसे कुशील के विषय में चाहे धोखा खा जावें, लेकिन जानकार, ऐसे लोगों को साधु नहीं मान सकता। जानकार की दृष्टि में तो ऐसा आदमी घृणा का ही पात्र है, श्रद्धा या प्रतिष्ठा का पात्र नहीं।

मनार्थी मुनि ने, व्रत-नियम-रहित साधु-चिन्ह को, खाली मुट्टी, काँच के टुकड़े और खोटे सिक्के की उपमा दी है। वे कहते हैं, कि जिस प्रकार खाली मुट्टी बन्द करके भरी का घोष करानेवाला, काँच के टुकड़े को मणि कहनेवाला और खोटे सिक्के को अच्छा बतानेवाला, अपने आत्मा को ठगने के साथ ही दूसरे को भी ठगता है, इसी प्रकार पंच महाव्रत एवं पंच समिति का पालन न करके, केवल साधु-वेश एवं साधु-चिन्ह रखनेवाला, अपने आप को भी ठगता है और दूसरे को भी ठगने की चेष्टा करता है। यद्यपि वह अजिविका एवं मान प्रतिष्ठा के लिए ऐसा करता तो है, लेकिन इस प्रकार थोड़े साधु-चिन्ह से न तो वह जानकार को ठग ही सकता है, न सनाथ ही बन सकता है।

राजा, जिस प्रकार काँच का टुकड़ा, मणि का काम नहीं दे सकता, खाली मुट्टी भरी मुट्टी का काम नहीं दे सकती और नकली सिक्का, असली सिक्के का काम नहीं दे सकता, उसी प्रकार पंच महाव्रत एवं पंच समिति के बिना खाली साधु-वेश, साधुपने की गरज को पूरी नहीं कर सकता। साधुपने का वेश

और चिन्ह रखने पर, सयम के व्रत-नियमों का पालन करना ही चाहिए । यदि सयम के व्रत नियमों का पालन न हो सके, तो साधु-वेश को पृथक करके स्पष्ट कह देना चाहिये, कि मैं, साधु नहीं हूँ । ऐसा न करके जो लोग साधु-चिन्ह धारण किये रहते हैं और पंच महाव्रत की विराधना करते हैं, वे ऋषीश्वरों के चिन्ह को दूषित करते हैं । व्रत नियम का पालन न करने पर, जो साधुलिङ्ग सनाथ बनाने वाला है, वही महान् दुःख देनेवाला बन जाता है । असयम के साथ सयमी-वेश किस प्रकार हानि करने वाला होता है व्रत-नियम-रहित साधु-वेश क्या करता है, यह सुनो ।

विस तु पीय जह कालकूड हणाइ सत्थ जह कुग्गर्हाय । ।

एसो व घम्पो विसओववन्नो हणाइ वेयाल इवा विवन्नो ॥४४॥

भावार्थ—जिस प्रकार, पिया हुआ कालकूट विष मार डालता है, उट्टी रीति से पकड़ा हुआ इधियार काट डालता है, भविधि से जपा हुआ मात्र प्राणनाशक होता है, उसी प्रकार दुरपयोग किया जाने वाला विषय भोग मिश्रित यति धर्म—(व्रत नियम 'रहित साधु वेश) भी भन्निष्ठ परिणाम देता है ।

राजा, मुनियों के चिन्ह-रजो हरण मुत्तवन्निका आदि सयम पालन के लिए है, लेकिन कुशील लोग, मुनियों का चिन्ह असयम की सहायता के लिए—असयम को छिपाने के लिए—रखते

हैं। वे लोग, ऋषियों की ध्वजा—रजोहरण मुखवस्त्रिका— रख कर यह अभिलाषा रखते हैं, हम असयम का आचरण करके भी इस ध्वजा से सयमी का गति प्राप्त कर लेंगे। उनके समीप पंच महाव्रत एवं पंच समिति, मोक्षादि का कारण नहीं है, किन्तु केवल वेश ही मोक्षादि का कारण है। इसीलिए वे, असयम का आचरण करके भी, केवल वेश से सयमी को गति चाहते हैं, लेकिन उनकी यह आशा, दुराशा मात्र है। ऐसे लोग, स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त करना तो दूर रहीं, नरकादि के कष्ट भी नहीं भिदा सकते, किन्तु बहुत काल तक नरक के कष्ट भोगते रहते हैं।

राजा, मोक्ष की अभिलाषा से धारण किया हुआ व्रत नियम-रहित यतिवेश, उसी प्रकार उल्टा फल देने वाला होता है, जिस प्रकार, दीर्घायुषी होने की अभिलाषा से पिया गया कालकूट विष, रक्षा की अभिलाषा से पकड़ा गया, उल्टा हथियार और साँप को वश में करने की अभिलाषा से अविधि-पूर्वक जपा गया मन्त्र उल्टा फल देने वाला होता है। व्रत-नियम-रहित साधु वेश रख कर वह कुशीललिङ्गी चाहता तो है मोक्ष या स्वर्ग के सुख, लेकिन जाता है नरक को और पाता है वहाँ के घोर दुःख।

राजा, तेरे कार्यकर्त्ता राज-मुद्रा इसलिए धारण करते हैं, कि वे राज्य में होनेवाले अन्यायों का प्रतिकार करें। राज-मुद्रा, इस बात की द्योतक है, कि वे धारण करनेवाले राजकर्मचारी

हैं, तथा अन्याय अत्याचार को रोकने वाले हैं । जनता, राज-मुद्रा धारण करनेवाले को अपना रक्षक मानती है और उस पर विश्वास करती है । राज-मुद्रा धारण करनेवाले राज-कर्मचारियों का भी यह कर्तव्य होता है, कि वे राज्य के नियमों का विशेष रूप से पालन करें । लेकिन राजा, यदि कोई आदमी राज-मुद्रा धारण करके भी राज्य के नियमों की अवहेलना करे, अन्याय अत्याचार करे, तो क्या तू उस राज-मुद्रा-धारण करके अन्याय करनेवाले को दण्ड न देगा ? बल्कि ऐसे व्यक्ति को तू अधिक दण्ड का पात्र मानेगा । अपराध करने पर, वह राज-मुद्रा, दण्ड से बचाने में तनिक भी सहायता न पहुँचावेगी, किन्तु अधिक दण्ड दिलावेगी । उसे, अपराध करने का भी दण्ड मिलेगा और राज-मुद्रा फलकित करने का भी । दण्ड-देने के साथ ही, उस अपराध करने वाले व्यक्ति से, राज-मुद्रा भी छीन ली जावेगी । क्योंकि, यदि अन्याय अत्याचार करनेवाला भी, राज-मुद्रा धारण किये रहेगा, तो इस बात की पहचान ही कठिन हो जावेगी, कि कौन अन्याय अत्याचार को रोकने वाला है और कौन अन्याय अत्याचार में वृद्धि करनेवाला है ।

राजा, यही बात साधु-वेश के लिए भी समझ ले । साधु का वेश, सयम के लिए है । साधु-वेश से, सयम पालने की पहचान होती है । वेश को देखकर, जनता यह जानती है, कि

ये वेश धारण करनेवाले, पंच महाव्रत के पालक और सनाथ हैं। लेकिन राजा, यदि कोई आठमी केवल वेश धारण किये रहे, पंच महाव्रत का पालन न करे, तो यह खाली वेश, उसे उस दण्ड से कदापि नहीं बचा सकता, जो दण्ड, पंच महाव्रत स्वीकार करके फिर पालन न करने से मिलता है। वल्कि यह थोथा साधु वेश, उस दण्ड में उसी प्रकार वृद्धि करता है, जिस प्रकार अपराध करने पर, राज मुद्रा दण्ड में वृद्धि करती है।

राजा, कभी कोई यह कहे, कि साधु-चिन्ह रजोहरण मुख वस्त्रिका आदि रखकर, यदि पंच महाव्रत का पालन न किया, तब भी कुछ न कुछ यतना तो करेहीगा। फिर उसने घुरा क्या किया, जो उसे अधिक दण्ड नरकादि-मिलता है? लेकिन राजा, महाव्रतों का पालन न करके भी, वह रजोहरण मुखवस्त्रिका आदि किस अभिप्राय से रखता है - इसे देखो। पंच महाव्रत का पालन न करके भी, रजोहरण मुखवस्त्रिका आदि रखने से उसका अभिप्राय जयणा करना नहीं है, किन्तु लोगों को धोखा देना है। पंच महाव्रत की घात करके, वह, रजोहरण मुखवस्त्रिका आदि आजीविका के लिए रखता है। यदि यतना के लिए रखता होता, तो पंच महाव्रत की घात ही क्यों करता? कोई चोर, पैसों की चोरी न करके, रुपयों की चोरी करे, तो इसका यह अर्थ नहीं है, कि वह इतने अश में ईमानदार है। ईमानदार

तो तब होता, जब रुपयों की भी चोरी न करता । रुपयों की चोरी करता है इसलिए पैसों की चोरी छोड़ने का कोई मूल्य-नहीं है । वल्कि, पैसों की चोरी छोड़कर रुपयों की चोरी करने-वाला अधिक धूर्त है । उसने, धूर्तता के लिए पैसों की चोरी छोड़ी है । इसी प्रकार पंच महाव्रत की घात करे और जयणा के नाम पर साधु-लिङ्ग धारण किये रहे, तो यह धूर्तता के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता । जिस आदमी को जयणा का ध्यान होगा, वह पंच महाव्रत को घात करे, यह कदापि सम्भव नहीं है ।

सनाथों मुनि ने मूल गुण की ओर से होनेवाली अनाथता बताई । अब वे उत्तर गुण की ओर से होनेवाली अनाथता का वर्णन करते हैं और साथ ही यह भी बताते हैं, कि पंच महाव्रत रहित साधु-लिङ्ग धारण करके आजीविका करनेवाले की, प्रकट में क्या पहचान है । इसके लिए वे कहते हैं—

ज लक्ष्मण सुविण पञ्ज माणे
निमित्त कोऊहल सप गाढे ।
कुहेड विज्जा सवदार जीवी
न गच्छई सरण तम्मिकाल ॥४५॥

भावार्थ—जो आदमी, साधु बन कर लोगों को स्वप्न एवं लक्षणादि का फल बताता है, भूकंप आकाश तिमिर बताता है, पुत्रादि प्राप्ति के उपाय

कराता है, तथा आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली बातें बतताता है, और इन कामों द्वारा आजीविका करता है, वह दुष्टों से कदापि शरण नहीं पा सकता ।

सनाथी मुनि कहते हैं—राजा, कई कायर लोग, समय स्वीकार करके, स्वप्न, लक्षण, भू-रूप, ग्रहण आदि का फल और निमित्त आदि बताने में पड जाते हैं । इस प्रकार वे, अपनी महिमा पूजा बढ़ाते एव आजीविका करते हैं । वे लोग, इन्द्रजा-लादि कुविद्या द्वारा भी लोगों को आश्चर्य में डालते हैं, लेकिन ये विद्याएँ, सनाथ बनाने वाली नहीं, किन्तु अनाथ बनानेवाली हैं । अन्त में, ये विद्याएँ शरण-दात्री नहीं होतीं । ऐसे लोग, थोड़ी देर के लिए सासारिक मान प्रतिष्ठा चाहे प्राप्त कर लें, संसार के लोभी लोगों को ठग कर आजीविका भले कर लें लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते । संसार में इस उपाय से जमाया हुआ क्षणिक प्रभाव, मोक्ष-मार्ग का बाधक है । ऐसे लोग, अनाथ के अनाथ ही हैं ।

जैन शास्त्रों में तो साधुओं के लिए स्वप्न लक्षण आदि का फल बताना मना ही है लेकिन अन्य ग्रन्थकार भी निषेध ही करते हैं । सन्यासाश्रम की विधि बताने हुए मनुस्मृति में कहा है—

न चोत्पात निमित्ताभ्या न नक्षत्राङ्ग विद्यया ।

नानुशासन वादाभ्या भिक्षा लिप्सेन् कर्हिचित् ॥-

अर्थात्—(सन्यासी) भूकम्प आदि उपात, निमित्ति नक्षत्र-विद्या (ज्योतिष) और अग-विद्या (सामुद्रिक) घतलाकर, तथा धर्म एव नीति का उपदेश देकर घटले में कदापि भिक्षा प्राप्त न करे ।

सयम लेकर, फिर अहिंसादि पच महाव्रत की विराधना करने, पच समिति का पालन न करने और स्वप्न लक्षण आदि का फल घताने से, क्या हानि होती है, यह बताने के लिए सनाथी मुनि कहते हैं—

तम तमेशेव उ से असीले

सया दुही विपरिया मुवेति ।

सधावई नरग तिरिक्ख जोणी

मोण विराहेत्तु असाहु रूवे ॥४६॥

भावार्थ—वह सयम की विराधना करनेवाला साधुलिंगधारी दुखी होता हुआ विपर्यास को प्राप्त होता है, यानी उल्टा समझता तथा करता है । इस कारण वह असाधु सयम स्वीकार करने पर भी नरक तिर्यक् गति के कार्य करता है और नरक तिर्यक् गति में भ्रमण करता रहता है ।

राजा, जिस ध्येय को लेकर उठा है, उसे भूल जाना और उसके विपरीत कार्य करना, दुःख का कारण है । सयम के विराधक लोग, ससार में चाहे सुखी भी देखे जाते हों, लेकिन ससार में दिखनेवाले सुख के पीछे, बहुत-दुःख छिपा हुआ है ।

सासारिक सुख ही तो जन्म-मरण का कारण है। साधुपने में, सांसारिक सुख यश वैभव कीर्ति आदि की चाह करना, उनकी प्राप्ति के उपाय करना, साधुपने के लक्षण नहीं हैं। साधुपने में तो इन सब का बलिदान करना होता है। साधुपना लेकर, उत्तम ज्ञान, दर्शन, और चरित्र की श्रद्धा करना चाहिए। जो लोग, साधु होकर भी सासारिक सुखों की अभिलाषा करते हैं, वे, अपनी गाँठ में बँधे हुए चिन्तामणि रत्न को देकर बदले में पत्थर ले रहे हैं। जो मनुष्य सयम रूपी चिन्तामणि रत्न खोकर, बदले में सासारिक सुख, यश, कीर्ति आदि रूपी पत्थर लेता है, वह सुखी कैसे हो सकता है? वह तो सदा ही दुःखी रहता है और मरने पर नरक या तिर्यक् गति में जाता है।

यहाँ प्रश्न होता है, कि साधुपना लेकर असयम में पढ़ने-वाला, आखिर साधुपने का—अपने वेश का—कुछ भी तो ध्यान रखता ही होगा। वह जो भी सासारिक सुख भोगता होगा, वह गृहस्थ की अपेक्षा थोड़े और गृहस्थ के दिये हुए या उनके जूठे। ऐसा होते हुए भी, उस द्रव्यलिंगी साधु को नरक तिर्यक् का गति प्राप्त होती है, तो फिर गृहस्थों का तो कभी कल्याण ही नहीं हो सकता। गृहस्थों को तो इससे भी भारी दण्ड भोगना पड़ता होगा। यदि गृहस्थों को इससे भारी दण्ड नहीं भोगना पड़ता है, तो फिर द्रव्यलिंगी साधु को, थोड़े से सांसारिक सुख

भोगों के कारण ऐसा कठिन दण्ड क्यों प्राप्त होता है ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है, कि गृहस्थ जो सासारिक भोग भोगता है वह अपनी की हुई किसी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर नहीं, किन्तु प्रतिज्ञा पर स्थिर रह कर। वह, सासारिक भोगों के लिए, छल कपट नहीं करता। यह नहीं करता, कि सासारिक भोग भी भोगे और साधु-वेश पहनकर, अपने आपको पच महाव्रत धारी भी प्रसिद्ध करे। वह जो कुछ भी करता है, चुरा छिपा कर नहीं करता है। लेकिन द्रव्यलिगी साधु, अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर सासारिक विषय-भोग भोगता है। वह, गृहस्थों की तरह गृहस्थ-वेश में सासारिक सुख नहीं भोगता, किन्तु उस वेश में भोगता है, जो सासारिक-भोग त्यागनेवालों का है। गृहस्थों के पास, सासारिक भोगों के साधन भी रहते हैं, इसलिये उन्हें छल कपट नहीं करना पड़ता, लेकिन सयम में प्रव्रजित होने वाला, ऐसे साधनों को, सयम में प्रव्रजित होने के समय ही त्याग चुकता है। इसलिए उसे, सासारिक भोग के साधन जुटाने में, छल कपट से काम लेना होता है। उदाहरण के लिए, गृहस्थ के पास स्त्री है, लेकिन द्रव्यलिगी, स्त्री आदि त्याग कर ही सयम में प्रव्रजित हुआ था, इसलिए उसके पास स्त्री नहीं है। अब यदि वह स्त्री-भोग भोगेगा, तो पर-स्त्री के साथ ही और पर-स्त्री प्राप्त करने में उसे न मालूम कैसे कैसे छल कपट का आश्रय लेना

होगा । यही बात धन वैभव आदि के लिए भी है । तात्पर्य यह, कि द्रव्यलिंगी एक तो त्यागियों के वेश में सासारिक सुख भोगता है । दूसरे, प्रतिज्ञा के विपरीत कार्य करता है । तीसरे, सासारिक भोग प्राप्त करने में, छल कपट से काम लेता है । और चौथे, गृहस्थों की अपेक्षा उसकी लालसा बढी हुई होती है । इन्हीं कारणों से, वह, ऐसे कठिन दण्ड का पात्र है । शास्त्र में कहा है—
 माई मिच्छा दिड्डी अमाई समदिट्ठी ।

अर्थात्—माया छल कपट-करने वाला मिथ्यादृष्टि है और माया नहीं करने वाला समदृष्टि है ।

साधु-वेश में रहकर, जो सासारिक भोग भोगता है, वह, छल कपट करनेवाले मिथ्यादृष्टि के समान है । इसीलिए उसे, सनाथी मुनि के कथनानुसार कठिन दण्ड प्राप्त होता है । गृहस्थों में भी, जो छल कपट करनेवाला है, जो प्रतिज्ञा-भ्रष्ट है, एव व्रत-नियम का पालन नहीं करता है, वह भी ऐसे ही कठिन दण्ड का पात्र है ।

बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, जो व्रत-नियम के विरुद्ध कार्य करके, उस विरुद्ध कार्य को, व्रत-नियम के अन्तर्गत ही धेतलाते हैं, या अपवाद-मार्ग के कार्य की प्ररूपणा, उत्सर्ग मार्ग में करते हैं । ऐसे उत्सूत्र प्ररूपक भी उसी दण्ड के पात्र हैं, जो सनाथी मुनि ने ऊपर बताया है ।

सयम को विराधना के दुष्परिणाम का वर्णन करके सनाथी मुनि कहते हैं—

उद्देशिय कीयगड नियाम

न मुचर्द्ध किंचि अणोसणिज्ज ।

अग्गी त्तिवा सव्वभक्खी भावित्ता

इत्तो चुएगच्छइ कट्टु पाण ॥६७॥

भावार्थ—सयम लेकर भी, जो अग्नि की तरह सर्वभक्षी बन जाता है, उद्देशिक-साधु के निमित्त बना हुआ क्रांत साधु के लिए खरीदा हुआ हुआ नित्य पिण्ड एक ही घर से नित्य लेना और अनपणिक यानी न लेने योग्य आहार भी नहीं छोड़ता, किन्तु लेकर खा जाता है, वह इस भव से पतित होकर कट्टु पाप के फल को प्राप्त करता है। यानी दुर्गति में जाता है।

सनाथी मुनि ने, सयस में प्रव्रजित होने के पश्चात् आनेवाली अनाथता के तीन कारण पच-महाव्रत का पालन न करना, पच-समिति का पालन न करना, और लक्षण स्वप्न आदि का फल एवं निमित्त, इन्द्रजाल के तमाशे आदि बताना-कहे। अब वे, साधु-पने की अनाथता का, भोजन सम्बन्धी चौथा कारण बताते हैं। वे कहते हैं, राजा, साधुपने के व्रत-नियमकी अवहेलना करनेवाले बहुत से-थोथे वेशधारी-लोग अग्नि की तरह सर्व भक्षी बन जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि, अपने में पड़ी हुई सब वस्तुओं को भस्म कर देती है, उन्ही प्रकार वे द्रव्यलिंगी भी, सब कुछ खा

जाते हैं। वे, भोज्य-अभोज्य किसी भी प्रकार का आहार नहीं छोड़ते। यद्यपि उनका कर्त्तव्य तो यह है, कि वे, आहार लेने में, एषणासमिति का भन्नी प्रकार पालन करें, लेकिन वे लोग, एषणा-समिति का किंचित् भी ध्यान नहीं रखते। वे, अनएषणि रू आहार भी ले लेते हैं, और वह आहार भी ले लेते हैं, जो 'गृहस्थो ने साधु के निमित्त से ही बनाया या खरीदा है। इसी प्रकार वे, एक ही घर से नित्य-नित्य आहार लिया करते हैं तथा असूक्तता आहार भी ले लेते हैं।

राज, कुशील लिङ्गी, स्वाद, या शरीर को पुष्ट करने के लिए, अग्नि की तरह सर्वभन्नी बन कर, एषणासमिति को भुला तो देता है, जिस तरह अग्नि अपने में पड़े हुए दुर्गन्ध युक्त, गीले और अपवित्र आदि सभी पदार्थों को भस्म कर देता है, इसी प्रकार वह भी, उद्देशिक, क्रोत, नित्यपिण्ड और अप्रासुक आदि अशुद्ध आहार लेकर खा तो लेता है, लेकिन मरण निश्चय है। ससार का कोई भी जीव, मरने से नहीं बच सकता, तो क्या ऐसा करनेवाला कुशीललिङ्गी न मरेगा। अवश्य मरेगा और उस ऐसा करनेवाले कुशीललिङ्गी का आत्मा, हृष्ट पुष्ट शरीर एव रसलोलुप जिह्वा को छोड़कर महान् दुर्गति में जावेगा। उसने, रसलोलुप बनकर, समय का नाश किया है, इसलिए कटु-
के फल को प्राप्त करेगा।

राजा, वह असाधु जब गृहस्थ था, तब इन्द्रानुसार भोजन बनाकर या बनवाकर खा लेता था। लेकिन उसने यह इच्छा की कि 'अपने में इच्छित भोजन नहीं करूँगा, किन्तु ऐसा भोजन करूँगा, जो मुझे शुद्ध-भिक्षा में मिल जावे। इस समय, मेरे भोजन के लिए, अनेक त्रस स्थावर जीव को कष्ट होता है। मैं, अपने खाने के लिए ही, त्रस स्थावर जीवों को कष्ट देता हूँ। लेकिन अब, मैं, किसी त्रस स्थावर जीव को, अपने भोजन के लिए, कष्ट न होने दूँगा, किन्तु इस प्रकार भिक्षा करके लुधा मिटाऊँगा, जिस तरह भ्रमर, बिना निश्चय किये ही फूलों का रस लेने के लिए जाता है और एक ही फूल से नहीं किन्तु अनेक फूल से रस लेकर अपनी चृमि कर लेता है। मैं भी भ्रमर-भिक्षा से अपना पेट भरूँगा, जिसमें मेरे भोजन के कारण, किसी भी त्रस स्थावर जीव को कष्ट न हो। अब मैं, रसलोलुप न रहूँगा।'

राजा इस प्रकार की भावना से, वह गृह-संसार त्याग कर साधु होगया। वह, जब समय में प्रप्रजित नहीं हुआ था, तब जैसा चाहता था, वैसा भोजन बना कर या बनवाकर खाता था, फिर भी, उसके लिए उपालम्भ की कोई धात न थी। लेकिन, उक्त भावना से साधु हुआ और फिर भी उससे स्वादलोलुपता न छूटी, तो यह, प्रतिज्ञा के विपरीत एव उपालम्भ का कार्य है। उस असाधु की रसलोलुपता से, अनेक त्रस स्थावर जीव की

हिंसा होती है, फिर भी, वह जैसा इच्छित भोजन गृहस्थावस्था में कर सकता था, वैसा भोजन प्राप्त नहीं कर पाता । इस कारण उसका चित्त, स्वादिष्ट भोजन के लिए सदा लालायित रहा करता है । इन्हीं कारणों से, वह दुर्गति में जाता है ।

राजा, सयम का पालन करने वाले लोग अपने लिए बनाया गया, या अपने लिए खरीदा हुआ आहार नहीं लेते । - क्योंकि, ऐसा आहार लेने से, साधु के लिए अनेक त्रस स्थावर जीवों की हिंसा होती है । इसी प्रकार, साधु, नित्य एक ही घर से भिक्षा नहीं किया करते । एक ही घर में भिक्षा लेते रहने पर, उस घर-वाले को यह मालूम रहता है, कि साधु आवेंगे, इसलिए वह, साधु के वास्ते विशेष तयारी करता है—विशेष भोजन बनवाता है—जिससे साधु के लिए, त्रस स्थावर जीवों की हिंसा होती है । सयमी लोग, भिक्षा में वैसा ही आहार ले सकते हैं, जो बयॉलिस दोष से रहित हो । वे उद्देशिक, क्रीत, नित्य पिंड तथा आमन्त्रित होकर या पहले से सूचना देकर आहार नहीं लेते । लेकिन कुशील लिङ्गी लोग, भोजन सम्बन्धी इन नियमों का पालन नहीं करते । वे, एपणिक, एव अनैपणिक ही प्रकार का आहार लेते और खाते हैं । परिणाम यह है, कि ऐसे लोगों को इस लोक-में भी सम्मान-पूर्वक

आहार नहीं मिलता—अनादर-पूर्वक आहार मिलता है, और परलोक में भी, दुर्गति मिलती है।

जैन भिक्षु के लिए, भिक्षा सम्बन्धी जो विधि बताई गई है, बहुत अश में वैसी ही विधि, अन्य ग्रन्थों में भी बताई गई है। जैसे—

विधुमे न्यस्तमुसलं व्यगारे भुक्तवज्जने ।
अतीतपात्र सपाते नित्य भिक्षा यतिश्चरेत् ।
सप्तागाराश्चरेद्भक्ष्य भिक्षित नानुभिक्षयेत् ॥

शङ्खस्मृति अ० ७

अर्थात्—गृहस्थों के यहाँ जत्र मूसल चलना-कूटना-बन्द हो गया हो; धुआँ न निकलता हो, गृह के लोग भोजन कर चुके हो, और जल-पात्रादि का रखना उठाना न हो रहा हो, उस समय यति, भिक्षा के लिए जावे। यति, सात घर से भिक्षा ले, और जिस घर से पहले भिक्षा ले चुका है, उस घर से भिक्षा न ले।

न तापसैर्ब्राह्मणैर्वा वयोभिरपि वा श्वाभि ।
आकीर्णं भिक्षुकैर्न्यैरागारमुपसत्रजेत् ॥

मनुस्मृति अ० ६४

अर्थात्—सन्यासी, उस घर में भिक्षा के लिए कदापि न जावे; जिस घर में, भोजन के लिए आये हुए तापस, ब्राह्मण, कुत्ते, कौए या दूसरे भिक्षुक मौजूद हों।

हिंसा होती है, फिर भी, वह जैसा इच्छित भोजन गृहस्थावस्था में कर सकता था, वैसा भोजन प्राप्त नहीं कर पाता । इस कारण उसका चित्त, स्वादिष्ट भोजन के लिए सदा लालायित रहा करता है । इन्ही कारणों से, वह दुर्गति में जाता है ।

राजा, सयम का पालन करने वाले लोग अपने लिए बनाया गया, या अपने लिए खरीदा हुआ आहार नहीं लेते ।, क्योंकि, ऐसा आहार लेने से, साधु के लिए अनेक त्रस स्थावर जीवों की हिंसा होती है । इसी प्रकार, साधु, नित्य एक ही घर से भिक्षा नहीं किया करते । एक ही घर से भिक्षा लेते रहने पर, उस घर-वाले को यह मालूम रहता है, कि साधु आवेंगे, इसलिए वह, साधु के वास्ते विशेष तयारी करता है—विशेष भोजन बनाता है—जिससे साधु के लिए, त्रस स्थावर जीवों की हिंसा होती है । सयमी लोग, भिक्षा में वैसा ही आहार ले सकते हैं, जो बयॉलिस दोष से रहित हो । वे उद्देशिक, क्रीत, नित्य पिंड तथा आमन्त्रित होकर या पहले से सूचना देकर आहार नहीं लेते । लेकिन कुशील लिङ्गी लोग, भोजन सम्बन्धी इन निमयो का पालन नहीं करते । वे, एषणिक एवं अनैषणिक दोनों ही प्रकार का आहार लेते और खाते हैं । परिणाम यह है, कि ऐसे लोगों को इस-लोक में भी सम्मान-पूर्वक

कि 'अमुक व्यक्ति यदि हमारा वैरी है, तो अधिक से अधिक हमारा गला काट डालेगा, और क्या करेगा ?' अर्थात्, वैर पूरा करने की सीमा इतनी ही है, इससे अधिक वैरी कुछ नहीं कर सकता। यह भी वही वैरी करेगा, जो दयाहीन हो। लेकिन राजा, दुरात्मा से तो अपने आपका वह अहित होता है, जो अहित, वैरी कहलाने वाले से भी नहीं हो सकता। बल्कि वैरी बने हुए व्यक्ति को, सुआत्मा अपना हित करने वाला मानता है, जैसे कि गजसुकुमार मुनि ने, सोमल को अपना सहायक माना था। ऐसे समय पर, सुआत्मा सोचता है, कि मैं इस मारने वाले से नहीं मर सकता, मैं तो अपने आप से ही मर सकता हूँ—यानी अपने काय्यों से ही दुःख पा सकता हूँ। यदि, वैरी द्वारा गर्दन काटने पर, आत्मा में समता रहे तो वह गर्दन काटनेवाला, मोक्ष प्राप्त कराने का साधन भी हो सकता है। लेकिन दुरात्मा अपने-आप का, वैरी के गला काटने से भी अधिक अहित करता है। मृत्यु के मुख में पडने पर, दुरात्मा, अपने आप ही पश्चाताप की अग्नि से जलने लगता है। जिस समय वह नरकादि की वेदना भोगता है, उस समय उसे यह पश्चाताप होता है, कि 'मैंने समय स्वीकार करके भी उसकी विराधना क्यों कर डाली। मैं, थोड़े से नाशवान विषय-भोग के लोभ में क्यों पड़ गया।' यदि मैंने विषय लोलुपता से, या प्रमाद बश,

कि 'अमुक व्यक्ति यदि हमारा वैरी है, तो अधिक से अधिक हमारा गला काट डालेगा, और क्या करेगा ?' अर्थात्, वैर पूरा करने को सीमा इतनी ही है, इससे अधिक वैरी कुछ नहीं कर सकता। यह भी वही वैरी करेगा, जो दयाहीन हो। लेकिन राजा, दुरात्मा से तो अपने आपका वह अहित होता है, जो अहित, वैरी कहलाने वाले से भी नहीं हो सकता। वल्कि वैरी बने हुए व्यक्ति को, सुआत्मा अपना हित करने वाला मानता है, जैसे कि गजसुकुमार मुनि ने, सोमल को अपना सहायक माना था। ऐसे समय पर, सुआत्मा सोचता है, कि मैं इस मारने वाले से नहीं मर सकता, मैं तो अपने आप से ही मर सकता हूँ—यानी अपने कार्यों से ही दुःख पा सकता हूँ। यदि, वैरी द्वारा गर्दन कटने पर, आत्मा में समता रहे तो वह गर्दन काटनेवाला, मोक्ष प्राप्त कराने का साधन भी हो सकता है। लेकिन दुरात्मा अपने आप का, वैरी के गला काटने से भी अधिक अहित करता है। मृत्यु के मुख में पडने पर, दुरात्मा, अपने आप ही पश्चाताप की अग्नि से जलने लगता है। जिस समय वह नरकादि की वेदना भोगता है, उस समय उसे यह पश्चाताप होता है, कि 'मैंने सयम स्वीकर करके भी उसकी विराधना क्यों कर डाली। मैं, थोड़े से नाशवान विषय-भोग के लोभ में क्यों पड़ गया। यदि मैंने विषय लोलुपता से, या प्रमाद वश,

सयम की विराधना न की होती, तो आज मुझे, नरक तिर्यक् गति में जन्म लेकर, ये कष्ट क्यों भोगने पड़ते। वे सासारिक विषय-भोग-जिनमे पड कर, मैंने सयम की विराधना की थी— वही रह गये, और मुझे ये कष्ट भोगने पड रहे हैं। यदि मैंने, सयम का भला-प्रकार पालन किया होता, संयम की अवहेलना न की होती, तो आज मैं उस सुख में होता, जो सुख अविनाशी है।

यहाँ प्रश्न होता है, कि गला काटने वाला वैरी तो प्रत्यक्ष में ही गला काटता है शरीर नाश करता है, लेकिन दुरात्मा, अपने आपकी प्रत्यक्ष में ऐसी कोई हानि नहीं करता, फिर दुरात्मा को, कण्ठ काटने वाले वैरी से भी अधिक अपने आपका अहित करनेवाला कैसे कहा ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है, कि सिर काटनेवाला वैरी, शरीर का ही नाश करता है, आत्मा का वह कुछ नहीं विगाड सकता। केवल शारीरिक हानि ही, हानि नहीं है, किन्तु आध्यात्मिक हानि ही वास्तविक हानि है। आस्तिक लोग, आत्मा को अविनाशी और शरीर को नाशवान मानते हैं। इसलिए उनके समीप, शरीर का नष्ट होना कोई हानि नहीं है। वे, प्रत्यक्ष या इस लोक को ही नहीं मानते, किन्तु इनके साथ ही, परोक्ष और परलोक को भी मानते हैं। यह उपदेश, आस्तिकों के लिए ही है। जो लोग,

शरीर के साथ ही, आत्मा का भी नाश मानते हैं, आत्मा और शरीर को, दो नहीं, किन्तु एक ही जानते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह उपदेश नहीं है । इसलिए, दुरात्मा द्वारा का हुई अपने आपको हानि, प्रत्यक्ष में चाहे न दीखती हो, प्रत्यक्ष में चाहे लाभ ही दिखता हो, लेकिन मृत्यु के पश्चात् परलोक में वह दुरात्मा भीपण सकट में पड़ता है, और आस्तिक लोग, परलोक मानने से इन्कार नहीं कर सकते । आस्तिक लोग, आत्मा को अविनाशी मानने के साथ ही, परलोक पर भी विश्वास करते हैं । तात्पर्य यह, कि हानि की सीमा, प्रत्यक्ष दिखने तक ही नहीं है, किन्तु, चर्म-चक्षु से न दिखनेवाली हानि भी है, जिसे ज्ञानी लोग, अपने ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष देखते हैं । परलोक में होनेवाली हानि को, चर्म-चक्षु से नहीं देखा जा सकता । किन्तु ज्ञान-चक्षु से ही देखा जा सकता है । उस हानि को, चर्म-चक्षु में देखने की इच्छा करना, भूल है और नास्तिकता का चिन्ह है ।

सनाथी मुनि कहते हैं—राजा, मृत्यु के मुख में पड़ने पर, दुरात्मा को महान् पश्चात्ताप होता है । पश्चात्ताप के साथ ही, उसे नरक तिर्यक गति के महान् से महान् कष्ट भी भोगने पड़ते

इमे वि से नत्थि परे विलोए

दुहओ वि से किज्झइ तत्थ लोए ॥४६॥

भावार्थ—जो उत्तम सयम लेकर भी उसमें रुचि नहीं रखता और सयम की विराधना करता है, उसका सयम लेना निरर्थक होता है। उसके लिये यह लोक भी लाभप्रद नहीं होता और परलोक भी नहीं होता। वह दोनों ही लोक में दुःख पाता है।

सनाथी मुनि कहते हैं—राजा, बहुत से लोग, संयम के प्रति रुचि न होने पर भी, सयम ले लते हैं और फिर उसका पालन नहीं करते, किन्तु उसकी विराधना करते हैं। मानापमान की दृष्टि से, वे, सयम का वेश भी नहीं त्यागते और रुचि न होने से, सयम का पालन भी नहीं कर पाते। उनके लिए, साँप छूँदर को सी गति हो जाती है। इस प्रकार उनका यह लोक भी सुख-प्रद नहीं रहता और सयम की विराधना करने से, परलोक तो दुःखप्रद है ही। वे, इस लोक और परलोक, दोनों में ही मुरते रहते हैं किसी भी लोक में, निश्चिन्त और सुखी नहीं रहते। इस लोक में लोक लज्जा के मारे, केशलुचन, नगे पाँव चलना, भिन्ना मॉगना आदि प्रकट कार्य तो उन्हें उसी प्रकार करने पडते हैं, जिस प्रकार सयम पालनेवाले करते हैं, फिर भी उनके ये कार्य, निरर्थक होते हैं, उत्तम अर्थ में नहीं लगते। क्योंकि, वे, जो कुछ करते हैं, जो कष्ट सहते हैं, सत्र आहम्बर के लिए।

राजा, रुचि और उत्साह पूर्वक समय का पालन करने पर, कष्ट नहीं होता। रुचि और उत्साह सहित केशलुचन में, पैदल चलने में, तथा भिच्चा मँगने में, अपूर्व आनन्द अनुभव होता है। जिस प्रकार सासारिक लोग, पुत्र पुत्री के विवाह में दिन रात परिश्रम करते हैं, क्षुधा तृषा सहते हैं, और भी अनेक कष्ट उठाते हैं, फिर भी वे, इसमें आनन्द ही मानते हैं, उसी प्रकार, रुचि और उत्साह सहित समय पालनेवाला, परिपक्व सहन केशलुचन, भिच्चा, पैदल चलने आदि में आनन्द ही मानता है, कष्ट नहीं समझता। ऐसे ही व्यक्ति का समय लेना सार्थक है। जो लोग अरुचिपूर्वक समय लेते हैं, समय में कष्ट समझते हैं, उनका समय लेना निरर्थक है और ऐसे समय लेनेवाले, दोनों ही लोक में दुःख अनुभव करते हैं।

सनाथी मुनि, साधुपने में होनेवाली अनाथता का वर्णन करके, उपसहार में कहते हैं—

एमेव हा छन्द कुसील रूवे

मग्ग चिराहित्तु जिणुत्तमायं ।

कुररी विवा भोग रसाणु गिद्धा

निरइसोया परियाव मेइ ॥५०॥

भावार्थ—जिस प्रकार कुररी (मादापक्षी विशेष) मांस के लिए खालापित रहती है, उसी प्रकार साधुपेक्ष धारी असयमी लाग, रसादि

भोग के लिष्ट लालायित रहा करते हैं और स्वच्छन्द होकर, उत्तम निर्णय की विराधना करके, फिर निरर्थक सोच तथा पश्चात्ताप करते हैं।

सनार्थी मुनि कहते हैं—राजा बहुत से कायर लोग, -
की अनाथता से निकलने के लिए, संयम लेकर, सासारिक भोगों को त्याग तो देते हैं, लेकिन फिर उन्हीं त्यागों हुए भोगों के लिए इस प्रकार लालायित रहते हैं, जिस प्रकार, कुररी मास के लालायित रहा करता है। संसार के रसादि भोगों के लिए स्वच्छन्द आचरण करने लगते हैं और सयम के प्रतिबन्धन पालन न करके भी, साधु बने रहकर लोगों को धर्म में रहते हैं। स्वच्छन्दाचरण द्वारा वे लोग, उत्तम जिन मार्गों की विराधना कर डालते हैं। संयम की विराधना के कारण रसादि भोगों की वृष्टि के वश होने से, उन्हें कुछ विचार होता, लेकिन मृत्यु के मुखमें पड़ने पर, वे सोच एवं पश्चात्ताप करते हैं। लेकिन राजा, समय बीत जाने पर, सोच पश्चात्ताप करने से न्या लाभ। फिर तो सोच पश्चात्ताप करते हैं। सयम की विराधना करते समय उन्हें भूत भविष्य विचार करना चाहिए था और यह देखना चाहिए था, कि मैं कब को उठा या और क्या करता हूँ, तथा इसका फल क्या होगा। उस समय तो विचार नहीं किया, उस समय तो संयम एवं मानपमान आदि के आगे सयम का ध्यान नहीं रखा।

अब पश्चात्ताप किस काम का ! इस निरर्थक पश्चात्ताप का कारण, वह स्वयं ही तो है। यदि वह अपने ध्येय को न भूला होता, सासारिक भोगों में न पड़ा होता समार के मानापमान का विचार करके उसने मयम को दूषित न किया होता, तो अन्त में उसे पश्चात्ताप भी न करना पड़ता। मयम की विराधना करने से, पश्चात्ताप भी करना होता है और मनाथ का अनाथ ही रहता है।

साक्षात् मेहावि सुभासिय इम

अणुसासण नाणुणोववेय ।

मग्ग कुसीलाण जहाय सव्व

महा नियण्टाण वए पहेण ॥५१॥

भावार्थ—मेधावी लोग, इस ज्ञान गुण सयुक्त सुभाषित सिखावन पर विचार करके, कुशीलों के मार्ग को त्यागकर, सर्वथा प्रकार से महा निग्रह के मार्ग पर चलेंगे।

चरित्त मायार गुणाणिए तञ्जी

अणुत्तर सजम पालियाण ।

निरासवे सखवियाण कम्म

उवेइ ठाण विउल्लुत्तम धुव ॥५२॥

भावार्थ—वे, गुणयुक्त चरित्र का आचरण करके अणुत्तर—यथाव्याप्त-सयम, का पालन करेंगे और निराश्रयी होकर, तथा कर्मों को क्षय करके, बहुत उत्तम एवं ध्रुव स्थान—मोक्ष—को प्राप्त करेंगे।

सनाथ मुनि कहते हैं—राजा, मैंने माधुपने की अनाथता का वर्णन, किसी की निन्दा के लिए नहीं किया है, किन्तु सयम लेने वालों के हित की दृष्टि से किया है। यह, सुभाषित एवं ज्ञान-गुण-युक्त शिक्षा है। घरवार छोड़कर संसार की अनाथता से निकलने के लिए, संयम में प्रव्रजित लोग फिर अनाथता में न पड़ जावें, इसी के लिए यह उपदेश है। इसके साथ ही, उन लोगों के लिए भी यह उपदेश है, जो स्वयं अनाथता में पड़े हुए हैं, लेकिन सनाथता को समझते हैं और सनाथ व्यक्ति की उपासना करते हैं। इस शिक्षा द्वारा, ऐसे लोगों को सावधान किया गया है, कि तुम जिसको उपासना सनाथ समझ कर कर रहे हो, कल्याण और मंगल करने वाले कह कर जिसे वन्दन नमस्कार करते हो, जिसे अपना मार्ग-दर्शक समझते हो, उसकी पहचान करलो, कि वह कहीं सनाथ के भेष में अनाथ तो नहीं है। जो सनाथ के भेष में रहकर भी अनाथता में पड़ा है, जिसमें अनाथता के लक्षण विद्यमान हैं, वह, अपना ही कल्याण नहीं कर सकता, तो तुम्हारा कल्याण क्या करेगा ? जो स्वयं अपने लिए ही अमंगल है, वह तुम्हारे लिए मंगल करनेवाला कैसे होगा ? इसलिए तुम अपने कल्याण के वास्ते जिसकी उपासना करते हो, उसकी भली प्रकार पहचान कर लो और देखलो, कि वह अनाथ है या सनाथ। सनाथ व्यक्ति की उपासना से तो

तुम्हारा हित होगा, लेकिन अनाथ व्यक्ति की उपासना से, तुम्हारा हित न होगा, किन्तु अहित होगा। तुम और ज्यादा अनाथता में फँसते जाओगे, तथा जिन-मार्ग को दूषित करने वाले की सहायता करने के कारण, कर्म बन्ध करोगे।

राजा, यह शिक्षा, सुभाषित है। बिना राग-द्वेष, हित की दृष्टि से कहे गये प्रिय वचनों को, सुभाषित कहते हैं। सुभाषित होने के साथ ही, यह शिक्षा, ज्ञान और गुण से युक्त है। यानी ज्ञान-गुण उत्पन्न करने वाली है।

राजा, इस भाषित और ज्ञानगुणसयुक्त शिक्षा पर, बुद्धिमान लोग भली प्रकार विचार करके, कुशलों के मार्ग को त्याग देंगे। सयम लेकर भी, जो आचार पालने में कमजोर हैं, जिनका उद्देश्य, राग-द्वेष मिटाना नहीं, किन्तु राग द्वेष बढ़ाना है, जो ससार की अनाथता में पड़े हुए लोगों द्वारा त्याज्य कार्य करने तक में नहीं हिचकिचाते, उनके अनुशासन (शिक्षा) को बुद्धिमान लोग कदापि न मानेंगे। बुद्धिमान लोग, इस शिक्षा पर विचार करके महा-निग्रन्थ के मार्ग को अपना कर जो सयम के व्रत नियमों का पूर्णरीत्या पालन करता है, उसके अनुशासन में चल कर, गुणयुक्त चरित्र का आचरण एवं यथा ख्यात सयम का पालन करेंगे। ऐसा करके वे, निराश्रवी एवं कर्म-रहित होकर, मोक्ष प्राप्त करेंगे।

राजा, मोक्ष-प्राप्ति के लिए, ज्ञान युक्त चारित्र और चरित्र युक्त ज्ञान होना चाहिए। इन दोनों के होने पर ही, मोक्ष प्राप्त होता है। यदि दोनों में से कोई एक हो और दूसरा न हो तो काम नहीं चलता। जिस प्रकार एक पहिये से रथ नहीं चलता, उसी प्रकार ज्ञान और चारित्र में से केवल एक के होने पर, मोक्ष नहीं मिलता। चारित्रहीन ज्ञान, और ज्ञानहीन चारित्र मोक्ष के लिए पयोध नहीं है। ज्ञानयुक्त पाला गया आचार ही उत्तम आचार है और ऐसा आचार ही मोक्ष प्राप्ति का हेतु है।

राजा, ससार की अनाथता से निकलने के लिए, सयम स्वीकार करने की आवश्यकता है, लेकिन सयम ले लेने मात्र से, सनाथ नहीं हो जाता। सयम स्वीकार करना सनाथता का मार्ग अपनाना है। इस मार्ग को पकड़ लेने वाला, भगवान महावीर के 'चल माणे चलिए' सिद्धान्त के अनुसार सनाथ अवश्य कहलाता है, एक प्रकार से वह सनाथ ही हो जाता है, लेकिन यदि उसने सयम-मार्ग को त्याग दिया, संयम के व्रत नियमों की अवहेलना की, तो वह फिर अनाथ हो जाता। सयम से पतित बन कर अनाथिक अनाथता से अधिक प्रकार गड़े में

चढता है, लेकिन असावधानी के कारण फिर गड्ढे में गिर जाता है और गिरने के साथ ही, अपने शरीर के किसी अंग को तोड़ लेता है, तथा इस प्रकार फिर बाहर निकलना कठिन बना लेता है, उसी प्रकार, समय से पतित होनेवाला व्यक्ति, अपने आपको पहले की अपेक्षा अधिक अनाथ बना लेता है। यदि वह संयम-मार्ग पर सावधानी से चलता रहा, पतित न हुआ तो वह अनाथता में नहीं पडता, किन्तु अन्त में, ऐसा स्थान प्राप्त करता है, जहाँ अनाथता का किंचित् भी भय नहीं है। अनाथता के भय से रहित स्थान का नाम 'मोक्ष' है। मोक्ष प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति सदा के लिए सनाथ हो जाता है, फिर कभी भी अनाथ नहीं होता। जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक संयमी व्यक्ति भी—असावधानी या प्रमाद से अनाथता में पड़ सकता है। इसलिए, समय लेकर सावधानी से उसका पालन करने और मोक्ष प्राप्त करने की आवश्यकता है। मोक्ष में पहुँचा हुआ, यानी सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बना हुआ आत्मा ही पूर्ण सनाथ है।

श्रीसुधर्मा स्वामी, सनाथी मुनि द्वारा वर्णित सनाथना का वर्णन करके, श्रीजम्बू स्वामी से कहते हैं—

एगुग्गदन्ते वि महा तवोवणे

महामुणी महापइन्ने महायसे ।

महानियरिठज्जामिएण महासुय

से कहेई महया वित्थरेणं ॥५३॥

भायार्थ—इन्द्रियों का उग्रता से दमन करने वाले, महातपो धनी, महामुनि, महाप्रज्ञावान, महायशस्वी सनाथ-मुनि, ने इस महानिग्रथ के मार्ग रूपी महाश्रुत को, बड़े विस्तार पूर्वक राजा श्रेणिक से कहा ।

हे जम्बू, जिन सनाथी मुनि ने, राजा श्रेणिक से यह वर्णन किया है, वे सनाथी मुनि, इन्द्रियों का उग्रता से दमन करने-वाले थे । इन्द्रियों का दमन करने में, वे, नग्रता से किंचित् भी काम नहीं लेते थे । वे, महान् तप के धनी थे । उन्होंने, असाधारण तपस्या कर रखी थी । वे, महामुनि थे । सयम के व्रत-नियमों पर, वे, ऐसे दृढ थे, कि उन्हें इन्द्रादि भी विचलित नहीं कर सकते थे । व्रत-नियम पर अनुपम दृढता के कारण, वे, महामुनि कहलाते थे । वे मुनि महा-प्रज्ञावान, यानी ज्ञानवान थे । उनके ज्ञान का पार न था । इन सब विशेषणों से युक्त होने के साथ ही, वे सनाथी मुनि, महा यशस्वी थे । चाहे कोई उनकी निन्दा करे, या प्रशंसा, वे, यश के कामों को नहीं त्यागते थे । उन सनाथी मुनि ने, इस महाश्रुत को (इस बड़े अध्याय को) श्रेणिक राजा से, विस्तार पूर्वक कहा ।

दूसरे अध्याय तो, केवल अध्याय ही कहे जाते हैं, लेकिन इस अध्याय को सुधर्मा स्वामी, महाअध्याय कह रहे हैं ।

क्योंकि, इस अध्याय में उस महाकथा का वर्णन है जो, महामुनि सनाथी ने, महाराजा श्रेणिक को सुनाई थी। यह कथा, उस सनाथता एव उस स्थान की मार्गदर्शिका है, जो नित्य, अविचल एव दुःखसतापरहित है।

श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं, कि महामुनि सनाथी ने, यह महाकथा, महानिग्रन्थों का मार्ग बताने, एव उस पर दृढ़ रखने के लिए कही है। सुधर्मा स्वामी के इस कथन का यह अर्थ नहीं है, कि यह कथा, केवल उन साधुओं के ही काम की हो, जो व्रत नियमों का भली भाँति पालन कर रहे हैं। यदि ऐसा होता, तो सनाथी मुनि, यह कथा राजा श्रेणिक को-जो गृहस्थ था न सुनाते। हाँ, मुख्यतः यह कथा, निग्रन्थ-मार्ग को अपनाने वालों के लिए ही है, लेकिन साधारणतया इस कथा से सब लोग लाभ ले सकते हैं। महा-निग्रन्थ के मार्ग पर चलने वाले लोग, इस कथा से यह ज्ञान सकेंगे, कि हम इन इन काव्यों से बचे रहे, अन्यथा, फिर दूसरी अनाथता में पड़ जावेंगे। जो लोग गिर चुके हैं, उन्हें निकालने-उनका उद्धार करने से पूर्व, जो लोग नहीं गिरे हैं, उन लोगों को-न गिरने के लिए-सावधान कर देना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से, यह कथा मुख्यतः उन लोगों के लिए है, जो महा-निग्रन्थ के मार्ग पर चल रहे हैं। यानी, ऐसे लोगों को सावधान कर दिया गया है, कि तुम अना-

थता से निकलने के लिए ही सयम में प्रव्रजित हुए हो, लेकिन विषय लोलुपता, असावधानी, या प्रमाद से फिर अनाथता में मत पड जाना ।

सयम, मार्ग पर चलने वाले लोगों को सावधान करने के साथ ही, जो लोग सयम लेकर फिर अनाथता में पड गये हैं, या पड रहे हैं, तथा जो लोग ससार की अनाथता से निकल कर सयम में प्रव्रजित हो रहे हैं, एवं जो लोग, सयम में प्रव्रजित को अपना गुरु मानकर उनकी उपासना करते हैं, उन लोगों का भी, इस महाकथा से हित होगा । सयम में प्रव्रजित होकर फिर अनाथता में पडे हुए लोग, इस कथा से यह बात समझ सकेंगे, कि 'हम फिर अनाथता में पड गये हैं । हमारे पास तो केवल सयम का वेश ही वेश है, जो व्रत नियम का पालन न करने पर, हमें और अनाथता में धकेलने वाला है ।' इस बात को जान कर, वे पुन अनाथता से निकलने के उपाय करेंगे । जो लोग, सयम में प्रव्रजित होकर भी अनाथता में पडने वाले हैं, वे, इस कथा से सम्हल जावेंगे । उन्हें मालूम हो जावेगा, कि हम तो सयम लेकर भी अनाथता की ओर अग्रसर हो रहे हैं । यह मालूम होने पर, वे, अपने आप को अनाथता में पडने से बचा लेंगे । इसी प्रकार जो लोग, ससार की अनाथता से निकलने के लिए सयम ले रहे हैं वे, इस महाकथा पर विचार करके

संयम में प्रमाद न करेंगे, किन्तु सावधानी रखेंगे । उन्हें यह मालूम रहेगा, कि हम एक अनाथता से तो निकले हैं, लेकिन एक अनाथता और है, हम असावधानी से उसमें न जा गिरें, नहीं तो कहीं के न रहेंगे । जो लोग, सयमी लोगों को अपना गुरु मानकर उनकी उपासना करते हैं इस महा-कथा द्वारा वे, अपने माने हुए गुरु के लिए यह जान सकेंगे, कि हम जिन्हे अपना गुरु मान रहे हैं, वे वास्तव में सयम पालन करने वाले और सनाथ हैं या सयम के नाम से आजीविका करने वाले अनाथ हैं । केवल वेश से तो साधु असाधु की परीक्षा हो नहीं सकती, क्योंकि वेश तो सयम पालने वाले और न पालने वाले दोनों का समान ही है, लेकिन इस महाकथा में जो रात्रण बताया है, उनसे, अनाथ, सयम का पालन न करने वाले और थोथा वेश धारण करने वाले, जाने जा सकेंगे । जिससे वे उपासक लोग, धोखा न खावेंगे और धर्म समझ कर, पाप में प्रवृत्त न होंगे ।

तात्पर्य यह, कि जिस प्रकार वृक्ष लगाने का उद्देश्य, फल खाना होता है, लेकिन उससे छाया भी मिल जाती है, इसी प्रकार यह कथा, महानिप्रथों के मार्ग को अपनाते वारों लोगों के लिए होते हुए भी, इससे, सभी लोग लाभ उठा सकते हैं ।

श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं—जन्मू, इस महाकथा का

महामुनि सनाथी ने बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया। श्री सुधर्मा स्वामी के कथन का अभिप्राय यह है, कि मैंने जो वर्णन किया है, वह तो संक्षिप्त है, लेकिन महामुनि सनाथी ने इसे विस्तार-पूर्वक कहा था।

शास्त्रों में, किसी बात का विस्तृत वर्णन नहीं हो सकता। विस्तृत वर्णन से, असुविधा के साथ ही, ग्रन्थवृद्धि का भी भय रहता है। शास्त्रों में, यदि प्रत्येक बात का विस्तृत वर्णन किया जावे, तो शास्त्र बढ जावेंगे और साधु उन्हें स्मृति में न रख सकेंगे। इसीलिए शास्त्रों में, प्रत्येक बात का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। 'सूत्र' शब्द का अर्थ भी, बहुत अक्षर वाले अर्थ को थोड़े में बताना है। उस संक्षिप्त वर्णन की, विस्तृत रूप में व्याख्या करना वक्ता का काम है। हाँ, वक्ता उस विस्तृत व्याख्या में, कोई ऐसी बात मिलाने का अधिकार नहीं रखता, जो शास्त्र-सम्मत न हो, लेकिन शास्त्र की संक्षिप्त बात की विस्तृत व्याख्या करना और उस व्याख्या को युक्ति दृष्टान्त आदि से पुष्ट करना वक्ता का काम है।

महा मुनि सनाथी द्वारा वर्णित अनाथता का, राजा श्रेणिक पर कैसा प्रभाव पडा, यह बताने, के लिए श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं—

तुडो ये सेणिओ राया
 इण मुदाहु कयजली ।
 अनाहय जहा भुय
 सुद्रु मे उवदसिय ॥५४॥

भावार्थ—सगयी मुनि से अनाथ की व्याख्या सुनकर, राजा श्रेणिक, बहुत सन्तुष्ट हुआ और हाथ जोड़ कर कहने लगा, कि आपने मुझे अनाथता के स्वरूप का अच्छा उपदेश दिया ।

तुम्हे सुलङ्ग खु मणुस्स जम्म
 लाभ सुलङ्गाय तुमे महेसी ।
 तुम्हे सणाहाय सबन्धवाय
 ज भे ठिया मग्ग जिणुत्तमाण ॥५५॥

भावार्थ—हे महर्षि, आपका मनुष्यजन्म पाना सफल है । आपने मनुष्य जन्म का बहुत अच्छा लाभ लिया । आप ही का सुन्दर रूप और मनोहर आकार सार्थक है । आप, जिन मार्ग के यथार्थ सेवी हैं, इसलिए सनाथ और बंधु बन्धव से युक्त भी आप ही हैं ।

श्रेणिक राजा ने, पहले तो यह कहा था, कि इन अच्छी आकृति और सुन्दर रूप वाले युवक ने, संयम लेकर मनुष्य जन्म का अपमान क्यों किया । इस प्रकार राजा श्रेणिक, पहले वही मनुष्य जन्म सार्थक समझता था, उसी की आकृति और उसी का रूप सफल मानता था, जो सासारिक भोग भोगने में रहे । जिसके माता, पिता,

भाई, वहन मित्र आदि हो, उसी को वह सनाथ समझता था। लेकिन सनाथी मुनि से, अनाथ-सनाथ की व्याख्या सुनकर, उसकी यह मान्यता पलट गई। अब वह इस बात को समझ गया, कि जिन कारणों के विद्यमान रहने पर, मैं, अपने आपको तथा दूसरे को सनाथ समझता था वे कारण तो अनाथता बढ़ाने वाले हैं। यह समझ में आ जाने से, वह, सतुष्ट हुआ और हाथ जोड़कर सनाथी मुनि से कहने लगा, कि आपने मुझे अनाथता के स्वरूप का अच्छा उपदेश दिया। आपके उपदेश से, मुझे यह ज्ञात हो गया, कि इस ससार में, किन लक्षणों वाले अनाथ हैं और कौन सनाथ है। मैंने आपसे, केवल उपदेश में ही अनाथ सनाथ का स्वरूप नहीं सुना, किन्तु इसके साथ ही, मैंने यह भी देखा, कि आप अनाथता के लक्षणों को त्याग चुके हैं, और उस जिन मार्ग के सेयी हैं, जो अनाथता देनेवाला है। आप, अनाथता से निकलकर सनाथ हो चुके हैं, इसलिए आप ही का मनुष्य जन्म सफल है। आप दोनों ही प्रकार की अनाथता से बचे हुए हैं। इतना ही नहीं, किन्तु मनुष्य जन्म का लाभ भी आप ही ने लिया है। मैं, अब तक यह समझता था, कि मनुष्य जन्म का लाभ, भोग भोगना ही है, लेकिन आपके उपदेश से, मैं यह जान गया, कि मनुष्य जन्म का लाभ, भोगों को त्यागकर, सयम अपनाने पर ही है। आपने ऐसा ही किया है, इसलिए मनुष्य जन्म का

लाभ भी आप ही को मिला है । आपने समय लेकर सुन्दर रूप और मनोहर आकृति को भी सार्थक बना लिया । जिस सुन्दर रूप और मनोहर आकृति की प्राप्ति बड़े पुण्य का फल मानी जाती है, उसे आपने समय में लगाकर, सुलब्ध वस्तु से सुलाभ ही लिया है । सासारिक और अनाथता में पड़े हुए लोग, इन सुलब्ध वस्तुओं में सुलाभ नहीं लेते, किन्तु अधिक अनाथता में पड़ने के कारण उपन्न करते हैं, लेकिन आपने इनसे समय का सुलाभ ही लिया है । इसलिए आपको मनुष्य जन्म भी अच्छा मिला और उसका लाभ भी अच्छा मिला ।

हे मुनिराज, सासारिक ऋद्धि-संपदा का स्वामी होने के कारण, मैं, अब तक अपने को सनाथ और आपको अनाथ मानता था, तथा इसी कारण से, आपका नाथ बनने के लिए भी तयार हुआ था । वल्कि मेरे लिए आपका कहा हुआ 'अनाथ' शब्द, मुझे बुरा तथा मिथ्या मालूम हुआ था, लेकिन आपने अनाथता सनाथता का जो रूप बताया, उसे सुन समझ कर, मेरा उक्त विचार बदल गया । अब मैं, समस्त सासारिक लोगों के साथ ही अपने आपको अनाथ मानता हूँ और आप ऐसे समयों को सनाथ मानता हूँ ।

हे आर्य, बन्धु-बान्धवों से युक्त भी आप ही हैं । अब तक मैं यह समझता था, कि जिसके माँ, बाप, बहन, भाई, स्त्री आदि

परिवार और स्वजातीय लोग तथा नौकर चाकर आदि हो, वही बन्धु बान्धवों से युक्त है, लेकिन आपके उपदेश ने, मेरा यह भ्रम मिटा दिया। मैं समझ गया, कि इनके होने से कोई भी, बन्धु-बान्धव युक्त नहीं हो सकता। क्योंकि, जो असमय में काम आवे, वे ही बन्धु बान्धव हैं। माता, पिता, आदि कोई भी, असमय में सहायता नहीं कर सकते। कष्ट के समय यदि ये लोग सहायता कर सकते होते-तो आपके ये सब थे, फिर आपका कष्ट क्यों न मिटा दिया। जब कष्ट-मुक्त नहीं कर सकते तो फिर बन्धु-बान्धव कैसे। आपका उपदेश सुन कर, मेरे हृदय में यह विश्वास हो गया कि मनुष्यों से बन्धु-बान्धव युक्त नहीं हो सकता, न वे, कष्ट के समय सहायता करके कष्ट-मुक्त ही कर सकते हैं। हाँ, कष्ट बड़ा भले दें। उन लोगों में, कष्ट मिटाने की क्षमता, है ही नहीं। कष्ट को तो समय ही दूर कर सकता है, जैसे, आपका कष्ट समय ने दूर किया था। हे मुनिराज, कष्टों से मुक्त करने वाला समय आपमें मौजूद है, इसलिए बन्धु बान्धवों से युक्त भी आपही हैं।

समय में दृढ़ होने पर, कष्टों का कारण ही मिट जाता है।

कष्ट नहीं मानते। सासारिक लोग, जिन्हें कष्ट कहते हैं, सयमी लोग, उन्हें ही अपना सहायक मानते हैं। सयमी विचारते हैं, कि 'ये कष्ट नहीं हैं, किन्तु हमारे सयम की परीक्षा करने वाली कसौटी है और इस कसौटी के पीछे ही वह सुख छिपा हुआ है, जिसके लिए हमने ससार त्याग कर सयम लिया है। कष्ट, ये नहीं है, किन्तु पुन पुन संसार में जन्मना मरना ही कष्ट है। यदि जन्म-मरण का दुःख मिट जाने, और इस दुःख मिटने के बदले में, हमें यह शरीर भी दे देना पड़े, तो हर्ज नहीं।' इन विचारों के कारण, सयमी के समीप कष्ट तो आते ही नहीं।

'राजा श्रेणिक, सनाथी मुनि से कहता है—

तसि नाहो अणाहाण सव्व भूयाण सजया ।

खामोमि ते महाभाग इच्छामि अणुसासिज ॥५६॥

'पुच्छिज्जेणं मए तुच्च ज्जाण विग्घोय ज कम्मो ।

निर्मतिया य भोगेहिं त सव्व मरिसेहि मे ॥५७॥

भावार्थ—हे मुनिराज, सब अनाथ प्राणियों के नाथ आप ही हैं। हे महाभाग, मैं आपकी शिक्षा को इच्छता हूँ—स्वीकार करता हूँ—और आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। मैंने, प्रश्न करके आपके ध्यान में विनम्र किया और आपको भोग भोगने के लिए आमन्त्रित किया, ये सब अपराध क्षमा करें।

हे मुनिराज, मैं, आपका अनुशासन आपकी शिक्षा—इच्छता हूँ—स्वीकार करता हूँ। यह बात नहीं है, कि मैं आपकी शिक्षा

को आपके प्रभाव से प्रभावित होकर, या आपको प्रसन्न करने के लिए, या स्वीकार न करने पर आप नाराज होंगे, इसलिए स्वीकार करता होऊँ, किन्तु आपके उपदेश का मनन करके, उसे अच्छा समझ कर स्वीकार करता हूँ। मुझे, यह ता भय ही नहीं है, कि आपकी शिक्षा स्वीकार न करने पर, आप नाराज हो जावेंगे। मैंने, जब आपको भोगों के लिए आमन्त्रित किया और आपको मृपावादी ठहराया, उस समय भी आप रुष्ट नहीं हुए, तो आपका उपदेश न मानने पर, आप रुष्ट क्यों होंगे। इसी प्रकार, आपका उपदेश मान लेने से, आपको असाधारण प्रसन्नता भी न होगी। क्योंकि, मैंने जब आपके रूप सौन्दर्य की प्रशंसा की, तब आप पर मेरे कथन का कोई प्रभाव नहीं पडा और आपने मुझे अनाथ कह ही तो, दिया। इसलिए, आपकी प्रसन्नता अप्रसन्नता को दृष्टि में रखकर, मैं आपका उपदेश स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, किन्तु आपके उपदेश ने, मेरे हृदय को पलट दिया, मेरी उलटी समझ मिटा दी, इसलिए मैं आपके उपदेश को स्वीकार एव हृदय में धारण करता हूँ।

हे महाभाग, आप, मेरे अपराध क्षमा करो। यद्यपि आप क्षमावान हैं और मेरे अपराधों पर ध्यान न देकर, मुझ पर दया ही करते रहे हैं। मेरे अपराधों के बदले में, आपने मुझ पर क्रोध नहीं किया, न रुष्ट ही हुए, और न बुरा ही माना, किन्तु मुझे

दयनीय मानकर; मुझे अनाथ सनाथ का स्वरूप समझाया और मेरा भ्रम तथा अज्ञान मिटा दिया। फिर भी, यदि मैं अपने अपराधों को आपसे क्षमा न कराऊँ, अब भी मैं अपने अपराधों को न समझ सकूँ, तो यह मेरी महान् कृतघ्नता एवं मूर्खता होगी। सब से पहले तो मैंने आपके ध्यान में विघ्न किया, और आप से यह पूछ कर आपकी असातना की, कि इस भोग के योग्य अवस्था में, आपने दीक्षा क्यों ले ली? यद्यपि मैंने, यह प्रश्न अज्ञानवश किया था, क्योंकि, उस समय तक मैं, इस अवस्था को भोग के ही योग्य समझता था, फिर भी वास्तविक बात को समझने से पूर्व ऐसा प्रश्न करना, अपराध है। मैंने आपके ध्यान में भी विघ्न किया और आपसे प्रश्न भी ऐसा किया, कि जिससे आपकी असातना हुई। यह, मेरा अपराध आप क्षमा करें।

हे महाभाग! मेरा दूसरा अपराध यह है, कि मैं आपका नाथ बनने को तयार हुआ और आपको, सासारिक भोग भोगने के लिए आमन्त्रित किया। यह अपराध भी, मुझ से अज्ञानवश ही हुआ है। अज्ञान से ही, मैंने, आप जैसे त्यागी को, सासारिक भोगों के लिए आमन्त्रित किया था। आप, मेरा यह अपराध भी क्षमा करें।

सासारिक भोगों के त्यागी सनाथी मुनि को, राजा श्रेणिक ने, भोग भोगने के लिए आमन्त्रित ही किया था। इस आम-

न्त्रण को भी, राजा श्रेणिक अपना अपराध मान रहा है और उसे क्षमा करा रहा है। ऐसी दशा में, त्यागियों के लिए भोग-सामग्री जुटाना, उन्हें भोगी बनाना, या भोगी बनाने की चेष्टा करना, क्या अपराध नहीं है? अवश्य ही अपराध है, और बहुत से लोग इस बात को जानते भी हैं, फिर भी इस पाप में क्यों प्रवृत्त होते हैं, यह समझ में नहीं आता।

राजा श्रेणिक कहता है—हे महामुनि, मेरा तीसरा अपराध यह है, कि मैंने आपके कथन को मिथ्या कह कर, आपके महाव्रत को दूषित बताया। यद्यपि, आपने मुझे अनाथ ठीक ही कहा था, लेकिन मैं अनाथ हूँ और जिन्हे मैं, सचमुच अनाथ समझ रहा था, वे आप सनाथ हैं, यह बात मेरी समझ में, आप का उपदेश सुनने पर, ही आई। मैंने, अज्ञानवश आपकी असातना की, इसके लिए, मैं आप से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आप, क्षमा करें। यद्यपि आप सन्त हैं, आपके समीप, कोई अपराधी या उपकारी तो है ही नहीं। चाहे कोई आपकी निन्दा करे या प्रशंसा, आपकी अवज्ञा करे या वन्दना, आप सभी पर समान कृपा रखते हैं। यह, सन्तों का स्वाभाविक लक्षण ही है। फिर भी, मैं अपने आत्मा को हलका करने के लिए अपने हृदय को शुद्ध बनाने के लिए और अपने पापों से निवर्तने के लिए आपसे क्षमा-प्रार्थना करता हूँ। आप, मुझे क्षमा प्रदान करें।

यह कह कर, श्री सुधर्मा स्वामी, श्री जम्बू स्वामी से कहते हैं—

एव धुणित्ताय स रायसोहो

अणगारसोह परमाइ भक्तिए ।

स आरोहो य स बन्धवो य

धम्माणुरत्तो विमलेण चेषसा ॥५८॥

उस्तासिय रोमकूपो काऊणय पयाहिय ।

अभिर्वन्दिऊण सिरसा अइयाओ नराहिवो ॥५९॥

भावार्थ—वह राजसिंह श्रेणिक, इस प्रकार भक्ति पूर्वक मुनिसिंह की स्तुति करके, निर्मल मन से, बन्धु बान्धवों और अन्तःपुर सहिन धर्म का अनुरागी हुआ। प्रसन्नता के कारण, उसके शरीर में, रोमांच हो रहा था। वह, मुनि की प्रदक्षिणा एवं मुनि को घण्टना नमस्कार करके, अपने स्थान पर चला गया।

राजा श्रेणिक, उस समय के राजाओं में, सिंह के समान बड़ा माना जाता था। दूसरे राजाओं की अपेक्षा, उसमें, धल, बुद्धि, साहस, धैर्य, आदि सद्गुण भी अधिक थे, राज्य विस्तार भी अधिक था, वैभव सम्पदा में भी अप्रतिम था। इसी प्रकार, वह सत्य घात को स्वीकार करने, या कहने में भी भय था सफाच नहीं करता था। सनाथी मुनि ने, प्रारम्भ में जब उसे अनाथ बताया था, तब उसने, मुनि से निर्भयता-पूर्वक यह कहा था, कि 'मैं अनाथ कैसे हूँ ? मुनि को, भूठ तो न बोलना चाहिये।'

इस प्रकार निर्भयता-पूर्वक वात कहने का साहस, प्रत्येक आदमी में नहीं हो सकता। उस समय तक, वह अपनी वात सत्य समझ रहा था, इसलिए, मुनिकी वात को मिथ्या बताने में, वह किंचित भी भयभीत नहीं हुआ। इसी प्रकार, जब उसने अनाथता का स्वरूप समझ लिया, तब अपने आपको अनाथ मानने में, सकुचाया भी नहीं। वल्कि, सनाथी मुनि का उपदेश, स्वीकार कर लिया।

राजा श्रेणिक ने, पहले तो मुनि के सामने जाते ही उन्हें वन्दन-नमस्कार किया था। पश्चात्, मुनि से अपने प्रश्नों का उत्तर सुन कर उनका उपदेश श्रवण करके जाने के समय भी उसने क्षमा-प्रार्थना की और प्रदक्षिणा एवं वन्दन-नमस्कार किया। यह, साधुओं के समीप जाने आने एवं प्रश्न करने आदि के समय काम में लाई जाने वाली, बहुत साधारण सभ्यता है। इस सभ्यता एवं भक्ति के बिना, किसी सदुपदेश से पूर्णतया लाभ भी नहीं होता।

सनाथी मुनि ने, राजा श्रेणिक को जो उपदेश दिया था, उसमें, उन्होंने ऋद्धि-मुख या स्वर्ग का लोभ नहीं बताया था, किन्तु सासारिक बातों से, पराङ्गमुख होने का उपदेश दिया था। फिर भी मुनि का उपदेश सुनकर, उसे अपूर्व हर्ष हुआ। वह वीर और सत्य का जिज्ञासु था। इसी कारण, मुनि का उपदेश सुनकर, उसने अपना हृदय पलटने में, किंचित भी देर नहीं की। उसने अपने पूर्व-विचारों को त्याग दिया और मन में किसी प्रकार

ही मलिनता रखे बिना, निर्मल मन से, सनाथी मुनि द्वारा उपदेशत धर्म का अनुरागी हुआ। सनाथी मुनि के उपदेश-द्वारा मात्र धर्म से, केवल उसने अकेले ने ही लाभ नहीं लिया, किन्तु अपने साथ ही, रानियों एव वन्धु-बान्धवों को भी उस धर्म का लाभ दिया। अर्थात्, वह वन्धु, बान्धवों और रानियों सहित धर्म का अनुरागी हुआ।

सत्य के जिज्ञासु वीर का हृदय, सब्से उपदेश से, बहुत जल्दी पलट जाता है। ऐसा व्यक्ति, दुराग्रह या पक्षपात में नहीं पड़ता। यह बात दूसरी है कि परिस्थिति आदि के विचार से, ऐसा व्यक्ति, प्रकट में अपनी मान्यता न पलट सके, लेकिन उच्च कुल एव उच्च करणीवाला व्यक्ति, सच्ची बात स्वीकार करने में, कदापि देर न करेगा। मुनि के सब्से उपदेश को स्वीकार करने, एव व्यवहार में इस उपदेश को दृष्टि में रखने के कारण ही, राजा श्रेणिक, भविष्य में पद्मनाथ नाम का तीर्थङ्कर होगा।

श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं—

इयरो वि गुंणं समिद्धो तिगुत्ति गुत्तो तिदड विरओ य ।

विहग इव निप्पमुको विहरइ वसुह विगय मोहो ॥ ६० ॥

भावार्थ—गुणों से समृद्ध, त्रिगुत्ति से गुप्त और मन वचन काय से किसी को दण्ड न देनेवाले सनाथी मुनि भी, यन्धन रहित स्वतन्त्र पक्षी की तरह, मोह रहित अन्यत्र विचरने लगे।

